



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 19—फरवरी 25, 2011 (माघ 30, 1932)  
No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 19—FEBRUARY 25, 2011 (MAGHA 30, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

## [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the  
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 फरवरी 2011

सं. 66, दिनांक 21 जनवरी 2011—राष्ट्रपति, निम्नलिखित, नियुक्तियों  
नामों के आगे दी गई तारीखों से करते हैं :—(नौसेना अनुदेश 15/69 देखें।)

भारतीय नौसेना

स्थायी कैडर

मास्टर चीफ पेटी अफसर प्रथम श्रेणी के रैंक में

नाम, पद, नम्बर तथा दिनांक

गोविंद सिंह, एम सी ए एम I (163046के), 01 अप्रैल 2009

विमल प्रसाद, एम सी ए एम I (163362वी), 01 अप्रैल 2009

प्रदीप के पट्टनायक, एम सी ए ए I (193080डब्ल्यू), 01 अगस्त  
2009

अरूण कुमार सिंह, एम सी ए ए I (193060जैड), 01 नवम्बर 2009

सुधीर पठानिया, एम सी ए ए I (192896ए), 01 दिसम्बर 2009

परसुराम राउत, एम सी ए एम (डब्ल्यू) I (162727के), 01 अप्रैल  
2009

राम निवास, एम सी ए एम (डब्ल्यू) I (163577टी), 01 अप्रैल  
2009

बालगा जीवारतनम्, एम सी ए एम (डब्ल्यू) I (164098ए), 01 अप्रैल  
2009

उपमिन्द्र सिंह, एम सी ए ए (डब्ल्यू) I (192643ए), 01 अप्रैल 2009

रूपा राम, एम सी एट आर्म्स I (143679डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009

रतन सिंह, एम सी एट आर्म्स I (111128आर), 01 जून 2009

सतबीर सिंह, एम सी एट आर्म्स I (143610एन), 01 सितम्बर 2009

प्रहलाद सिंह, एम सी एट आर्म्स I (149619डब्ल्यू), 01 नवम्बर  
2009

विजय सिंह, एम सी ए (एएच) I (112454वी), 01 अप्रैल 2009

करण सिंह, एम सी ए (एएच) I (149401जैड), 01 अप्रैल 2009

सुरेश टी आर, एम सी ए (एएच) I (160843वी), 01 अप्रैल 2009

भरत सिंह, एम सी ए (मेट) I (161258वाई), 01 मई 2009

बलविन्दर सिंह, एम सी ए (एएच) I (114143टी), 01 जून 2009

प्रदीप कुमार, एम सी ए (एएच) I (162954ए), 01 दिसम्बर 2009

सीजु जोसफ, एम सी पी ओ आर टी ई एल I (119085जैड), 18 नवम्बर 2008

हृदय नारायण सिंह, एम सी पी ओ आर टी ई एल I (114253टी), 01 अप्रैल 2009

कृष्णा कुमार सिंह, एम सी पी ओ आर टी ए सी I (160503एफ), 01 अप्रैल 2009

सतीसन् एन, एम सी पी ओ आर टी ए सी I (160825एन), 01 अप्रैल 2009

लालजी पाल, एम सी पी ओ आर टी ए सी I (162138वाई), 01 मई 2009

संतोष कुमार उपाध्याय, एम सी पी ओ आर टी ए सी I (163075ए), 01 जून 2009

संजय कुमार सिंह, एम सी पी ओ आर टी ए सी I (114667एच), 01 जुलाई 2009

नारायण एस धामी, एम सी पी ओ आर टी ई एल I (114787एफ), 01 जुलाई 2009

वैदेही शरण शुक्ला, एम सी पी ओ आर टी ई एल I (162791एफ), 01 जुलाई 2009

ओम प्रकाश, एम सी पी ओ आर एस पी एल I (113800एन), 01 अगस्त 2009

शंकर नाजिर, एम सी पी ओ आर टी ई एल I (161070डब्ल्यू), 01 अगस्त 2009

विनय कुमार चौहान, एम सी ई ए ए I (197202एन), 01 अप्रैल 2009

किशोर कुमार असवाल, एम सी ई ए ए I (197418बी), 01 अप्रैल 2009

तपन कुमार पती, एम सी मेक (ए आर) I (162485के), 01 अप्रैल 2009

उदय नारायण तिवारी, एम सी ई ए ए आर I (197484बी), 02 अगस्त 2009

प्रेम आनन्द, एम सी ई ए (ए आर) I (197457टी), 01 जनवरी 2010

अब्दुल गफ्फार, एम सी मेक पी I (162203डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2008

इन्दर सिंह, एम सी मेक पी I (163568वाई), 01 अप्रैल 2009

विरेन्द्र कृष्णा, एम सी ई ए पी I (197702जैड), 01 अगस्त 2009

भीष्म पाल, एम सी मेक पी I (163129जैड), 02 अगस्त 2009

सुभाष चन्द्रा, एम सी मेक पी I (114520जैड), 01 सितम्बर 2009

राज कुमार यादव, एम सी मेक पी I (166967वाई), 01 सितम्बर 2009

परमजीत सिंह, एम सी ई ए पी I (197686एन), 01 दिसम्बर 2009

मदनलाल कालटा, एम सी ई ए आर I (197354एच), 01 अप्रैल 2009

अनुपम सिंह नेगी, एम सी ई ए आर I (197701वाई), 01 अप्रैल 2009

विक्रम सिंह यादव, एम सी ई ए आर I (197713जैड), 01 अप्रैल 2009

जसबीर सिंह, एम सी ई ए आर I (197721टी), 02 अगस्त 2009

राम सिंह, एम सी ई ए आर I (197551एफ), 06 अक्टूबर 2009

जगदीश सिंह नेगी, एम सी ई एल I (164858बी), 01 अगस्त 2009

तरसेम लाल माटलोटिया, एम सी ई एल ए आर I (161704के), 01 जून 2009

नसीब सिंह, एम सी ई एल ए आर I (166007आर), 12 सितम्बर 2009

सुरेश कुमार वी, एम सी ई एल पी I (160288टी), 01 जून 2009

बी बी यादव, एम सी ई एल पी I (160508टी), 01 सितम्बर 2009

के सी साहु, एम सी ई एल पी I (160187एन), 01 दिसम्बर 2009

लक्ष्मण दत्त जोशी, एम सी ई एल पी I (162580ए), 01 जनवरी 2010

शशीधर मिश्रा, एम सी ई एल आर I (162449बी), 01 जून 2009

अनूप कुमार, एम सी ई एल आर I (113496वाई), 01 जुलाई 2009

भूपेन्द्र यादव, एम सी ई एल आर I (161920ए), 01 नवम्बर 2009

दीप चन्द्रा पाण्डेय, एम सी ई एल आर I (161976बी), 01 मार्च 2010

धर सिंह राठौर, एम सी मेक I (113214एफ), 01 अप्रैल 2009

अशोक कुमार, एम सी मेक I (114128एच), 01 अप्रैल 2009

देवकी नंदन, एम सी मेक I (114250के), 01 अप्रैल 2009

धरम पाल, एम सी मेक I (114381एच), 01 अप्रैल 2009

एस रमेश, एम सी मेक I (114627टी), 01 अप्रैल 2009

स्विन्द्र सिंह, एम सी मेक I (149930ए), 01 अप्रैल 2009

गुलाब सिंह, एम सी मेक I (150085बी), 01 अप्रैल 2009

सुनील कुमार रे, एम सी मेक I (161435जैड), 01 अप्रैल 2009

संतनु अधिकारी, एम सी मेक I (161676वाई), 01 अप्रैल 2009

विनोद कुमार, एम सी मेक I (162389टी), 01 अप्रैल 2009

अरत् मलिक, एम सी ई आर ए I (167651ए), 01 अप्रैल 2009

मकारा साहु, एम सी ई आर ए I (171021के), 01 अप्रैल 2009

दिलबहादुर छेत्री, एम सी ई आर ए I (172502ए), 01 अप्रैल 2009

बरून कुमार मेहता, एम सी ई आर ए I (173090एन), 01 अप्रैल 2009

संतोसा कुमार दास, एम सी ई आर ए I (173101एन), 01 अप्रैल 2009

सत्यबीर सिंह, एम सी ई आर ए I (192892टी), 01 अप्रैल 2009  
 चोधरी टी किसन, एम सी ई आर ए I (169726टी), 21 अप्रैल 2009  
 अश्विनी कुमार, एम सी मेक I (163303डब्ल्यू), 01 जून 2009  
 बलीराम चंदेल, एम सी ई आर ए I (170708जैड), 01 सितम्बर 2009  
 रवि शंकर तिवारी, एम सी मेक I (163875डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2009  
 देश राज, एम सी एम ई I (112265जैड), 01 जुलाई 2008  
 इकबाल, एम सी एम ई I (146203एफ), 01 अप्रैल 2009  
 दिपाका कुमार दास, एम सी एम ई I (160993डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009

तरेन्द्रा प्रताप सिंह, एम सी एम ई I (162210के), 02 अगस्त 2009  
 अनीरूथ सिंह, एम सी एम ई I (163419एच), 03 सितम्बर 2009  
 राम यश गर्ग, एम सी एम ई I (112544एच), 01 नवम्बर 2009  
 रमेश कुमार, एम सी एम ई I (161065एच), 01 जनवरी 2010  
 राकेश सिंह पठानिया, एम सी एम ई I (193255टी), 01 अप्रैल 2009  
 हरीश चंद्र कटोच, एम सी एम डब्ल्यू ए I (193478जैड), 01 अप्रैल 2009

कोराडे सी किसन, एम सी एम डब्ल्यू ए I (193470एफ), 01 फरवरी 2010

करण सिंह सेखावत, एम सी पी ओ ए एफ I (164771एफ), 01 जून 2009

के सुरेश, एम सी पी ओ ए एफ I (164842टी), 01 जनवरी 2010  
 राज कुमार, एम सी पी ओ ए एफ I (165071एन), 01 जनवरी 2010  
 चैन सिंह, एम सी पी ओ ए ओ एफ I (114751जैड), 01 अप्रैल 2009  
 विक्रम सिंह कुशवाहा, एम सी पी ओ सी के(ओ) I (108626बी), 01 जनवरी 2010

फतेह बहादुर सिंह, एम सी पी ओ सी के(एस) I (107243के), 01 अक्टूबर 2009

सुरेश पाल सिंह तोमर, एम सी पी ओ I (112045जैड), 01 अप्रैल 2009

राम जीत प्रसाद, एम सी पी ओ I (146943एन), 01 अप्रैल 2009  
 वी टी डाली, एम सी पी ओ I (148894वाई), 01 अप्रैल 2009  
 जे शिवा शन मुगम, एम सी पी ओ I (148940ए), 01 अप्रैल 2009  
 चन्द्र प्रकाश शर्मा, एम सी पी ओ I (149230के), 01 अप्रैल 2009  
 काली राम, एम सी पी ओ I (160236जैड), 01 अप्रैल 2009  
 अरून दोभल, एम सी पी ओ I (160409टी), 01 अप्रैल 2009  
 दौलत राम शर्मा, एम सी पी ओ I (111859ए), 01 मई 2009

स्वामीनाथ यादवा, एम सी पी ओ I (113082एफ), 01 मई 2009  
 कृष्ण कुमार गौर, एम सी पी ओ I (148411जैड), 01 मई 2009  
 उदय कुमार सिंह, एम सी पी ओ I (149917वाई), 01 मई 2009  
 इन्दर सिंह, एम सी पी ओ I (160444वाई), 01 मई 2009  
 नंद लाल, एम सी पी ओ I (160614एच), 01 मई 2009  
 सुरिन्दर सिंह यादव, एम सी पी ओ I (113468एच), 01 जून 2009  
 लक्ष्मण सिंह नेगी, एम सी पी ओ I (149252के), 01 जून 2009  
 रमेश कुमार, एम सी पी ओ I (113325एच), 01 जुलाई 2009  
 श्रवण कुमार, एम सी पी ओ I (113494टी), 01 जुलाई 2009  
 मदन मोहन सिंह, एम सी पी ओ I (162246टी), 01 जुलाई 2009  
 त्रीलोक सिंह नेगी, एम सी पी ओ I (163088एफ), 01 अगस्त 2009  
 चन्द्रा शेखर, एम सी पी ओ I (149929जैड), 01 सितम्बर 2009  
 त्रीलोक सिंह इन्दोलिया, एम सी पी ओ I (162041ए), 01 सितम्बर 2009

सुरेश प्रसाद, एम सी पी ओ I (149949डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2009  
 संतोष कुमार, एम सी पी ओ I (113322ए), 01 नवम्बर 2009  
 लक्ष्मन जती, एम सी पी ओ I (113507वाई), 01 नवम्बर 2009  
 सिताराम सिंह, एम सी पी ओ I (161492बी), 01 नवम्बर 2009  
 कुलदीप सिंह कटोच, एम सी पी ओ I (113785बी), 01 दिसम्बर 2009

विजय केशवन, एम सी पी ओ I (114021आर), 01 दिसम्बर 2009  
 राम संजीवन, एम सी पी ओ I (162317बी), 01 दिसम्बर 2009  
 लीलाधर चौहान, एम सी पी ओ I (162996वाई), 01 दिसम्बर 2009  
 कुट्टी कृष्ण पिल्लै, एम सी पी ओ I (164941टी), 01 दिसम्बर 2009  
 भीम सिंह, एम सी पी ओ I (114608जैड), 01 जनवरी 2010  
 राम विलास, एम सी पी ओ I (163018वाई), 01 जनवरी 2010  
 हरि राम, एम सी पी ओ I (162012के), 01 मार्च 2010  
 भंवर लाल, एम सी पी ओ एम I (110877डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009  
 गोपाल दुबे, एम सी पी ओ एम I (112310ए), 01 अप्रैल 2009  
 राज पाल सिंह, एम सी पी ओ एम I (144472वाई), 01 अप्रैल 2009  
 नरेन्द्रानाथ के पी, एम सी पी ओ एम यू एस I (188261टी), 01 अप्रैल 2009

ब्रजकिशोर सनंतरेय, एम सी पी ओ एस टी डी I (143773एच), 01 सितम्बर 2009

राम कुमार, एम सी पी ओ एस टी डी I (143765आर), 01 जनवरी 2010

जय भगवान सिंह, एम सी पी ओ टी ओ पी I (107590जैड),  
11 जून 2009

अमर चन्द्रा, एम सी पी ओ टी ओ पी I (107563एन), 01 दिसम्बर  
2009

संजय कुमार सिंह, एम सी पी ओ डब्ल्यू टी आर I (112449टी),  
01 अप्रैल 2009

सुरेश कुमार सिंह, एम सी पी ओ डब्ल्यू टी आर I (147864एफ),  
01 अप्रैल 2009

दीप नारायण, एम सी पी ओ डब्ल्यू टी आर I (161274एच),  
01 अगस्त 2009

सुरेश सिंह, एम सी पी ओ डब्ल्यू टी आर I (149702एच),  
01 सितम्बर 2009

राज सिंह, एम एस सी पी ओ I (143224के), 01 अक्टूबर 2009

संतोष कुमार, एम एस सी पी ओ I (111302के), 01 नवम्बर 2009

गणपती के सी, एम एस सी पी ओ I (111483वाई), 01 नवम्बर 2009

ओम पाल सिंह, एम एस सी पी ओ I (149772टी), 01 जनवरी 2010

कनक कृष्णा देवनाथ, एम सी ए एम I (112054डब्ल्यू), 01 अप्रैल  
2005

रविन्दर कुमार, एम सी ए एम I (112626डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2005

राज पाल सिंह, एम सी ए एम I (114155डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2005

अनिल कुमार एन एस, एम सी ए ए I (192699बी), 01 अप्रैल 2005

महि पाल सिंह, एम सी ए ए I (192738टी), 01 अप्रैल 2005

सत्यनाथन के ए, एम सी ए ए (डब्ल्यू) (192088आर), 01 अप्रैल  
2005

शंभू नाथ यादव, एम सी ए एम (डब्ल्यू) (112574ए), 01 जनवरी  
2006

ब्रिज राज सिंह, एम सी एट आर्मस् I (142308बी), 01 अक्टूबर 2005

यसवंत सिंह चौहान, एम सी एट आर्मस् I (108853डब्ल्यू),  
01 नवम्बर 2005

काश्मीर सिंह, एम सी ए (एस ई) I (107939टी), 01 मई 2005

जी एस चौधरी, एम सी ए (एएच) I (108794के), 01 जून 2005

ए के ज्योति, एम सी ए (मेट) I (146015बी), 01 जून 2005

आर डी सिंह, एम सी ए (एएच) I (111306डब्ल्यू), 01 जनवरी 2006

अजित सिंह सैनी, एम सी पी ओ आर एस पी एल I (143438वाई),  
01 अप्रैल 2005

राजेन्द्र कुमार, एम सी पी ओ आर टी ए सी I (143990ए), 01 अप्रैल  
2005

पी आर सशीधरन, एम सी पी ओ आर टी ई एल I (201493आर),  
01 अप्रैल 2005

राम किशन यादव, एम सी पी ओ आर टी ई एल I (144347एन),  
01 मई 2005

अशोक कुमार काशिव, एम सी पी ओ आर एस पी एल I (146292एच),  
01 जून 2005

जींदर सिंह, एम सी पी ओ आर टी ई एल I (109160टी), 01 जुलाई  
2005

नरीन्दर सिंह, एम सी पी ओ आर एस पी एल I (143524टी),  
01 अगस्त 2005

मोहनलाल साह, एम सी पी ओ आर टी ए सी I (110803ए),  
01 नवम्बर 2005

शत्रुघ्न सिंह, एम सी पी ओ आर टी ई एल I (144380एन),  
01 नवम्बर 2005

राम भुज रावत, एम सी पी ओ आर एस पी एल I (146857टी),  
01 नवम्बर 2005

प्रेम सिंह चौहान, एम सी मेक (ए एल) I (112263डब्ल्यू),  
01 अप्रैल 2005

पुष्कर सिंह रावत, एम सी मेक (ए एल) I (160451एन), 01 जनवरी  
2006

कृष्णा सिंह, एम सी मेक (ए आर) I (113573वाई), 01 अप्रैल 2005

अरूण कुमार राणा, एम सी ई ए ए आर I (192203ए), 01 अप्रैल  
2005

आर के प्रधान, एम सी ई ए पी I (114700एच), 01 अप्रैल 2005

निराकर साहु, एम सी ई ए पी I (162496के), 01 अप्रैल 2005

थॉमस सी ए, एम सी ई ए पी I (164428ए), 01 अप्रैल 2005

कृष्णा कुमार पी, एम सी ई ए पी I (166993एफ), 01 अप्रैल 2005

राकेश कुमार, एम सी ई ए पी I (197422एन), 01 अप्रैल 2005

दिनेश कुमार धतवालिया, एम सी ई ए पी I (197423आर),  
01 अप्रैल 2005

सुनिल कुमार, एम सी ई ए पी I (197426वाई), 01 अप्रैल 2005

सुभाष सिंह, एम सी ई ए पी I (197436डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2005

पुरुषोत्तम एल वारजुरकर, एम सी ई ए पी I (197447डब्ल्यू),  
01 अप्रैल 2005

थॉमस एम पी, एम सी ई ए पी I (197451बी), 01 अप्रैल 2005

मनोज कुमार शर्मा, एम सी ई ए पी I (197479टी), 01 अप्रैल 2005

राकेश कुमार, एम सी ई ए पी I (197496एफ), 01 सितम्बर 2005

हरजिंदर सिंह सैनी, एम सी ई ए पी I (197519एच), 01 फरवरी 2006

प्रकाशन के, एम सी ई ए पी I (197530एच), 01 फरवरी 2006

मेघ सिंह, एम सी मेक आर I (112362डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2005

वकील सिंह, एम सी मेक आर I (148831बी), 01 अप्रैल 2005  
 शिव कुमार, एम सी मेक आर I (148959डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2005  
 गणेश शंकर गुप्ता, एम सी मेक आर I (148980टी), 01 अप्रैल 2005  
 अमजद अली, एम सी मेक आर I (149470एफ), 01 अप्रैल 2005  
 चान्द राम सिंह, एम सी मेक आर I (149539एन), 01 अप्रैल 2005  
 खिमानन्द जोशी, एम सी मेक आर I (149609वाई), 01 अप्रैल 2005  
 प्रमोद कुमार, एम सी ई ए आर I (192349एच), 01 अप्रैल 2005  
 स्वर्ण सिंह, एम सी मेक आर I (149437एफ), 01 फरवरी 2006  
 तानपुरे ए केशव, एम सी ई एल ए I (112103एफ), 01 अप्रैल 2005  
 सुशिल कुमार उपाध्याय, एम सी ई एल ए I (112914जैड), 01 जनवरी 2006  
 दलेर सिंह, एम सी ई एल ए आर I (112887एन), 01 जून 2005  
 स्वपन कुमार प्रधान, एम सी ई एल पी I (147372एन), 01 मार्च 2006  
 दिलिप कुमार, एम सी ई एल आर I (110597एच), 01 अप्रैल 2005  
 दलवीर सिंह, एम सी ई एल आर I (148341आर), 01 अप्रैल 2005  
 सुरबिर सिंह रावत, एम सी ई एल आर I (148707वाई), 01 अप्रैल 2005  
 भादुर सिंह, एम सी ई एल आर I (111970बी), 01 दिसम्बर 2005  
 भानु प्रताप गुप्ता, एम सी ई आर ए I (187616ए), 01 अप्रैल 2005  
 गायकवाड सुनिल रावसाहेब, एम सी ई आर ए I (187627ए), 01 अप्रैल 2005  
 बशीर ए बाशा, एम सी ई आर ए I (187664के), 01 अप्रैल 2005  
 ए कुमार वेंकटेश, एम सी ई आर ए I (187665एन), 01 अप्रैल 2005  
 एम रामलिंगम, एम सी ई आर ए I (187666आर), 01 अप्रैल 2005  
 अमृता प्रसाद बन्दे, एम सी ई आर ए I (187669वाई), 01 अप्रैल 2005  
 गारा जॉन सुधाकर, एम सी ई आर ए I (187671ए), 01 अप्रैल 2005  
 राज कुमार, एम सी ई आर ए I (187679डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2005  
 तराटे भागचंद केरू, एम सी ई आर ए I (187684एफ), 01 अप्रैल 2005  
 प्रमोद अमृतराव कनसे, एम सी ई आर ए I (191535एच), 01 अप्रैल 2005  
 चन्दर भानु, एम सी ई आर ए I (191953एच), 01 अप्रैल 2005  
 पीटर ऑन्तेनी वी, एम सी ई आर ए I (187619एच), 01 मई 2005

उधम सिंह विकर्क, एम सी ई आर ए I (192103जैड), 01 जून 2005  
 जयंता मुजुमदार, एम सी ई आर ए I (192162एच), 01 नवम्बर 2005  
 जरनैल सिंह, एम सी ई आर ए I (192157वाई), 30 नवम्बर 2005  
 विरेंद्र सिंह यादव, एम सी मेक I (108663एन), 01 फरवरी 2006  
 विवेकानंद झा, एम सी मेक I (142255एच), 01 फरवरी 2006  
 जगदीश सिंह, एम सी एम ई I (110466के), 01 जून 2005  
 घनश्याम दुबे, एम सी एम ई I (109570जैड), 01 सितम्बर 2005  
 मो एस एच मजुमदार, एम सी एम ई I (144118टी), 01 अक्टूबर 2005  
 युवराज धुदम, एम सी एम ई I (144415टी), 01 नवम्बर 2005  
 विजय सिंह सपाहिया, एम सी एम ई I (148305एच), 01 फरवरी 2006  
 विनोद कुमार ओबी, एम सी एस डब्ल्यू ए I (187531एच), 01 अप्रैल 2005  
 रमेश एस, एम सी एस डब्ल्यू ए I (187631के), 01 अप्रैल 2005  
 पाटिल एकनाथ रामदास, एम सी एस डब्ल्यू ए I (187632एन), 01 अप्रैल 2005  
 एम अब्दुल रहिम, एम सी एस डब्ल्यू ए I (187636वाई), 01 अप्रैल 2005  
 प्रदीप के, एम सी एस डब्ल्यू ए I (187640एफ), 01 अप्रैल 2005  
 सुर्या भानु सिंह, एम सी एस डब्ल्यू ए I (191684वाई), 01 अप्रैल 2005  
 बिर्दे प्रताप सिंह, एम सी पी ओ ए एफ I (142995आर), 01 जून 2005  
 सोम पाल, एम सी पी ओ ए एफ I (110839एच), 01 फरवरी 2006  
 ब्रजेन्द्र कुमार सिंह, एम सी पी ओ ए ओ एफ I (113379एफ), 01 अप्रैल 2005  
 नरेन्द्र सिंह, एम सी पी ओ सी के (ओ) I (106914एन), 01 अगस्त 2005  
 पंचानन साहु, एम सी पी ओ सी के (एस) I (140518के), 01 अप्रैल 2005  
 हरेन्द्र सिंह, एम सी पी ओ I (108027टी), 01 अप्रैल 2005  
 अनिल कुमार राव, एम सी पी ओ I (108185ए), 01 अप्रैल 2005  
 किशन सिंह, एम सी पी ओ I (109979बी), 01 अप्रैल 2005  
 लालबहादूर, एम सी पी ओ I (141368टी), 01 अप्रैल 2005  
 दर्शन सिंह, एम सी पी ओ I (143640एफ), 01 अप्रैल 2005

- नेपाल साह, एम सी पी ओ I (147933एन), 01 अप्रैल 2005
- गजेंद्र पाल सिंह, एम सी पी ओ I (201907एफ), 01 अप्रैल 2005
- सतीष कुमार शर्मा, एम सी पी ओ I (202362आर), 01 अप्रैल 2005
- राजेन्द्र मोहन, एम सी पी ओ I (202512एफ), 01 अप्रैल 2005
- बिनय कुमार सिंह, एम सी पी ओ I (203559के), 01 अप्रैल 2005
- अनिल कुमार यादव, एम सी पी ओ I (204345वाई), 01 अप्रैल 2005
- एन के शोम, एम सी पी ओ I (108751एन), 01 मई 2005
- रबिन्द्र कुमार, एम सी पी ओ I (144401के), 01 मई 2005
- राज कुमार, एम सी पी ओ I (146069ए), 01 मई 2005
- गुरदियाल सिंह, एम सी पी ओ I (108401टी), 18 जून 2005
- कुलदीप सिंह, एम सी पी ओ I (177941एन), 09 जुलाई 2005
- कमल सिंह, एम सी पी ओ I (144627जैड), 01 अगस्त 2005
- सुशील कुमार जांगिड, एम सी पी ओ I (146244जैड), 01 अगस्त 2005
- राम अवतार, एम सी पी ओ I (111004एच), 01 सितम्बर 2005
- सीताराम, एम सी पी ओ I (110439जैड), 01 अक्टूबर 2005
- राधा कान्त पांडेय, एम सी पी ओ I (109394जैड), 01 नवम्बर 2005
- राधेश्याम सिंह, एम सी पी ओ I (109932वाई), 01 नवम्बर 2005
- गुलजारीलाल, एम सी पी ओ I (146449आर), 01 नवम्बर 2005
- सी आई जॉय, एम सी पी ओ I (146187डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2005
- तिरथ सिंह, एम सी पी ओ I (146259एच), 01 दिसम्बर 2005
- भार सिंह, एम सी पी ओ I (110166बी), 01 फरवरी 2006
- राजेश कुमार, एम सी पी ओ I (146868टी), 01 फरवरी 2006
- अमर सिंह, एम सी पी ओ I (147346बी), 01 फरवरी 2006
- लालजी यादव, एम सी पी ओ I (110588एन), 01 मार्च 2006
- राकेश चेंद्रा, एम सी पी ओ I (111030टी), 01 मार्च 2006
- बिर भान, एम सी पी ओ I (147685जैड), 01 मार्च 2006
- कृष्णा चन्द्रा राय, एम सी पी ओ एम I (142055बी), 01 जून 2005
- भंवर सिंह राठौर, एम सी पी ओ एम I (107591ए), 01 अगस्त 2005
- जसवंत सिंह, एम सी पी ओ एम I (143678टी), 01 सितम्बर 2005
- प्रेम सिंह, एम सी पी ओ एम I (141720टी), 01 नवम्बर 2005
- पटनाला सत्या राव, एम सी पी ओ एम यू एस I (188150आर), 01 अप्रैल 2005
- जनक सिंह, एम सी पी ओ एम टी डी I (108093टी), 01 जुलाई 2005
- नंदा दुलाल मण्डल, एम सी पी ओ एस टी डी I (106910बी), 26 दिसम्बर 2005
- एम एस मोहानन, एम सी पी ओ टी ओ पी I (150644जैड), 01 दिसम्बर 2005
- राजन पी के, एम सी पी ओ डब्ल्यू टी आर I (146577एफ), 01 जुलाई 2005
- करतार सिंह यादव, एम सी पी ओ डब्ल्यू टी आर I (110901जैड), 01 सितम्बर 2005
- रामकुमार राघव, एम सी पी ओ डब्ल्यू टी आर I (147834एन), 01 जनवरी 2006
- उत्तम सिंह, एम सी पी ओ डब्ल्यू टी आर I (147806जैड), 31 मार्च 2006
- शिव कुमार, एम एस सी पी ओ I (143554के), 01 अप्रैल 2005
- गंगुपम त्रिनाथामूर्ति, एम एस सी पी ओ I (144806एफ), 01 अप्रैल 2005
- अशोक कुमार, एम एस सी पी ओ I (109788डब्ल्यू), 01 जनवरी 2006
- मास्टर चीफ पेटी अफसर द्वितीय श्रेणी के रैंक में
- नाम, पद, नम्बर एवं दिनांक
- सत्य नारायण यादव, एम सी ए एम II (168876के), 01 अप्रैल 2005
- विमल कुमार सिंह, एम सी ए एम II (170605आर), 01 मई 2005
- राजीव कुमार संधिलया, एम सी ए ए (डब्ल्यू) II (192878के), 01 अप्रैल 2005
- जेम्स वर्गीस, एम सी ए ए (डब्ल्यू) II (193127ए), 01 अप्रैल 2005
- साजु थॉमस, एम सी ए ए (डब्ल्यू) II (193149ए), 01 अप्रैल 2005
- के बिजु, एम सी ए ए (डब्ल्यू) II (193298आर), 01 अप्रैल 2005
- मनोज कुमार चौहान, एम सी ए ए (डब्ल्यू) II (193111आर), 02 अप्रैल 2005
- शिबु अगस्टीन, एम सी ए ए (डब्ल्यू) II (193134टी), 01 जनवरी 2006
- बालकृष्णन टी, एम सी एट आर्म्स II (149225जैड), 01 मई 2005
- मनोज कुमार, एम सी एट आर्म्स II (160604के), 01 मई 2005
- वेद प्रकाश, एम सी एट आर्म्स II (149989के), 01 अक्टूबर 2005
- नवरंग सिंह, एम सी एट आर्म्स II (150937आर), 01 नवम्बर 2005

राम बिनोद ठाकुर, एम सी एट आर्म्स II (161512जैड), 01 जनवरी 2006

विजेन्द्र सिंह, एम सी एट आर्म्स II (162226वाई), 01 फरवरी 2006  
के डी आर रेड्डी, एम सी ए (एएच) II (162507के), 01 मई 2005

प्रदीप बाजपेयी, एम सी ए (एएच) II (162153एफ), 01 जून 2005

तुलसी राम, एम सी ए (एस ई) II (162658बी), 01 जून 2005

राजबीर सिंह ध्रुव, एम सी ए (एस ई) II (163969एच), 01 जुलाई 2005

हरीश चन्द दुबे, एम सी ए (ए एच) II (164284जैड), 01 जुलाई 2005

शिशुपाल सिंह, एम सी ए (ए मेट) II (163773एन), 01 अगस्त 2005

वी जे कमलता, एम सी ए (ए एच) II (163188एच), 01 अक्टूबर 2005

ओम प्रकाश, एम सी ए (एएच) II (164601डब्ल्यू) 01 अक्टूबर 2005

सुरेश कुमार, एम सी पी ओ आर टी ई एल II (113776एच), 01 अप्रैल 2005

वेलाप्पु रामा मोहन, एम सी पी ओ आर टी ई एल II (113803डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2005

भंवर लाल रॉय, एम सी पी ओ आर टी ई एल II (114668के), 01 अप्रैल 2005

टोणी कुमार रॉय, एम सी पी ओ आर टी ई एल II (160050ए), 01 अप्रैल 2005

समशेर सिंह, एम सी पी ओ आर टी ई एल II (160879के), 01 अप्रैल 2005

कपिलेश मोहापात्रा, एम सी पी ओ आर टी ई एल II (162488टी), 01 अप्रैल 2005

पविथरन के पी, एम सी पी ओ आर टी ई एल II (162980के), 01 अप्रैल 2005

जयराम कुरिया, एम सी पी ओ आर टी ई एल II (114797बी), 01 मई 2005

भैरवी दत्त, एम सी पी ओ आर टी ई एल II (114724एन), 01 जून 2005

रामवीर सिंह, एम सी पी ओ आर टी ई एल II (162261ए), 01 जून 2005

आर दिनाथ्यालन, एम सी पी ओ आर टी ई एल II (163326वाई), 01 जून 2005

हरबिन्दर सिंह, एम सी पी ओ आर टी ई एल II (114194एच), 01 अगस्त 2005

सतीश चन्द्र राठौर, एम सी पी ओ आर टी ई एल II (162635ए), 01 अगस्त 2005

सुभाष चन्द, एम सी पी ओ आर टी ई एल II (114584डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2005

योगिन्दर, एम सी पी ओ आर टी ई एल II (161742वाई), 01 नवम्बर 2005

अक्षय कुमार बीसवाल, एम सी पी ओ आर टी ई एल II (162482बी), 01 नवम्बर 2005

कृष्णा नन्द शर्मा, एम सी पी ओ आर एस पी एल II (163663एन), 01 नवम्बर 2005

हरबिन्दर सिंह, एम सी पी ओ आर टी ई एल II (161343आर), 01 दिसम्बर 2005

श्याम पी त्रिपाठी, एम सी पी ओ आर टी ई एल II (163757ए), 01 फरवरी 2006

केदार सिंह, एम सी पी ओ आर टी ई एल II (164145एच), 01 फरवरी 2006

पी मुरलिधरन, एम सी मेक(ए एल) II (164850के), 01 अगस्त 2005

देवेन्द्र सिंह रावत, एम सी ई ए ए आर II (197420एच), 03 मार्च 2006

एम डी जे मुल्लीक, एम सी मेक पी II (164902बी), 01 अप्रैल 2005

राकेश कुमार सिंह, एम सी ई ए पी II (197505ए), 01 अप्रैल 2005

अमरेन्द्र कुमार सिंह, एम सी ई ए पी II (197699टी), 01 अप्रैल 2005

अजित कुमार, एम सी ई ए पी II (197706एच), 01 अप्रैल 2005

गणराज क्रिस्टोफर, एम सी ई ए पी II (197710टी), 01 अप्रैल 2005

नरेन्द्र पाल सिंह, एम सी ई ए पी II (197703ए), 01 सितम्बर 2005

निलेश मोरे, एम सी ई ए पी II (197697एन), 01 फरवरी 2006

इ मनोज, एम सी ई ए पी II (197715बी), 01 फरवरी 2006

नरेन्द्र सिंह, एम सी ई ए पी II (197717एच), 31 मार्च 2006

सत्यविन्द्र नाथ, एम सी ई ए आर II (197682बी), 01 अप्रैल 2005

सुनिल कुमार सिंह, एम सी ई ए आर II (197735जैड), 01 अप्रैल 2005

जार्ज जोसेफ, एम सी ई ए आर II (197744डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2005

मनीष भारद्वाज, एम सी ई ए आर II (197733डब्ल्यू), 02 अप्रैल 2005

एस शर्मा, एम सी ई ए आर II (197726बी), 01 फरवरी 2006

डी राजेश्वरन, एम सी ई ए आर II (197734वाई), 01 फरवरी 2006

उनास अलि खान, एम सी ई एल ए II (167302एच), 01 अप्रैल 2005

रमेश सिंह, एम सी ई एल ए II (167327आर), 01 अप्रैल 2005

पी साथियपालन, एम सी ई एल ए II (166452ए), 01 जनवरी 2006

करतार सिंह, एम सी ई एल ए आर II (164531के), 01 अप्रैल 2005

सरत चन्द्र दास, एम सी ई एल ए आर II (162726एच), 01 जून 2005

विजयकृष्णन पी, एम सी ई एल पी II (114814टी), 01 अप्रैल 2005

कुन्दन सिंह अधिकारी, एम सी ई एल पी II (162376एन), 01 अप्रैल 2005

राकेश पाल सिंह, एम सी ई एल पी II (162797डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2005

रबिनारायन दास, एम सी ई एल पी II (163524वाई), 01 अप्रैल 2005

गोपाल शरन सिंह, एम सी ई एल पी II (164234के), 01 अप्रैल 2005

राजनिश कुमार त्रिपाठी, एम सी ई एल पी II (164448वाई), 01 अप्रैल 2005

ओम प्रकाश सिंह, एम सी ई एल पी II (114758आर), 01 जनवरी 2006

जगबीर सिंह, एम सी ई एल पी II (179844एन), 01 मार्च 2006

अनिल कुमार, एम सी ई एल आर II (114177डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2005

जनार्दन यादव, एम सी ई एल आर II (114684वाई), 01 अप्रैल 2005

सुरज थापा, एम सी ई एल आर II (161642डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2005

रमेश चन्द, एम सी ई एल आर II (162633वाई), 01 अप्रैल 2005

श्रवण कुमार, एम सी ई एल आर II (114869टी), 01 मई 2005

श्रीनिवास कामत, एम सी ई एल आर II (163298एच), 15 जुलाई 2005

चव्हाण एस गनपत, एम सी ई एल आर II (114784जैड), 01 अगस्त 2005

कृष्णा प्रताप सिंह, एम सी ई एल आर II (162017वाई), 01 अक्टूबर 2005

अवनिद्रा कुमार, एम सी ई एल आर II (164297बी), 01 दिसम्बर 2005

दिनेश चन्द्र यादव, एम सी मेक II (113913डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2005

सतीष चन्द, एम सी मेक II (113988आर), 01 अप्रैल 2005

रमेश चन्द ठाकुर, एम सी मेक II (114243डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2005

कश्मीर सिंह, एम सी मेक II (160873वाई), 01 अप्रैल 2005

राजेन्द्र कुमार, एम सी मेक II (161256टी), 01 अप्रैल 2005

नन्द लाल, एम सी मेक II (161919जैड), 01 अप्रैल 2005

बनवारी लाल सैनी, एम सी मेक II (162220एच), 01 अप्रैल 2005

चन्दर वीर सिंह, एम सी मेक II (162426ए), 01 अप्रैल 2005

अनिल किशोर, एम सी मेक II (162631टी), 01 अप्रैल 2005

उमा शंकर, एम सी मेक II (162675टी), 01 अप्रैल 2005

मोहललाल कांगोत्रा, एम सी मेक II (163307बी), 01 अप्रैल 2005

सन्यासी सहानी, एम सी मेक II (163368टी), 01 अप्रैल 2005

कार्तिक सी राउत, एम सी मेक II (163482ए), 01 अप्रैल 2005

रमेश चौधरी, एम सी मेक II (163518एच), 01 अप्रैल 2005

एल वी एन एल प्रसाद, एम सी मेक II (163845ए), 01 अप्रैल 2005

येचुरू ससीधर, एम सी मेक II (163847एफ), 01 अप्रैल 2005

इन्द्रजीत, एम सी मेक II (164539बी), 01 अप्रैल 2005

सतिष चन्दर, एम सी मेक II (165123एफ), 01 अप्रैल 2005

मुकेश कुमार, एम सी मेक II (165993एच), 01 अप्रैल 2005

नाशिककर ए वसंत, एम सी ई आर ए II (169748टी), 01 अप्रैल 2005

दुर्योधन बिसवाल, एम सी ई आर ए II (171023आर), 01 अप्रैल 2005

दानवले दिलिप सोपान, एम सी ई आर ए II (171794टी), 01 अप्रैल 2005

रंजीथ वी, एम सी ई आर ए II (172896वाई), 01 अप्रैल 2005

देशमुख किशोर उत्तम, एम सी ई आर ए II (173575आर), 01 अप्रैल 2005

जयपाल सिंह, एम सी ई आर ए II (173730टी), 01 अप्रैल 2005

मनीष कुमार, एम सी ई आर ए II (173923एफ), 01 अप्रैल 2005



राजेश कोचरिल, एम सी ई आर ए II (173969के), 01 अप्रैल 2005  
 सतिष चन्द्र चंदोला, एम सी ई आर ए II (193331आर),  
 01 अप्रैल 2005  
 राजेश मंडल, एम सी ई आर ए II (193418एन), 01 अप्रैल 2005  
 नायडु एस अरुण कुमार, एम सी ई आर ए II (193474आर),  
 01 मई 2005  
 लक्ष्मी नारायण, एम सी मेक II (112631एफ), 01 जून 2005  
 राम अवतार कौशिक, एम सी ई आर ए II (173749के), 01 जून  
 2005  
 अनुप कुमार, एम सी ई आर ए II (193433वाई), 01 जून 2005  
 अश्विनी कुमार यादव, एम सी ई आर ए II (193482एच),  
 01 अक्टूबर 2005  
 राकेश बलवान, एम सी ई आर ए II (193448एफ), 01 नवम्बर  
 2005  
 मोलय कुमार दास, एम सी ई आर ए II (193469बी), 01 नवम्बर  
 2005  
 हरीश कुमार, एम सी मेक II (161889एफ), 30 नवम्बर 2005  
 सोहन सिंह, एम सी मेक II (113756एन), 01 फरवरी 2006  
 सुर्या एन पानिग्रही, एम सी मेक II (165233एफ), 01 फरवरी 2006  
 देविकर दत्तात्रय नाना, एम सी ई आर ए II (193446ए),  
 01 फरवरी 2006  
 अनुप सिंह, एम सी एम ई II (113591एन), 01 अप्रैल 2005  
 संजय कुमार सिंह, एम सी एम ई II (161673आर), 01 अप्रैल  
 2005  
 विनोद कुमार राय, एम सी एम ई II (163405ए), 01 अप्रैल 2005  
 यशवंत राय, एम सी एम ई II (163455आर), 01 अप्रैल 2005  
 हरेन्द्र पांडे, एम सी एम ई II (166521एच), 01 जून 2005  
 बी के त्रिपाठी, एम सी एम ई II (167297वाई), 01 जुलाई 2005  
 बिरेन्द्र कुमार यादव, एम सी एम ई II (112640ए), 01 अगस्त  
 2005  
 राम कृष्ण चौधरी, एम सी एम ई II (161607आर), 01 सितम्बर  
 2005  
 मुकेश कुमार, एम सी एम ई II (161196एफ), 01 अक्टूबर 2005  
 देवानंद सिंह, एम सी एम ई II (112750ए), 01 नवम्बर 2005  
 बिजेन्द्र सिंह, एम सी एम ई II (161583के), 01 नवम्बर 2005  
 प्रदिप कुमार, एम सी एम ई II (166984के), 01 दिसम्बर 2005  
 अरविंद कुमार सिंह, एम सी एम ई II (113083एच), 01 फरवरी  
 2006

अरविंद कुमार सिंह, एम सी एम ई II (165667टी), 01 फरवरी  
 2006  
 प्रमोथ कुमार पुहान, एम सी एम ई II (167705जैड), 01 मार्च  
 2006  
 कथोले अनिल रमेशराव, एम सी एम ई II (168089वाई), 31 मार्च  
 2006  
 जीवन गिरी, एम सी एस डब्ल्यू ए II (193496आर), 01 अप्रैल 2005  
 राहुल कुमार मिश्रा, एम सी एस डब्ल्यू ए II (193511जैड),  
 01 अप्रैल 2005  
 अनुप कुमार साहु, एम सी एस डब्ल्यू ए II (193524बी),  
 01 अप्रैल 2005  
 बिरम सिंह भदानी, एम सी एस डब्ल्यू ए II (193527के),  
 01 अप्रैल 2005  
 गुरदीप सिंह, एम सी एस डब्ल्यू ए II (193565वाई), 01 अप्रैल  
 2005  
 जय प्रकाश, एम सी एस डब्ल्यू ए II (193566जैड), 01 अप्रैल  
 2005  
 राजेश कुमार यादव, एम सी एस डब्ल्यू ए II (193570एच),  
 01 अप्रैल 2005  
 कृपा चार्या राय, एम सी एस डब्ल्यू ए II (193413ए), 12 जनवरी  
 2006  
 दिनेश कुमार, एम सी पी ओ ए एफ II (113128के), 01 अप्रैल  
 2005  
 कुलदिप सिंह, एम सी पी ओ ए एफ II (163122एच), 01 अप्रैल  
 2005  
 ओम प्रकाश, एम सी पी ओ ए एफ II (163131बी), 01 अप्रैल  
 2005  
 बच्चन सिंह, एम सी पी ओ ए एफ II (165268के), 01 जून 2005  
 राकेश बहादुर सिंह, एम सी पी ओ ए एफ II (165199बी),  
 01 फरवरी 2006  
 ब्रिजपाल सिंह, एम सी पी ओ ए ओ एफ II (164615ए),  
 01 अप्रैल 2005  
 तसवीर सिंह, एम सी पी ओ ए ओ एफ II (165796के),  
 01 अप्रैल 2005  
 आर साथिया धास, एम सी पी ओ सी के (ओ) II (107314वाई),  
 01 अगस्त 2005  
 बिरेंद्र सिंह, एम सी पी ओ सी के (ओ) II (107558ए),  
 01 अगस्त 2005  
 एम शेनमुंगावेलु, एम सी पी ओ सी के (एस) II (107357डब्ल्यू),  
 06 सितम्बर 2005

गिरराज सिंह, एम सी पी ओ सी के (एस) II (107219एफ), 01 नवम्बर 2005

मनवीर सिंह, एम सी पी ओ सी के (एस) II (107352एच), 30 नवम्बर 2005

प्रेम सिंह रावत, एम सी पी ओ सी के (एस) II (107865जेड), 01 जनवरी 2006

मान सिंह, एम सी पी ओ सी के (एस) II (109636जेड), 01 फरवरी 2006

राजेन्द्र, एम सी पी ओ II (113609बी), 01 अप्रैल 2005

राम फल, एम सी पी ओ II (113746आर), 01 अप्रैल 2005

मुश्ताक अहमद, एम सी पी ओ II (113795ए), 01 अप्रैल 2005

कमला प्रसाद यादव, एम सी पी ओ II (113798एच), 01 अप्रैल 2005

टीजी नरसम्पा, एम सी पी ओ II (114407टी), 01 अप्रैल 2005

सत्यवीर सिंह, एम सी पी ओ II (114571आर), 01 अप्रैल 2005

भरत सिंह, एम सी पी ओ II (114859डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2005

देश राज, एम सी पी ओ II (149771आर), 01 अप्रैल 2005

प्रदीप कुमार, एम सी पी ओ II (160405एच), 01 अप्रैल 2005

वेद राम, एम सी पी ओ II (161181वाई), 01 अप्रैल 2005

दिनेश सिंह, एम सी पी ओ II (161280वाई), 01 अप्रैल 2005

कमल सिंह, एम सी पी ओ II (161439एच), 01 अप्रैल 2005

इन्द्र सिंह ओझा, एम सी पी ओ II (161550के), 01 अप्रैल 2005

जोगिन्दर सिंह, एम सी पी ओ II (161564टी), 01 अप्रैल 2005

राज कुमार त्रिपाठी, एम सी पी ओ II (161628एन), 01 अप्रैल 2005

सुशांत कुमार घोष, एम सी पी ओ II (161683एन), 01 अप्रैल 2005

राधेश्याम एस कुशवाह, एम सी पी ओ II (161730डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2005

शैतान राम बिशनॉय, एम सी पी ओ II (162010एफ), 01 अप्रैल 2005

दिगम्बर सिंह, एम सी पी ओ II (162150जैड), 01 अप्रैल 2005

रमा कांत त्रिपाठी, एम सी पी ओ II (162191टी), 01 अप्रैल 2005

शम्भुनाथ मोहन्ता, एम सी पी ओ II (162275एच), 01 अप्रैल 2005

विजय कुमार मोहन्ती, एम सी पी ओ II (162282जैड), 01 अप्रैल 2005

रविनारायन कार, एम सी पी ओ II (162492ए), 01 अप्रैल 2005

चन्द्र देव एस यादव, एम सी पी ओ II (162718आर), 01 अप्रैल 2005

उमेश चन्द्र, एम सी पी ओ II (163106वाई), 01 अप्रैल 2005

रविन्दर कुमार, एम सी पी ओ II (163190एन), 01 अप्रैल 2005

तुले राम, एम सी पी ओ II (163727एच), 01 अप्रैल 2005

सुरेश कुमार शर्मा, एम सी पी ओ II (163985डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2005

रामना जोशी, एम सी पी ओ II (164443के), 01 अप्रैल 2005

रविन्दर कुमार, एम सी पी ओ II (164573एफ), 01 अप्रैल 2005

पी मधुसूदन रेड्डी, एम सी पी ओ II (177196डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2005

सरवेश त्रिपाठी, एम सी पी ओ II (112765के), 13 अप्रैल 2005

पला मुकेशचन्द्र चन्द्रकांत, एम सी पी ओ II (113183के), 01 मई 2005

के लाल श्रीवास्तव, एम सी पी ओ II (113747टी), 01 मई 2005

गोलाम मुस्तफा मोन्डल, एम सी पी ओ II (151185बी), 01 मई 2005

जय सिंह बोला, एम सी पी ओ II (163009ए), 01 मई 2005

हवा सिंह, एम सी पी ओ II (163135एन), 01 मई 2005

मृत्युंजय पृस्ती, एम सी पी ओ II (164038आर), 01 मई 2005

शिव किशोर द्विवेदी, एम सी पी ओ II (163095वाई), 01 जून 2005

प्रह्लाद कुमार दीक्षित, एम सी पी ओ II (160665जैड), 09 जुलाई 2005

धर्म वीर, एम सी पी ओ II (113596जैड), 01 अगस्त 2005

मनोहर लाल, एम सी पी ओ II (114768एन), 01 अगस्त 2005

शिव भान एस चौहान, एम सी पी ओ II (161634ए), 01 अगस्त 2005

सूर्य प्रकाश सिंह, एम सी पी ओ II (161867एफ), 01 अगस्त 2005

राम रघु नाथ, एम सी पी ओ II (164317जेड), 01 अगस्त 2005

राम नयन यादव, एम सी पी ओ II (113920के), 01 सितम्बर 2005

कुलदीप सिंह, एम सी पी ओ II (114138एफ), 01 सितम्बर 2005

रफीक खान, एम सी पी ओ II (114296आर), 01 सितम्बर 2005

रंधीर सिंह, एम सी पी ओ II (114872बी), 01 अक्टूबर 2005

सी पी आर सुधीर कुमार, एम सी पी ओ II (128439एच), 01 अक्टूबर 2005

सुरेन्द्र सिंह, एम सी पी ओ II (112129आर), 01 नवम्बर 2005  
 मोहम्मद असकंदर, एम सी पी ओ II (160061ए), 01 नवम्बर 2005  
 तीरथ राज, एम सी पी ओ II (162372बी), 01 नवम्बर 2005  
 राकेश कुमार पांडे, एम सी पी ओ II (162377आर), 01 नवम्बर 2005  
 सुनील कुमार सिन्हा, एम सी पी ओ II (162554टी), 01 नवम्बर 2005  
 नरेश कुमार, एम सी पी ओ II (163187एफ), 01 नवम्बर 2005  
 राजेन्द्र सिंह, एम सी पी ओ II (163582बी), 01 नवम्बर 2005  
 समशेर सिंह, एम सी पी ओ II (164620एन), 01 नवम्बर 2005  
 लखन लाल, एम सी पी ओ II (161269वाई), 01 दिसम्बर 2005  
 कमलेश कुमार सिंह, एम सी पी ओ II (161724एफ), 01 दिसम्बर 2005  
 अशोक कुमार, एम सी पी ओ II (163971एन), 01 दिसम्बर 2005  
 अनिल कुमार सिंह यादव, एम सी पी ओ II (162704एच), 01 जनवरी 2006  
 राजेन्द्र सिंह, एम सी पी ओ II (163141ए), 01 जनवरी 2006  
 आनन्द सिंह, एम सी पी ओ II (161991एन), 01 फरवरी 2006  
 बलराम मोंडल, एम सी पी ओ II (163461बी), 01 फरवरी 2006  
 आई उदय कुमार, एम सी पी ओ II (162611वाई), 01 मार्च 2006  
 सत्यनारायण, एम सी पी ओ II (114679के), 31 मार्च 2006  
 प्रदीप कुमार पांडे, एम सी पी ओ II (162454आर), 31 मार्च 2006  
 अर्जुन शिवाजी मांडगे, एम सी पी ओ II (164401आर), 31 मार्च 2006  
 उमेश सिंह, एम सी पी ओ II (164669जैड), 31 मार्च 2006  
 बिजेन्द्र सिंह, एम सी पी ओ एम II (149094ए), 01 जून 2005  
 अनिल कुमार सिंह, एम सी पी ओ एम II (112368एच), 01 अगस्त 2005  
 सूबे सिंह, एम सी पी ओ एम II (112892जैड), 01 अगस्त 2005  
 हीरा सिंह, एम सी पी ओ एम II (148555ए), 01 सितम्बर 2005  
 राज कुमार, एम सी पी ओ एम II (112638वाई), 01 नवम्बर 2005  
 सुरेन्द्र कुमार, एम सी पी ओ एम II (148608वाई), 01 नवम्बर 2005  
 रविन्दर सिंह, एम सी पी ओ एम II (148052एफ), 01 नवम्बर 2005  
 महेन्द्र डी शर्मा, एम सी पी ओ एम II (160570एच), 01 नवम्बर 2005

रमेश कुमार, एम सी पी ओ एम II (112496जैड), 01 जनवरी 2006  
 सुरेश पाल सैनी, एम सी पी ओ एम II (113431जैड), 01 जनवरी 2006  
 विजय पाल सिंह, एम सी पी ओ एम II (113720एफ), 01 फरवरी 2006  
 आर कुमार लाल करम, एम सी पी ओ एम यू एस II (188169एच), 01 अप्रैल 2005  
 रोशन लाल, एम सी पी ओ एस टी डी II (145001जैड), 01 जून 2005  
 शेख मौउला, एम सी पी ओ एस टी डी II (145313एच), 01 जुलाई 2005  
 रोस्तम राम, एम सी पी ओ एस टी डी II (145024ए), 10 नवम्बर 2005  
 जोगिन्दर सिंह, एम सी पी ओ एस टी डी II (143701डब्ल्यू), 01 फरवरी 2006  
 घेंघाट गणेश मुंशीलाल, एम सी पी ओ टी ओ पी II (107831वाई), 01 नवम्बर 2005  
 मचा सूर्या राव, एम सी पी ओ टी ओ पी II (107954ए), 01 नवम्बर 2005  
 बचा लाल राम, एम सी पी ओ टी ओ पी II (108638एफ), 01 नवम्बर 2005  
 गनिसिटी आनन्द, राजू, एम सी पी ओ डब्ल्यू टी आर II (112977टी), 01 अप्रैल 2005  
 राजेन्द्र प्रसाद, एम सी पी ओ डब्ल्यू टी आर II (149668एफ), 01 अप्रैल 2005  
 सज्जन कुमार सोनी, एम सी पी ओ डब्ल्यू टी आर II (160782आर), 01 अप्रैल 2005  
 लक्ष्मी नारायण, एम सी पी ओ डब्ल्यू टी आर II (161410टी), 01 अप्रैल 2005  
 हंस राज, एम सी पी ओ डब्ल्यू टी आर II (160787ए), 01 जुलाई 2005  
 श्रीधरण जयाकुमार, एम सी पी ओ डब्ल्यू टी आर II (113356बी), 01 सितम्बर 2005  
 बच्चन राम चौधरी, एम सी पी ओ डब्ल्यू टी आर II (113647आर), 01 जनवरी 2006  
 गौतम सिंह, एम सी पी ओ डब्ल्यू टी आर II (161640आर), 01 फरवरी 2006  
 नारायण समल, एम सी पी ओ डब्ल्यू टी आर II (160987एफ), 31 मार्च 2006

मुकेश कुमार वर्मा, एम सी पी ओ डब्ल्यू टी आर II (163183वाई),  
31 मार्च 2006

एम नारायण दूबे, एम एस सी पी ओ II (147826डब्ल्यू), 01 मई  
2005

उदय सिंह, एम एस सी पी ओ II (111801डब्ल्यू), 01 जुलाई 2005  
हरदेव सिंह सिकारवार, एम एस सी पी ओ II (148081जैड),  
01 अगस्त 2005

धारमल सिंह, एम एस सी पी ओ II (113336एच), 01 नवम्बर 2005  
सुभाष चन्दर शुक्ला, एम एस सी पी ओ II (161217बी),  
01 नवम्बर 2005

श्रवण कुमार लोधी, एम एस सी पी ओ II (161246डब्ल्यू),  
01 नवम्बर 2005

जय प्रकाश यादव, एम एस सी पी ओ II (161454टी), 01 नवम्बर  
2005

सुरेश कुमार, एम एस सी पी ओ II (113187डब्ल्यू), 01 जनवरी  
2006

परमानंद, एम एस सी पी ओ II (113901टी), 01 जनवरी 2006  
समीर रमेश भोइर, एम सी ए ए II (181011आर), 01 अप्रैल 2007  
के चन्द्र पलेई, एम सी ए ए II (179977आर), 01 फरवरी 2009  
सुधीर सिंह, एम सी ए ए II (116609वाई), 01 अप्रैल 2009  
बलजीत सिंह, एम सी ए ए II (117508आर), 01 अप्रैल 2009  
जी वी रमैया, एम सी ए ए II (117539के), 01 अप्रैल 2009  
जोगेन्द्र सिंह, एम सी ए ए II (117824एच), 01 अप्रैल 2009  
भाबातोष मण्डल, एम सी ए ए II (176944वाई), 01 अप्रैल  
2009

अखिलेश कुमार झा, एम सी ए ए II (176952आर), 01 अप्रैल  
2009

सिसीर कुमार साहु, एम सी ए ए II (177870ए), 01 अप्रैल 2009  
थंकाप्पन् विजु, एम सी ए ए II (178526टी), 01 अप्रैल 2009  
पी एस वेकंट प्रसाद, एम सी ए ए II (179008एन), 01 अप्रैल  
2009

अमर के सिंह, एम सी ए ए II (180644एफ), 01 अप्रैल 2009  
विवेक पुरी, एम सी ए ए II (180648आर), 01 अप्रैल 2009  
अरविंद कुमार, एम सी ए ए II (180981वाई), 01 अप्रैल 2009  
तरसेम सिंह, एम सी ए ए II (180988एन), 01 अप्रैल 2009  
मनोज टी, एम सी ए ए II (181434ए), 01 अप्रैल 2009  
प्रवीन राजन, एम सी ए ए II (181446बी), 01 अप्रैल 2009

दक्ष कुमार, एम सी ए ए II (181514एच), 01 अप्रैल 2009  
ऋषि कुमार यादव, एम सी ए ए II (181553वाई), 01 अप्रैल 2009  
अविनाश पाण्डेय, एम सी ए ए II (181559के), 01 अप्रैल 2009  
अमीत कुमार, एम सी ए ए II (193762डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009  
डी सुब्बा राव, एम सी ए ए II (193782आर), 01 अप्रैल 2009  
बी शरद रेड्डी, एम सी ए ए II (193951जैड), 01 अप्रैल 2009  
गोपाल चौबे, एम सी ए ए II (193956के), 01 अप्रैल 2009  
मोहमद मुजाहीद क्यूरोशी, एम सी ए ए II (193968एन), 01 अप्रैल  
2009

योगेश कुमार, एम सी ए ए II (194010एच), 01 अप्रैल 2009  
पंकज कुमार, एम सी ए ए II (194045एन), 01 अप्रैल 2009  
मनीष कुमार त्यागी, एम सी ए ए II (194060वाई), 01 अप्रैल  
2009

गौरीश रावजी सिंगल, एम सी ए ए II (181419टी), 01 सितम्बर  
2009

पेन्टकोटा बी शेखर, एम सी ए ए II (194034एन), 01 सितम्बर  
2009

जी वी एल नागेश्वरराव, एम सी ए ए II (194078एन), 01 नवम्बर  
2009

नीरज कुमार, एम सी ए ए (डब्ल्यू) II (116306एच), 01 अप्रैल  
2009

मुकेश कुमार शर्मा, एम सी ए ए (डब्ल्यू) II (176263जैड),  
01 अप्रैल 2009

नारायण राम गुरेलिया, एम सी ए ए (डब्ल्यू) II (178366बी),  
01 अप्रैल 2009

राधाकांता चौधरी, एम सी ए ए (डब्ल्यू) II (179954एन),  
01 अप्रैल 2009

राजीव कुमार अहलावत, एम सी ए ए (डब्ल्यू) II (193896जैड),  
01 अप्रैल 2009

सुशील कुमार दुबे, एम सी ए ए (डब्ल्यू) II (193910एफ),  
01 अप्रैल 2009

समीत चक्रावर्ति, एम सी ए ए (डब्ल्यू) II (115562टी),  
02 अप्रैल 2009

बसन्त कुमार साहु, एम सी ए ए (डब्ल्यू) II (115883वाई),  
01 जुलाई 2009

गीरी के, एम सी ए ए (डब्ल्यू) II (118169टी), 01 दिसम्बर  
2009

मुनीष चन्द्रा, एम सी एट आर्मस् II (162146आर), 01 मई 2009

शीश राम, एम सी एट आर्मस् II (168069ए), 01 जून 2009

मोहिन्दर राम यादव, एम सी एट आर्मस् II (114662वाई), 01 जुलाई 2009

जगजीवन राम यादव, एम सी ए (एएच) II (163065बी), 01 अप्रैल 2009

भुपेन्द्र सिंह नायल, एम सी ए (एस ई) II (163295ए), 01 अप्रैल 2009

अशोक कुमार यादव, एम सी ए (मेट) II (164224एन), 01 अप्रैल 2009

राजेन्द्रन पी, एम सी ए (एएच) II (164724जैड), 01 अप्रैल 2009

बालाराम मोहापात्रा, एम सी ए पीएच II (164981एच), 01 जनवरी 2010

शिवाजी महतो, एम सी ए (एएच) II (165166बी), 01 जनवरी 2010

शिवाकुमार सी, एम सी ए (एएच) II (165155बी), 01 फरवरी 2010

रणबीर सिंह यादव, एम सी पी ओ आर एस पी एल II (164656डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009

दलीप कुमार दहिया, एम सी पी ओ आर एस पी एल II (165862के), 01 अप्रैल 2009

नरेश कुमार, एम सी पी ओ आर टी ई एल II (165889वाई), 01 अप्रैल 2009

कुमारन के, एम सी पी ओ आर एस पी एल II (166119डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009

पी के कुमार छोटभाई, एम सी पी ओ आर एस पी एल II (167294आर), 01 अप्रैल 2009

अक्षय कुमार समल, एम सी पी ओ आर टी ए सी II (167694जैड), 01 अप्रैल 2009

नीहर रंजन समल, एम सी पी ओ आर टी ए सी II (168977आर), 01 अप्रैल 2009

गौसबेग अमीरबेग, एम सी पी ओ आर टी ई एल II (168946डब्ल्यू), 21 मई 2009

जे डी के पी जोसेफ, एम सी पी ओ आर टी ए सी II (168898के), 01 जुलाई 2009

नवीन कुमार, एम सी पी ओ आर टी ई एल II (129630आर), 26 अगस्त 2009

एस कुमार चतुर्वेदी, एम सी पी ओ आर टी ई एल II (167556के), 01 जनवरी 2010

टी रविन्द्रा कुमार नायडु, एम सी पी ओ आर टी ई एल II (168371एन), 01 फरवरी 2010

इन्द्र राम, एम सी मेक (एएल) II (176733टी), 01 अप्रैल 2009

राजबाली बिंद, एम सी मेक (एएल) II (177557आर), 01 अप्रैल 2009

धीरज के शर्मा, एम सी ई ए ए II (180556एफ), 01 अप्रैल 2009

सोमबीर, एम सी ई ए ए II (180565ए), 01 अप्रैल 2009

बिनेश पी वी, एम सी ई ए ए II (180571आर), 01 अप्रैल 2009

कांदी अचीम नायडु, एम सी ई ए ए II (180595डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009

तपन के पात्रा, एम सी ई ए ए II (180597जैड), 01 अप्रैल 2009

अरूण के चौधरी, एम सी ई ए ए II (180603एन), 01 अप्रैल 2009

ए के शर्मा, एम सी ई ए ए II (180785ए), 01 अप्रैल 2009

पुनीत पाण्डेय, एम सी ई ए ए II (180789के), 01 अप्रैल 2009

सी के श्रीवास्तवा, एम सी ई ए ए II (180790एन), 01 अप्रैल 2009

प्रशान्त खरे, एम सी ई ए ए II (180919एफ), 01 अप्रैल 2009

कृष्ण कांत रावत, एम सी ई ए ए II (181207के), 01 अप्रैल 2009

ए विनोद कुमार, एम सी ई ए ए II (181235जैड), 01 अप्रैल 2009

राकेश के श्रीवास्तवा, एम सी ई ए ए II (181331टी), 01 अप्रैल 2009

मानस रंजन पट्टनायक, एम सी ई ए ए II (197840एन), 01 अप्रैल 2009

अविनाश सालुंके, एम सी ई ए ए II (197887डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009

सी एम बद्दीनाथ, एम सी ई ए ए II (197888वाई), 01 अप्रैल 2009

लिनो के फिलीप, एम सी ई ए ए II (197904एच), 01 अप्रैल 2009

नीलमनी दुबे, एम सी ई ए ए II (198020वाई), 01 अप्रैल 2009

एस जाहीर अब्बास रिजवी, एम सी ई ए ए II (198116आर), 01 अप्रैल 2009

रवि प्रकाश शर्मा, एम सी ई ए ए II (198043जैड), 01 जनवरी 2010

विजय बहादुर पाल, एम सी ई ए ए II (181326एफ), 01 जनवरी 2010

सिंगा राजु एस प्रसाद, एम सी मेक (ए आर) II (115712एच), 01 अप्रैल 2009

प्रतीप सेन, एम सी मेक (ए आर) II (176577एन), 01 अप्रैल 2009

अंकुश रामभाऊ दारोडे, एम सी मेक (ए आर) II (178339टी), 01 अप्रैल 2009

उत्तम छेत्री, एम सी मेक (ए आर) II (178870जैड), 01 अप्रैल 2009	तपस कुमार गोपे, एम सी ई ए पी II (175834जैड), 01 अप्रैल 2009
अशोक बन्सल, एम सी ई ए ए आर II (180510ए), 01 अप्रैल 2009	कमल कांत दाश, एम सी ई ए पी II (176516जैड), 01 अप्रैल 2009
हिमान्यु एस बिशी, एम सी ई ए ए आर II (180518डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009	संजय कुमार, एम सी ई ए पी II (176947बी), 01 अप्रैल 2009
गुलाब तायब ए खान, एम सी ई ए ए आर II (180544बी), 01 अप्रैल 2009	अशीम कुमार अधिकारी, एम सी मेक पी II (177373वाई), 01 अप्रैल 2009
अमर पाल, एम सी ई ए ए आर II (180676बी), 01 अप्रैल 2009	आनंद एस आर देओले, एम सी मेक पी II (177386ए), 01 अप्रैल 2009
परमानंद, एम सी ई ए ए आर II (180843एच), 01 अप्रैल 2009	राजीव रंजन विनीत, एम सी मेक पी II (177558टी), 01 अप्रैल 2009
अश्विनी कुमार, एम सी ई ए ए आर II (180931एच), 01 अप्रैल 2009	बिरांची नारायण साहु, एम सी मेक पी II (178146बी), 01 अप्रैल 2009
नेवासे एम गोपीनाथ, एम सी ई ए ए आर II (181217एच), 01 अप्रैल 2009	जितेन्द्र कुमार नाइक, एम सी मेक पी II (178147एफ), 01 अप्रैल 2009
राजदीप सरकार, एम सी ई ए ए आर II (197805एच), 01 अप्रैल 2009	मंजीत सिंह, एम सी ई ए पी II (178282एन), 01 अप्रैल 2009
सुदेश कुमार सिंह, एम सी ई ए ए आर II (197817के), 01 अप्रैल 2009	सीमान्ता बिस्वास, एम सी मेक पी II (178435के), 01 अप्रैल 2009
वी आर प्रेमकुमार, एम सी ई ए ए आर II (197822वाई), 01 अप्रैल 2009	मोहमद फैजुद्दीन, एम सी मेक पी II (178923डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009
एस सी तिवारी, एम सी ई ए ए आर II (197874आर), 01 अप्रैल 2009	के एस श्रीजीथ, एम सी ई ए पी II (180576ए), 01 अप्रैल 2009
राकेश शर्मा, एम सी ई ए ए आर II (197916के), 01 अप्रैल 2009	बिस्वारंजन ओझा, एम सी ई ए पी II (180610बी), 01 अप्रैल 2009
अमरेन्द्रा कुमार अरूण, एम सी ई ए ए आर II (197942डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009	दीपक हुड्डा, एम सी ई ए पी II (180682टी), 01 अप्रैल 2009
के वी चन्द्रा सेखर, एम सी ई ए ए आर II (197959एच), 01 अप्रैल 2009	आर के महापात्रा, एम सी ई ए पी II (180696जैड), 01 अप्रैल 2009
नंद किशोर, एम सी ई ए ए आर II (198021जैड), 01 अप्रैल 2009	के के वर्मा, एम सी ई ए पी II (180794वाई), 01 अप्रैल 2009
राजेश कुमार सैनी, एम सी ई ए ए आर II (198039आर), 01 अप्रैल 2009	ए के मिश्रा, एम सी ई ए पी II (180840ए), 01 अप्रैल 2009
श्रीकांत पी कुन्नाथ, एम सी ई ए ए आर II (181266डब्ल्यू), 01 मई 2009	जगत सिंह, एम सी ई ए पी II (180896बी), 01 अप्रैल 2009
श्याम सुन्दर सिंह, एम सी ई ए ए आर II (197993के), 08 मई 2009	सुमीत कुमार, एम सी ई ए पी II (180908एफ), 01 अप्रैल 2009
अनीस के सिंह, एम सी ई ए ए आर II (180975एच), 01 नवम्बर 2009	बलदाऊ प्रसाद, एम सी ई ए पी II (180927जैड), 01 अप्रैल 2009
हरि कुमार सी एच, एम सी ई ए पी II (180719ए), 01 फरवरी 2009	पेदी आर वी वी कृष्णा, एम सी ई ए पी II (180928ए), 01 अप्रैल 2009
	बिबेकानन्दा दास, एम सी ई ए पी II (197760एफ), 01 अप्रैल 2009
	मनीष कुमार, एम सी ई ए पी II (197769ए), 01 अप्रैल 2009
	दीपक सिंह बिष्ट, एम सी ई ए पी II (197796एन), 01 अप्रैल 2009
	राम नारायण, एम सी ई ए पी II (197806के), 01 अप्रैल 2009
	अजय प्रताप राय, एम सी ई ए पी II (197825बी), 01 अप्रैल 2009
	कावाडे मलोजी लिम्बाजी, एम सी ई ए पी II (197837एफ), 01 अप्रैल 2009

ध्याग सुधीर राजन, एम सी ई ए पी II (197858बी), 01 अप्रैल 2009

स्वपन कुमार साह, एम सी ई ए पी II (197876डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009

अरविन्द कुमार, एम सी ई ए पी II (197885आर), 01 अप्रैल 2009

अवधेश कुमार, एम सी ई ए पी II (197886टी), 01 अप्रैल 2009

रमेश कुमार, एम सी ई ए पी II (197917एन), 01 अप्रैल 2009

सरवेश कुमार, एम सी ई ए पी II (197921वाई), 01 अप्रैल 2009

सतवीर सिंह, एम सी ई ए पी II (197924बी), 01 अप्रैल 2009

बेनुधर छतोई, एम सी ई ए पी II (197948एच), 01 अप्रैल 2009

पवन कुमार, एम सी ई ए पी II (197970एच), 01 अप्रैल 2009

रजनीकांत कुंड, एम सी ई ए पी II (197974टी), 01 अप्रैल 2009

संजीत कुमार सिंह, एम सी ई ए पी II (197984आर), 01 अप्रैल 2009

सिबा प्रसाद मोहन्ती, एम सी ई ए पी II (197991एफ), 02 अप्रैल 2009

अनीस टी डी, एम सी ई ए पी II (180715टी), 02 अप्रैल 2009

सुरज कुमार आर, एम सी ई ए पी II (180572टी), 22 अप्रैल 2009

देविन्द्र कुमार, एम सी मेक पी II (115257जैड), 01 सितम्बर 2009

प्रताप चन्द्रा धल, एम सी ई ए पी II (179968डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2009

वी रूहानी, एम सी ई ए पी II (198057एफ), 01 सितम्बर 2009

आत्मा प्रसाद, एम सी ई ए पी II (179221वाई), 01 जनवरी 2010

राज कुमार, एम सी मेक पी II (179329टी), 01 जनवरी 2010

वनासेट्टी दिवाकर, एम सी ई ए पी II (198056बी), 01 जनवरी 2010

रूपिन्दर सिंह, एम सी मेक पी II (115614के), 01 फरवरी 2010

राजेन्द्र सिंह मुन्ड, एम सी मेक पी II (177676के), 01 फरवरी 2010

राज पाल, एम सी मेक पी II (178841एच), 01 फरवरी 2010

प्रकाश सी मल्लिक, एम सी ई ए पी II (179970जैड), 01 फरवरी 2010

निलांचल पांडा, एम सी ई ए पी II (180608जैड), 01 फरवरी 2010

नरेन्द्र एस राठौर, एम सी ई ए पी II (180895ए), 01 फरवरी 2010

संदीप अरोरा, एम सी ई ए पी II (180899के), 01 फरवरी 2010

अमरीश के शर्मा, एम सी ई ए पी II (180907बी), 01 फरवरी 2010

धरमेन्द्र सिंह, एम सी ई ए पी II (180915वाई), 01 फरवरी 2010

निर्मल सिंह, एम सी ई ए पी II (181152के), 01 फरवरी 2010

एम सी श्रीजीथ, एम सी ई ए पी II (181232टी), 01 फरवरी 2010

विक्रम सिंह लालोत्रा, एम सी ई ए पी II (198058एच), 01 फरवरी 2010

जनमेजाया राऊत, एम सी ई ए आर II (180619जैड), 01 अप्रैल 2008

जे पी सिंह, एम सी ई ए आर II (180844के), 01 सितम्बर 2008

एम मुरुगन, एम सी मेक आर II (178162आर), 01 फरवरी 2009

जोसफ विजय जी, एम सी मेक आर II (115274एन), 01 अप्रैल 2009

प्रदीप कुमार, एम सी मेक आर II (176005एन), 01 अप्रैल 2009

हर्ष वर्मा, एम सी मेक आर II (177126के), 01 अप्रैल 2009

अमरेन्द्र साहु, एम सी मेक आर II (177453बी), 01 अप्रैल 2009

अलक्सेन्डर के मुथालाली, एम सी मेक आर II (177549वाई), 01 अप्रैल 2009

महेश कुमार पाही, एम सी मेक आर II (177590आर), 01 अप्रैल 2009

सी रवि, एम सी मेक आर II (178774एफ), 01 अप्रैल 2009

राम कुमार, एम सी मेक आर II (178829एफ), 01 अप्रैल 2009

राम के मौर्या, एम सी ई ए आर II (180522बी), 01 अप्रैल 2009

हरजिन्द्र सिंह, एम सी ई ए आर II (180846आर), 01 अप्रैल 2009

दीपक कुमार, एम सी ई ए आर II (180847टी), 01 अप्रैल 2009

बी प्रसना कुमार, एम सी ई ए आर II (180865एच), 01 अप्रैल 2009

राजकुमार पाठक, एम सी ई ए आर II (180959वाई), 01 अप्रैल 2009

मनोज कुमार, एम सी ई ए आर II (181051एफ), 01 अप्रैल 2009

राजेश के शर्मा, एम सी ई ए आर II (181057डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009

जगदीश पी चन्द्रन, एम सी ई ए आर II (181098एन), 01 अप्रैल 2009

अभिलाष सिवदासन, एम सी ई ए आर II (181099आर),  
01 अप्रैल 2009

अरि विमल, एम सी ई ए आर II (181220आर), 01 अप्रैल 2009

पंकज कुमार यादव, एम सी ई ए आर II (181341आर), 01 अप्रैल  
2009

शिव कुमार टोडीवान, एम सी ई ए आर II (197813ए), 01 अप्रैल  
2009

प्रदीप ज्ञानोबा पाटिल, एम सी ई ए आर II (197845जैड),  
01 अप्रैल 2009

एम महाराजा, एम सी ई ए आर II (197868ए), 01 अप्रैल 2009

सुनील सिंह, एम सी ई ए आर II (197931डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009

सुरेश कुमार वर्मा, एम सी ई ए आर II (197932वाई), 01 अप्रैल  
2009

चंदन दास, एम सी ई ए आर II (197951आर), 01 अप्रैल 2009

सुकुमार दास, एम सी ई ए आर II (198044ए), 01 अप्रैल 2009

एस जोशी, एम सी ई ए आर II (198045बी), 01 अप्रैल 2009

राजेश कुमार, एम सी मेक आर II (174840आर), 02 अप्रैल 2009

अशोक कुमार, एम सी मेक आर II (175318ए), 01 जुलाई 2009

राकेश कुमार, एम सी ई ए आर II (181052एच), 01 सितम्बर  
2009

जोस जार्ज, एम सी ई ए आर II (181097के), 01 सितम्बर 2009

रंजन पाण्डेय, एम सी ई ए आर II (181146वाई), 01 सितम्बर 2009

राजेन्द्र सिंह, एम सी ई ए आर II (181147जैड), 01 सितम्बर 2009

गणेश दत्त जोशी, एम सी ई ए आर II (181150एफ), 01 सितम्बर  
2009

अन्तर्यामी महापात्रा, एम सी ई ए आर II (181281बी),  
01 सितम्बर 2009

राजेश यादव, एम सी ई ए आर II (181343डब्ल्यू), 01 सितम्बर  
2009

हेमराज, एम सी मेक आर II (177482डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2009

राकेन्द पी, एम सी ई ए आर II (181270बी), 01 दिसम्बर 2009

शिवजी प्रसाद कुशवाह, एम सी ई ए आर II (181340एन),  
01 दिसम्बर 2009

कमल कांत, एम सी ई ए आर II (181283एच), 01 फरवरी 2010

शेक गौस बासा, एम सी ई ए आर II (181494एन), 01 फरवरी  
2010

संजय कुमार एस, एम सी ई ए आर II (181542वाई), 01 फरवरी  
2010

शैलेन्द्र के सिंह, एम सी ई ए आर II (181548के), 01 फरवरी 2010

एस कुमार, एम सी ई ए आर II (198105आर), 01 फरवरी 2010

आलोक तारवेय, एम सी ई ए आर II (198121ए), 01 फरवरी  
2010

अशोक कुमार सिंह, एम सी ई एल ए II (168671डब्ल्यू),  
01 अगस्त 2009

सुरेश कुमार बेनीवाल, एम सी ई एल ए II (169213ए),  
01 दिसम्बर 2009

राजीव कुमार, एम सी ई एल ए आर II (168115एफ), 01 जुलाई  
2009

नागेन्द्रा कुमार सिंह, एम सी ई एल ए आर II (166387बी),  
01 जनवरी 2010

नरेन्द्र सिंह, एम सी ई एल पी II (165080एच), 01 अप्रैल 2009

दौलत राम, एम सी ई एल पी II (165628बी), 01 अप्रैल 2009

रविन्द्र नाथ ठाकुर, एम सी ई एल पी II (167546एन), 01 अप्रैल  
2009

दिलीप कुमार रॉय, एम सी ई एल पी II (167548टी), 01 अप्रैल  
2009

नरेश कुमार, एम सी ई एल पी II (169408डब्ल्यू), 01 अप्रैल  
2009

समय सिंह, एम सी ई एल पी II (169021आर), 01 जून 2009

बी देबनाथ, एम सी ई एल आर II (164922जैड), 01 अप्रैल  
2009

महादेव आर चौधरी, एम सी ई एल आर II (168620बी),  
01 अप्रैल 2009

हरि शंकर राय, एम सी ई एल आर II (167536आर), 01 जुलाई  
2009

सुमन पाल सिंह, एम सी ई एल आर II (167163टी), 01 सितम्बर  
2009

ओमबीर सिंह, एम सी ई एल आर II (168325एच), 01 दिसम्बर  
2009

प्रेम पाल सिंह, एम सी ई एल आर II (166496ए), 01 जनवरी  
2010

सुरेन्द्र सिंह चौहान, एम सी ई आर ए I (193178टी), 01 अप्रैल  
2008

अरूण कुमार कृष्णन, एम सी ई आर ए II (193639आर),  
01 अप्रैल 2008



बोरी सुधाकर गुप्ता, एम सी ई आर ए II (193689बी),  
01 सितम्बर 2008

कुरीयन कुरीयाकोस, एम सी ई आर ए II (177533के),  
01 फरवरी 2009

के सन्दीप, एम सी ई आर ए II (180485डब्ल्यू), 01 फरवरी 2009

किशोर कुमार वर्मा, एम सी ई आर ए II (180996एफ),  
01 फरवरी 2009

श्याजू लाल आर, एम सी ई आर ए II (181112डब्ल्यू), 01 फरवरी  
2009

दिवान सिंह, एम सी मैक II (168434एफ), 01 अप्रैल 2009

कुंवर सिंह, एम सी मैक II (169661डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009

पवन कुमार, एम सी मैक II (173322आर), 01 अप्रैल 2009

दयामोय दत्ता, एम सी मैक II (173593एफ), 01 अप्रैल 2009

राकेश सिंह, एम सी ई आर ए II (175855वाई), 01 अप्रैल 2009

दिनेश कुमार चोपड़ा, एम सी ई आर ए II (176470डब्ल्यू),  
01 अप्रैल 2009

देबासीसा मोहापात्रा, एम सी ई आर ए II (177471डब्ल्यू),  
01 अप्रैल 2009

संदीप कुमार, एम सी ई आर ए II (180391एफ), 01 अप्रैल 2009

रतनेश कुमार मिश्रा, एम सी ई आर ए II (180421जैड), 01 अप्रैल  
2009

राजीव जी शर्मा, एम सी ई आर ए II (180443जैड), 01 अप्रैल  
2009

मिश्रा राकेश कुमार, एम सी ई आर ए II (180490एफ), 01 अप्रैल  
2009

राजेश कुमार, एम सी ई आर ए II (180653ए), 01 अप्रैल 2009

विरेन्द्र चौधरी, एम सी ई आर ए II (180658एन), 01 अप्रैल 2009

समीर रंजन दास, एम सी ई आर ए II (180807ए), 01 अप्रैल 2009

नारायणकुमार पाणिग्रही, एम सी ई आर ए II (180814टी),  
01 अप्रैल 2009

सत्यारंजन दाश, एम सी ई आर ए II (180815डब्ल्यू), 01 अप्रैल  
2009

सुभाष चन्द्रा स्वैन, एम सी ई आर ए II (193555जैड), 01 अप्रैल  
2009

अरूण कुमार, एम सी ई आर ए II (193580एफ), 01 अप्रैल 2009

मनोज कुमार यादव, एम सी ई आर ए II (193592एच), 01 अप्रैल  
2009

मोहम्मद घौसेलाजम, एम सी ई आर ए II (193596टी), 01 अप्रैल  
2009

टेनापि संजय कुमार के, एम सी ई आर ए II (193632जैड),  
01 अप्रैल 2009

नरेश कुमार यादव, एम सी ई आर ए II (193656बी), 01 अप्रैल  
2009

पुरुषोत्तम दुबे, एम सी ई आर ए II (193660एन), 01 अप्रैल  
2009

रवि शंकर पाण्डेय, एम सी ई आर ए II (193667बी), 01 अप्रैल  
2009

सतेन्द्र सिंह यादव, एम सी ई आर ए II (193670के), 01 अप्रैल  
2009

सुमीत झाझरिया, एम सी ई आर ए II (193677ए), 01 अप्रैल  
2009

सुनील कुमार चतुर्वेदी, एम सी ई आर ए II (193678बी),  
01 अप्रैल 2009

विवेकानंद चौधरी, एम सी ई आर ए II (193685डब्ल्यू),  
01 अप्रैल 2009

शोन थॉमस, एम सी ई आर ए II (193711बी), 01 अप्रैल 2009

संजयकुमार श्रीवास्तव, एम सी ई आर ए II (193712एफ),  
01 अप्रैल 2009

निथिन कुमार, एम सी ई आर ए II (193733बी), 01 अप्रैल 2009

नितिन नय्यर, एम सी ई आर ए II (193734एफ), 01 अप्रैल  
2009

सुनील कुमार दुबे, एम सी ई आर ए II (193749आर), 01 अप्रैल  
2009

नवेल योगेश पी, एम सी ई आर ए II (180432जैड), 01 जुलाई  
2009

नीरज तंवर, एम सी ई आर ए II (180635के), 01 जुलाई 2009

नरेन्द्रा पाल सिंह, एम सी ई आर ए II (180828जैड), 01 जुलाई  
2009

राहांगदले पी गुलचंद, एम सी ई आर ए II (180438एन),  
02 अगस्त 2009

दाभोलकर रोहीत आर, एम सी ई आर ए II (180436एच),  
02 अगस्त 2009

संदीप बिष्ट, एम सी ई आर ए II (181067टी), 02 अगस्त 2009

विजय सिंह, एम सी ई आर ए II (193841जैड), 02 अगस्त 2009

इरफान अली अनसारी, एम सी मेक II (173473एच), 01 सितम्बर 2009

सुबे एस म्हातारबा, एम सी मेक II (175779जैड), 01 सितम्बर 2009

सुखदेव प्रसाद, एम सी मेक II (175908टी), 01 सितम्बर 2009

राम करन, एम सी मेक II (175975डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2009

राज कुमार गुप्ता, एम सी मेक II (176186जैड), 01 सितम्बर 2009

लाल मणी वर्मा, एम सी मेक II (176287बी), 01 सितम्बर 2009

चौधरी पी कुमार दास, एम सी ई आर ए II (177467के), 01 सितम्बर 2009

लोहार सतीश सुरेशराव, एम सी ई आर ए II (179731एफ), 01 सितम्बर 2009

रमेश कुमार यादव, एम सी ई आर ए II (181065एन), 01 सितम्बर 2009

गंगाधरराव अन्नादास, एम सी ई आर ए II (181119के), 01 सितम्बर 2009

कररी विजय कुमार, एम सी ई आर ए II (181125जैड), 01 सितम्बर 2009

आशीस कुमार, एम सी ई आर ए II (193760आर), 01 सितम्बर 2009

अनिल कुमार, एम सी ई आर ए II (193761टी), 01 सितम्बर 2009

अमित यादव, एम सी ई आर ए II (193768एच), 01 सितम्बर 2009

विजय कुमार दिक्षित, एम सी ई आर ए II (193773डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2009

धनंजया एस के, एम सी ई आर ए II (193781एन), 01 सितम्बर 2009

लिओ राजा एस, एम सी ई आर ए II (193791के), 01 सितम्बर 2009

पंकज कुमार चौधरी, एम सी ई आर ए II (193805टी), 01 सितम्बर 2009

आर प्रभू, एम सी ई आर ए II (193813के), 01 सितम्बर 2009

विजय शंकर सिंह, एम सी ई आर ए II (193844एफ), 01 सितम्बर 2009

इन्द्रजीत कुमार, एम सी ई आर ए II (193863जैड), 01 सितम्बर 2009

अम्बेकर डी रमेश, एम सी मेक II (177721एन), 01 अक्टूबर 2009

बसन्ता कुमार पटनायक, एम सी ई आर ए II (193853ए), 01 अक्टूबर 2009

सतनारायण शर्मा, एम सी मेक II (177286जैड), 01 जनवरी 2010

कोला श्रीनिवास, एम सी मेक II (177767टी), 01 जनवरी 2010

हरप्रीत सिंह, एम सी ई आर ए II (193729डब्ल्यू), 07 जनवरी 2010

पाटील दिपक नारायण, एम सी मेक II (172003टी), 25 जनवरी 2010

संश्रुत कुमार एम आर, एम सी मेक II (178189ए), 01 फरवरी 2010

अकील अहमद, एम सी ई आर ए II (180659आर), 01 फरवरी 2010

वडलापुडी किरण बाबु, एम सी ई आर ए II (180870डब्ल्यू), 01 फरवरी 2010

जेरोम सायमन एम, एम सी ई आर ए II (181002डब्ल्यू), 01 फरवरी 2010

शकील अहमद, एम सी ई आर ए II (181187आर), 01 फरवरी 2010

श्रीजीथ बाबु एम एस, एम सी ई आर ए II (181259बी), 01 फरवरी 2010

गुदीती वी नारायणा, एम सी ई आर ए II (193491बी), 01 फरवरी 2010

अस्विनी कुमार दास, एम सी ई आर ए II (193770एन), 01 फरवरी 2010

नरेश कुमार, एम सी ई आर ए II (193796वाई), 01 फरवरी 2010

अरविन्द कुमार एस जसवाल, एम सी ई आर ए II (193849टी), 01 फरवरी 2010

बालेन्द्रा कुमार बी, एम सी ई आर ए II (193852जैड), 01 फरवरी 2010

हरेन्द्र सिंह, एम सी ई आर ए II (193861डब्ल्यू), 01 फरवरी 2010

जनार्दन भट्ट, एम सी ई आर ए II (193865बी), 01 फरवरी 2010

नारायण दत्त पाण्डेय, एम सी ई आर ए II (193877एफ), 01 फरवरी 2010

ऋषि राज, एम सी ई आर ए II (193890के), 01 फरवरी 2010

रूपेन्द्र सिंह, एम सी ई आर ए II (193891एन), 01 फरवरी 2010

रमन, एम सी ई आर ए II (193893टी), 01 फरवरी 2010

राकेश कुमार वर्मा, एम सी ई आर ए II (193898बी), 01 फरवरी 2010

शीजास पी एम, एम सी एम ई II (124810के), 11 मार्च 2008

नंदकिशोर शर्मा, एम सी एम ई II (163686आर), 01 जनवरी 2009

विजय कुमार, एम सी एम ई II (113374डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009

गंगाधर बारीक, एम सी एम ई II (162483एफ), 01 अप्रैल 2009

जितेन्द्र कुमार त्यागी, एम सी एम ई II (162881के), 01 अप्रैल 2009

गुरनाम सिंह, एम सी एम ई II (162895टी), 01 अप्रैल 2009

प्रभु दयाल, एम सी एम ई II (163245एन), 01 अप्रैल 2009

बिनोदा कुमार त्रिपाठी, एम सी एम ई II (163488आर), 01 अप्रैल 2009

नागन्द्रा प्रसाद यादव, एम सी एम ई II (164308बी), 01 अप्रैल 2009

नवनीत कुमार दिक्षित, एम सी एम ई II (170134डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009

कोन्डालाराव वारिकल्लू, एम सी एम ई II (172040ए), 01 अप्रैल 2009

रविन्दर कुमार, एम सी एम ई II (171921एफ), 01 दिसम्बर 2009

योगेश, एम सी एस डब्ल्यू ए II (180408डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009

थोप्पील एन जयकृष्णन, एम सी एस डब्ल्यू ए II (180455ए), 01 अप्रैल 2009

आदर्श निर्मल, एम सी एस डब्ल्यू ए II (180641जैड), 01 अप्रैल 2009

मयंक पूरी, एम सी एस डब्ल्यू ए II (180772वाई), 01 अप्रैल 2009

डी श्रीनिवासा रेड्डी, एम सी एस डब्ल्यू ए II (180869टी), 01 अप्रैल 2009

अनिल कुमार सरदाना, एम सी एस डब्ल्यू ए II (181176आर), 01 अप्रैल 2009

एन महालिंगम, एम सी एस डब्ल्यू ए II (181252एन), 01 अप्रैल 2009

राकेश कुमार, एम सी एस डब्ल्यू ए II (181353टी), 01 अप्रैल 2009

सुधीर के एस, एम सी एस डब्ल्यू ए II (193567ए), 01 अप्रैल 2009

धरम सिंह नरवाल, एम सी एस डब्ल्यू ए II (193725के), 01 अप्रैल 2009

अजय कुमार पाण्डेय, एम सी एस डब्ल्यू ए II (193764जैड), 01 अप्रैल 2009

कामेश के ए, एम सी एस डब्ल्यू ए II (193927डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009

योगेश्वर शर्मा, एम सी एस डब्ल्यू ए II (193935एन), 01 अप्रैल 2009

दुर्गा प्रसाद धुपम, एम सी एस डब्ल्यू ए II (181297आर), 16 जुलाई 2009

रविन्दर यादव, एम सी एस डब्ल्यू ए II (181396आर), 02 अगस्त 2009

जगदीश कुमार राजु टी, एम सी एस डब्ल्यू ए II (181308आर), 01 जनवरी 2010

रोहीत मित्तल, एम सी एस डब्ल्यू ए II (181401ए), 01 फरवरी 2010

यांदामुरी बालकिशोर, एम सी एस डब्ल्यू ए II (181497डब्ल्यू), 01 फरवरी 2010

किशोर कुमार नायक, एम सी एस डब्ल्यू ए II (181503एच), 01 फरवरी 2010

परदीप रावल, एम सी एस डब्ल्यू ए II (194021एच), 01 फरवरी 2010

रोहिता कुमार बेहरा, एम सी पी ओ ए एफ II (166191एच), 01 अप्रैल 2009

रश्मी रंजन नायक, एम सी पी ओ ए एफ II (166326आर), 01 अप्रैल 2009

दाउ दयाल, एम सी पी ओ ए एफ II (168112जैड), 01 नवम्बर 2009

एन एस पाटिल, एम सी पी ओ ए एफ II (168747टी), 01 नवम्बर 2009

अशोक कुमार, एम सी पी ओ ए ओ एफ II (166707एफ), 01 अप्रैल 2009

हरिश चंद्रा, एम सी पी ओ सी के (ओ) II (145165वाई), 01 अप्रैल 2009

राजेन्द्र कुमार, एम सी पी ओ सी के (ओ) II (145332ए), 01 अक्टूबर 2009

श्यामल के आर सिंघा, एम सी पी ओ सी के (ओ) II (145178ए), 01 नवम्बर 2009

विजय शंकर यादव, एम सी पी ओ सी के (ओ) II (145179बी), 01 नवम्बर 2009

बालाराम देबनाथ, एम सी पी ओ सी के (एस) II (152346टी), 01 अक्टूबर 2009

सुरेश सिंह, एम सी पी ओ सी के (एस) II (109251जैड), 01 नवम्बर 2009

अशोक सिंह, एम सी पी ओ सी के (एस) II (145083के),  
01 नवम्बर 2009

श्रीपाल सिंह गुसाइ, एम सी पी ओ सी के (एस) II (109620एन),  
01 दिसम्बर 2009

कंवर सिंह, एम सी पी ओ सी के (एस) II (145038एच),  
01 दिसम्बर 2009

कमलेश भुनिया, एम सी पी ओ II (164182टी), 01 अप्रैल 2008  
अशोक कुमार मल्लिक, एम सी पी ओ II (163485एच),  
01 अप्रैल 2009

बंशीधर साहु, एम सी पी ओ II (165504वाई), 01 अप्रैल 2009  
पी सत्यन नायर, एम सी पी ओ II (167349आर), 01 अप्रैल  
2009

संजीव राजपुत, एम सी पी ओ II (124867आर), 01 अप्रैल 2009  
विजय पाल सिंह, एम सी पी ओ II (165122बी), 01 मई 2009  
सी मोहन सिंह बिष्ट, एम सी पी ओ II (166763एच), 01 मई  
2009

जी चन्द्रा लेन्का, एम सी पी ओ II (164991एफ), 01 मई 2009  
दविन्द्र कुमार, एम सी पी ओ II (166005के), 01 जून 2009  
विनोद कुमार सिंह, एम सी पी ओ II (167646आर), 01 जुलाई  
2009

वी जी जयदेव, एम सी पी ओ II (168994बी), 01 जुलाई 2009  
सतीश चन्द्रा उप्रिती, एम सी पी ओ II (169026ए), 01 जुलाई  
2009

कलेम लोकश्वरा राव, एम सी पी ओ II (168368एफ),  
01 अगस्त 2009

बिट्टन सिंह, एम सी पी ओ II (169778के), 02 अगस्त 2009  
अजीत यादव, एम सी पी ओ II (168685ए), 01 सितम्बर 2009  
अभय कुमार श्रीवास्तवा, एम सी पी ओ II (164619के),  
01 अक्टूबर 2009

जी चन्द्रा देबनाथ, एम सी पी ओ II (166955डब्ल्यू), 01 अक्टूबर  
2009

प्रदीप कुमार, एम सी पी ओ II (167755एन), 01 अक्टूबर 2009  
ईकबाल मोहम्मद पनवर, एम सी पी ओ II (168605डब्ल्यू),  
01 अक्टूबर 2009

नारायणप्रसाद महतो, एम सी पी ओ II (168881वाई), 01 अक्टूबर  
2009

मोहमद इस्माइल, एम सी पी ओ II (167265जैड), 01 नवम्बर  
2009

राजीव रंजन कुमार, एम सी पी ओ II (167444एफ), 01 नवम्बर  
2009

पवन कुमार, एम सी पी ओ II (167531बी), 01 नवम्बर 2009

कुमार भोई, एम सी पी ओ II (167946वाई), 01 नवम्बर 2009

शशी कांती दुबे, एम सी पी ओ II (168062के), 01 नवम्बर 2009

रमेश चांद नागर, एम सी पी ओ II (168101जैड), 01 नवम्बर  
2009

सी सुरेश कुमार, एम सी पी ओ II (168183के), 01 नवम्बर 2009

अजय कुमार, एम सी पी ओ II (168813टी), 01 नवम्बर 2009

गोपाल बेहरा, एम सी पी ओ II (169769आर), 01 नवम्बर 2009

रोशन लाल, एम सी पी ओ II (170486डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2009

अपुर्बा मजुमदार, एम सी पी ओ II (165983के), 01 जनवरी 2010

जितेन्द्र मिश्रा, एम सी पी ओ II (170117एफ), 01 जनवरी 2010

पारस, एम सी पी ओ एम II (112745आर), 01 अप्रैल 2009

दर्शन लाल, एम सी पी ओ एम II (113301बी), 01 अप्रैल 2009

सुरेन्द्र पाल, एम सी पी ओ एम II (114374टी), 01 अप्रैल 2009

जय सिंह, एम सी पी ओ एम II (162315जेड), 01 अप्रैल 2009

नरेश कुमार, एम सी पी ओ एम II (163918टी), 01 अप्रैल 2009

विवेकानंद श्रीवास्तव, एम सी पी ओ एम II (163877जैड),  
01 जुलाई 2009

लाल सिंह, एम सी पी ओ एम II (163264एफ), 01 जनवरी 2010

राजवीर सिंह, एम सी पी ओ एम II (163451एफ), 01 जनवरी  
2010

गोपाल सिंह, एम सी पी ओ एम यू एस II (188247के), 01 अप्रैल  
2009

दीप चांद, एम सी पी ओ एस टी डी II (145206आर), 01 अप्रैल  
2009

बिरेन्द्र सिंह, एम सी पी ओ एस टी डी II (145293एन), 01 अप्रैल  
2009

राज सिंह, एम सी पी ओ एस टी डी II (145207टी), 01 अक्टूबर  
2009

गोपाल चन्द्रा मण्डल, एम सी पी ओ एस टी डी II (145298जेड),  
01 जनवरी 2010

बी शंकर सुपकर, एम सी पी ओ एस टी डी II (150067एन),  
01 जनवरी 2010

छोटे लाल पाल, एम सी पी ओ टी ओ पी II (145111जेड),  
07 जून 2009

धनापाल सेलवम, एम सी पी ओ टी ओ पी II (145534के),  
01 जुलाई 2009

राम चरण, एम सी पी ओ टी ओ पी II (145251टी), 01 जनवरी  
2010

अरुमुघम पांडियन, एम सी पी ओ टी ओ पी II (145383टी),  
01 जनवरी 2010

मोहिन्द्र कुमार, एम सी पी ओ डब्ल्यू टी आर II (113358एच),  
01 अप्रैल 2009

नंद किशोर पी सिंह, एम सी पी ओ डब्ल्यू टी आर II (145810एन),  
01 अप्रैल 2009

रमेश चांद, एम सी पी ओ डब्ल्यू टी आर II (161777ए),  
01 अप्रैल 2009

शयो शंभु कुंवार, एम सी पी ओ डब्ल्यू टी आर II (114765एफ),  
01 जुलाई 2009

राकेश कुमार, एम सी पी ओ डब्ल्यू टी आर II (162403जेड),  
01 जुलाई 2009

जय देव, एम सी पी ओ डब्ल्यू टी आर II (164501टी),  
01 जनवरी 2010

रमेश कुमार मिन्हास, एम सी पी ओ डब्ल्यू टी आर II  
(165085डब्ल्यू), 01 जनवरी 2010

बुद्ध राम, एम एस सी पी ओ II (161147डब्ल्यू), 01 जून 2009

महावीर प्रसाद, एम एस सी पी ओ II (114054आर), 01 जुलाई  
2009

हुकम सिंह, एम एस सी पी ओ II (114612एच), 01 जुलाई  
2009

चैना राम, एम एस सी पी ओ II (150348ए), 01 जुलाई 2009

राजेन्द्र कुमार यादव, एम एस सी पी ओ II (163179एन),  
01 जुलाई 2009

जीत बहादुर सिंह, एम एस सी पी ओ II (166654के), 01 नवम्बर  
2009

बीर सिंह, एम एस सी पी ओ II (163175बी), 01 जनवरी 2010  
सुरेश चंद्र, एम एस सी पी ओ II (163561एफ), 01 जनवरी  
2010

हरे राम सिंह, एम एस सी पी ओ II (165415डब्ल्यू), 01 जनवरी  
2010

आशीश शर्मा  
अवर सचिव

एकीकृत मुख्यालय : रक्षा मंत्रालय (नौसेना)

सं. 67, दिनांक 21 जनवरी 2011--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के पत्र  
संख्या एमएफ/1506/डीईएस/अनु-I/03 दिनांक 07 जून 2006, के अधीन  
भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा (संभारिकी कैडर), में सीधी  
भर्ती योजना के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां उनके नाम के सामने दी  
गई तिथि से करते हैं :--

सब-ले के रैंक में परखाधीन

नाम, निजी संख्या, कमीशन की किस्म तथा कमीशन की तिथि  
कार्यकारी शाखा (संभारिकी कैडर)--जुलाई 2003

जसलीन कौर अरोड़ा (05478जेड), अस्थायी, 21 अगस्त 2003

राजेश राजागोपालन

कमांडर

जेडीएमपीआर (ओआई एंड आर)

सेना शाखा

सं. 68, दिनांक 21 जनवरी 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित ए एमसी  
अधिकारी की उनके सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से लेफ्टि कर्नल के पद पर

दीपिका मनोज (एमआर-07082डब्ल्यू), एएमसी, 20 जनवरी 2010  
शैलेन्द्र कुमार चौधरी (एमआर-07785एक्स), एएमसी, 02 फरवरी  
2010

स्वागता बानर्जी (एमआर-08286पी), एएमसी, 15 जुलाई 2010  
अमिता राय (एमआर-08273एक्स), एएमसी, 21 जनवरी 2010  
अर्चना सैकिया त्यागी (एमआर-08322पी), एएमसी, 06 अगस्त  
2010

वंदना राणा (एमआर-08418एक्स), एएमसी, 01 जून 2009  
राजेश कुमार झा (एमआर-08499एच), एएमसी, 02 अगस्त 2010  
पवन कुमार शुक्ला (एमआर-08334के), एएमसी, 10 मई 2008  
सुब्रता बोस (एमआर-07104के), एएमसी, 20 जनवरी 2010  
श्रीनिवास एस (एमआर-07841एल), एएमसी, 27 जनवरी 2010

सर्जन लेफ्टि कमांडर से सर्जन कमांडर के पद पर

एस सुब्रमनियम (एमएस-14282पी) (एमआर-08220वाई),  
(75775), एएमसी, 21 जनवरी 2010

फ्लाईट लेफ्टि से स्क्वाड्रन लीडर के पद पर

सुरेन्द्र कुमार (एमआर-08740के) (एफ-28373जी), एएमसी,  
12 अप्रैल 2009

## कप्तान से मेजर के पद पर

जाईल अपर्णा भालचन्द्र (एमएस-15358डब्ल्यू) (एमआर-08772एम), एएमसी, 22 सितम्बर 2010

पवार अमित अजय (एमएस-15380एफ) (एमआर-08778एन), एएमसी, 22 सितम्बर 2010

बिजु आर (एमएस-15347के) (एमआर-08795एन), एएमसी, 22 सितम्बर 2010

कमाल कुमार देब (एमएस-15346एफ) (एमआर-08812एच), एएमसी, 22 सितम्बर 2010

वरुण जेरथ (एमएस-15096एल) (एमआर-08923ए), एएमसी, 17 सितम्बर 2010

अमित कुमार कामेवाड (एमएस-15334एम) (एमआर-08916के), एएमसी, 22 सितम्बर 2010

अचिन्ना के आर मलिक (एमएस-15421ए) (एमआर-08955एच), एएमसी, 06 अक्टूबर 2010

अनुप कुमार (एमएस-15095एच) (एमआर-08785के), एएमसी, 17 सितम्बर 2010

सुरभि शर्मा (एमएस-15323ए) (एमआर-08793एच), एएमसी, 22 सितम्बर 2010

तेजिन्दर सिंह (एमएस-15338एच) (एमआर-08917एम), एएमसी, 22 सितम्बर 2010

अतुल बुच्चा (एमएस-15351एम) (एमआर-08918पी), एएमसी, 22 सितम्बर 2010

प्रसेनजीन (एमआर-08154एफ), एएमसी, 27 दिसम्बर 2009

ब्रिजेश नारायण (एमएस-15098डब्ल्यू) (एमआर-08759एच), एएमसी, 17 सितम्बर 2010

मनोज कुमार (एमएस-15093एक्स) (एमआर-08820एल), एएमसी, 17 सितम्बर 2010

सौरभ वशिष्ठ (एमआर-08952पी), एएमसी, 17 सितम्बर 2010

मधु प्रताप सिंह (एमआर-08237एम), एएमसी, 20 सितम्बर 2010

अनूप प्रकाश बी (एमआर-08777एल), एएमसी, 22 सितम्बर 2010

रवि कान्त (एमआर-08791एक्स), एएमसी, 22 सितम्बर 2010

दिलेष पी के (एमएस-15319एक्स) (एमआर-08792ए), एएमसी, 22 सितम्बर 2010

पुनीत सिंह (एमएस-15328वाई) (एमआर-08794एल), एएमसी, 22 सितम्बर 2010

नितिन शर्मा (एमएस-15374एन) (एमआर-08796डब्ल्यू), एएमसी, 22 सितम्बर 2010

हरविन्दर सांगवान (एमएस-15318पी) (एमआर-08914वाई), एएमसी, 22 सितम्बर 2010

खलील एम (एमएस-15331वाई) (एमआर-08915एफ), एएमसी, 22 सितम्बर 2010

यश पांडे

ब्रिगे

उप महानिदेशक ससेचिसे (मा सं)

## थल सेना विभाग

सं. 69, दिनांक 21 जनवरी 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

## नियमित सेना

## इन्फैन्ट्री

## मैकानाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट

## सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार प्रताप, सिंह बुटोला (जेसी-419664डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2010

## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार गुरधियन सिंह (जेसी-420770एफ), 04 अक्टूबर 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार हंस राज स्वामी (जेसी-420503ए), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-420575के), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार किशोर सिंह (जेसी-420579के), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार विजय कुमार (जेसी-420838एक्स), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार प्रमोद कुमार चहर (जेसी-420929एफ), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार सत्यानंद तिवारी (जेसी-420932एफ), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार वरून कुमार शुक्ला (जेसी-420957एन), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार सुभाष सिंह (जेसी-420936एक्स), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार जडेजा चैन सिंह पतुभा (जेसी-420969एच), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार तरून कुमार मन्ना (जेसी-421026डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार अशोक कुमार त्रिपाठी (जेसी-421027वाई), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार राज देव सिंह यादव (जेसी-421071एच), 02 दिसम्बर 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सतिश कुमार (जेसी-421103ए), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार राकेश सिंह (जेसी-421104एच), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार जसमीन्दर सिंह (जेसी-421079पी), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार राजेश कुमार (जेसी-421155डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार सुगन सिंह बिका (जेसी-421156वाई), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार परविन्दर कुमार (जेसी-421157एफ), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार सतिश कुमार आर (जेसी-421144के), 04 दिसम्बर 2010\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-420735वाई), 09 दिसम्बर 2010

जे राय चौधरी  
अवर सचिव

-----

सं. 70, दिनांक 24 जनवरी 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्तियां/पदोन्नतियां करते हैं:--

नियमित सेना

पैदल सेना

पंजाब रेजिमेन्ट

सूबेदार धार्मिक शिक्षक के रैंक में

सूबेदार धार्मिक शिक्षक पंडित ओम प्रकाश चौबे (जेसी-428701एफ), 01 मार्च 2010

सूबेदार धार्मिक शिक्षक ग्रन्थी हरभजन सिंह (जेसी-428700एक्स), 01 अप्रैल 2010

जम्मू और काश्मीर राईफल्स

सूबेदार आर टी के रैंक में

नायब सूबेदार (आरटी) मौती लाल पांडे (जेसी-578908एल), जैक राईफल्स, 03 अगस्त 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जायेगी)

महार रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार केवल सिंह (सं. 4560382ए अब जेसी-570450एक्स), 25 जनवरी 2010@

हवलदार राम सिंह (सं. 4560384एल अब जेसी-570451ए), 25 जनवरी 2010@

@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2010)

हवलदार राम स्वरूप (सं. 4559767एल अब जेसी-570452एच), 08 दिसम्बर 2009#

#(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 06 जनवरी 2010)

हवलदार शिंधे विजय कुमार प्रल्हाद राओ (सं. 4559593डब्ल्यू अब जेसी-570453एल), 03 मार्च 2010\$

हवलदार कनाडे राजेंद्र सुखदेओ (सं. 4559785एन अब जेसी-570454एन), 03 मार्च 2010\$

हवलदार मोरे रमेश खंडु (सं. 4559999के अब जेसी-570455डब्ल्यू), 03 मार्च 2010\$

\$(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 23 जनवरी 2010)

हवलदार सोनवने राजेश धाना (सं. 4561166वाई अब जेसी-570456वाई), 09 मार्च 2010%

%(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 15 फरवरी 2010)

हवलदार सोनवने चंद्रकांत दिंकर (सं. 4560167पी अब जेसी-570457एफ), 12 मार्च 2010^

हवलदार सर्वदेव व्यांकट भानुदास (सं. 4559983वाई अब जेसी-570458के), 31 मार्च 2010^

^(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 23 जनवरी 2010)

हवलदार लक्ष्मी प्रसाद (सं. 4560916ए अब जेसी-570459एम), 23 जनवरी 2010&

&(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 25 सितम्बर 2009)

हवलदार काम्बले जयानंद मलाकरी (सं. 4559356एम अब जेसी-570460एफ), 10 फरवरी 2010\*

\*(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 02 दिसम्बर 2009)

हवलदार दुरूगाडे हनुमंत रामू (सं. 4560637पी अब जेसी-570461के), 16 फरवरी 2010+

+(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 02 जनवरी 2010)

हवलदार विक्रम चंद (सं. 4562005एच अब जेसी-570462एम), 22 फरवरी 2010 =

=(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2009)

हवलदार देव्लेकर प्रादीप तुलशिदास (सं. 4562079एक्स अब जेसी-570463पी), 22 फरवरी 2010{

{(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2010)

हवलदार शोंकामबले गुंडु सोनाबा (सं. 4560765एम अब जेसी-570464एक्स), 01 मार्च 2010

हवलदार गांगाधर प्रधान (सं. 4562111एम अब जेसी-570465ए), 11 मार्च 2010}

}(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2010)

हवलदार लाल सिंह मानेशा (सं. 4562201एच अब जेसी-570466एच), 01 अप्रैल 2010

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 4562366एफ अब जेसी-570467एल), 01 अप्रैल 2010

हवलदार सुभाश चांदर (सं. 4562366एफ अब जेसी-570468एन), 01 अप्रैल 2010

हवलदार वंकर मगन भाई जगा भाई (सं. 4561110एम अब जेसी-570469डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2010<

<(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 14 जनवरी 2010)

हवलदार जादव भरत भाई शामजी भाई (सं. 4561150एन अब जेसी-570470एल), 01 अप्रैल 2010

हवलदार शिव कुमार पाल (सं. 8032366एच अब जेसी-570471एन), 01 अप्रैल 2010

हवलदार याशवंत सिंह (सं. 4560221एक्स अब जेसी-570472डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2010

हवलदार जरनैल सिंह (सं. 4560372डब्ल्यू अब जेसी-570473वाई), 01 अप्रैल 2010

हवलदार इंदरजित सिंह यादव (सं. 4566350एन अब जेसी-570474एफ), 01 अप्रैल 2010

हवलदार मोहिंदर सिंह (सं. 4560085एम अब जेसी-570475के), 02 अप्रैल 2010@@

हवलदार दिलबाघ सिंह (सं. 4562104एल अब जेसी-570476एम), 02 अप्रैल 2010@@

हवलदार अमरिक सिंह (सं. 4562190एफ अब जेसी-570477पी), 02 अप्रैल 2010@@

हवलदार निशान सिंह (सं. 4560270ए अब जेसी-570478एक्स), 28 अप्रैल 2010@@

हवलदार प्रकाश चंद (सं. 4560278एम अब जेसी-570479ए), 04 अप्रैल 2010@@

हवलदार हरजिंदर सिंह (सं. 4560298के अब जेसी-570480पी), 04 अप्रैल 2010@@

हवलदार उमेद सिंह राठोड (सं. 4560300एम अब जेसी-570481एक्स), 04 अप्रैल 2010@@

हवलदार राज कुमार (सं. 4560416एच अब जेसी-570482ए), 04 अप्रैल 2010@@

@@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2010)

हवलदार हेत राम सिंह (सं. 4561136एफ अब जेसी-570483एच), 22 अप्रैल 2010###

###(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 05 मार्च 2010)

हवलदार मनोहर लाल (सं. 4560385एन अब जेसी-570484एल), 10 मई 2010\$\$

\$(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2010)

#### पैराशूट रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार राजपाल सिंह (सं. 13618672एम अब जेसी-413449पी), 01 जनवरी 2010

हवलदार बस्तीराम बिशनोई (सं. 13618402एक्स अब जेसी-413450के), 04 मार्च 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010)

हवलदार तरसेम सिंह (सं. 13618431एम अब जेसी-413451एम), 10 मार्च 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010)

हवलदार कोकितकर रामू जोतिबा (सं. 13619731ए अब जेसी-413452पी), 06 फरवरी 2010

हवलदार उमेश प्रताप सिंह (सं. 13619288एक्स अब जेसी-413453एक्स), 10 मार्च 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2010)

हवलदार महिपाल सिंह रावत (सं. 13617437एफ अब जेसी-413454ए), 01 अप्रैल 2010

हवलदार शकरूद्दीन काथेट (सं. 13617552एफ अब जेसी-413455एच), 01 अप्रैल 2010

हवलदार गुरजित राम एस एम (सं. 13617660एल अब जेसी-413456एल), 01 अप्रैल 2010

हवलदार राजेन्द्र प्रताप सिंह (सं. 13617775वाई अब जेसी-413457एन), 01 अप्रैल 2010

हवलदार रतन लाल (सं. 3988327एक्स अब जेसी-413458डब्ल्यू), 01 मई 2010

हवलदार सनातन बेहरा (सं. 13616331एच अब जेसी-413459वाई), 01 मई 2010



हवलदार मनोज कुमार (सं. 13617154ए अब जेसी-413460एन),  
24 अप्रैल 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010)

हवलदार नन्दन सिंह बोरा (सं. 13617438के अब जेसी-413461डब्ल्यू),  
18 मई 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2010)

हवलदार रणधीर सिंह (सं. 13618682डब्ल्यू अब जेसी-413463एफ),  
10 अप्रैल 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010)

हवलदार राजेश कुमार (सं. 13618827डब्ल्यू अब जेसी-413464के),  
10 अप्रैल 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 10 अप्रैल 2010)

हवलदार हरी ए आर, एस एम (सं. 13620022एक्स अब  
जेसी-413465एम), 25 मार्च 2010

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) के मनी (सं. 13618130एच अब जेसी-413462वाई),  
01 मई 2010

हवलदार (लिपिक) दिलीप कुमार (सं. 13692131ए अब जेसी-  
413466पी), 01 मई 2010

बिहार रेजिमेंट

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार मनोज कुमार (सं. 4265761एफ अब जेसी-560357एच),  
30 अप्रैल 2010/01 मार्च 2010 (ज्येष्ठता)×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाती है)

हवलदार किरीम करवा (सं. 4270812एन अब जेसी-560358एल),  
21 मई 2010/01 अप्रैल 2010 (ज्येष्ठता)×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

हवलदार धर्मेन्द्र सिंह (सं. 4267880डब्ल्यू अब जेसी-560359एन),  
21 मई 2010/01 मई 2010 (ज्येष्ठता)×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

हवलदार बिरेंद्र कुमार (सं. 13618367ए अब जेसी-560367एम),  
26 जून 2010/01 दिसम्बर 2009 (ज्येष्ठता)×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2009 से दी जाती है)

हवलदार सगेन कुमार टोप्पो (सं. 4267777एल अब जेसी-560368पी),  
19 जून 2010/19 दिसम्बर 2009 (ज्येष्ठता)×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 19 दिसम्बर 2009 से दी जाती है)

हवलदार भुलेश्वर प्रधान (सं. 4270115एन अब जेसी-560369एक्स),  
06 जुलाई 2010/20 जनवरी 2010 (ज्येष्ठता)×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 20 जनवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार विनोद प्रसाद (सं. 4265686एच अब जेसी-560370एम),  
02 जून 2010/01 मार्च 2010 (ज्येष्ठता)×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाती है)

हवलदार सियाराम यादव (सं. 4266530एक्स अब जेसी-560371पी),  
05 जुलाई 2010/01 मार्च 2010 (ज्येष्ठता)×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाती है)

हवलदार लक्ष्मन साह (सं. 4266019एफ अब जेसी-560372एक्स),  
07 जुलाई 2010/06 मार्च 2010 (ज्येष्ठता)×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 06 मार्च 2010 से दी जाती है)

हवलदार धर्मे साबुलाल काल्या (सं. 4268156वाई अब जेसी-560373ए),  
16 मई 2010/01 अप्रैल 2010 (ज्येष्ठता)×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

हवलदार सनातन कलुडिया (सं. 4270822एक्स अब जेसी-560374एच),  
10 जुलाई 2010/01 अप्रैल 2010 (ज्येष्ठता)×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

हवलदार प्रकाश लकरा (सं. 4271181एच अब जेसी-560375एल),  
15 जुलाई 2010/01 अप्रैल 2010 (ज्येष्ठता)×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

हवलदार अजय कुमार सिंह (सं. 4265979एन अब जेसी-560376एन),  
12 जुलाई 2010/28 अप्रैल 2010 (ज्येष्ठता)×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 28 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

हवलदार देव नारायण यादव (सं. 4266890एन अब जेसी-560377डब्ल्यू),  
26 जून 2010/05 मई 2010 (ज्येष्ठता)×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 05 मई 2010 से दी जाती है)

हवलदार सोमरा इक्का (सं. 4267100ए अब जेसी-560378वाई),  
01 जुलाई 2010

सिख रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार अमरजीत सिंह (सं. 3391137वाई अब जेसी-500225एल),  
07 अप्रैल 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
10 फरवरी 2010)

हवलदार हाकम सिंह (सं. 3389177एफ अब जेसी-500226एन),  
10 मई 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
13 अप्रैल 2010)

हवलदार बिकर सिंह (सं. 3389903एल अब जेसी-500227डब्ल्यू),  
19 मई 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
24 अप्रैल 2010)

हवलदार सतनाम सिंह (सं. 3389204ए अब जेसी-500228वाई),  
02 जून 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
25 अप्रैल 2010)

हवलदार जरनैल सिंह (सं. 3388023एच अब जेसी-500229एफ),  
13 मई 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मई 2010)

हवलदार हरकिरत सिंह (सं. 3387823पी अब जेसी-500230डब्ल्यू),  
07 जून 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
06 मई 2010)

हवलदार भाग सिंह, एस सी (सं. 3390996एक्स अब जेसी-  
500231वाई), 05 जून 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
11 मई 2010)

हवलदार जगदीश सिंह (सं. 3388568ए अब जेसी-500232एफ),  
01 जून 2010

हवलदार मोहन सिंह (सं. 3388463डब्ल्यू अब जेसी-500233के),  
05 जून 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जून 2010)

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) महेश चंद (सं. 4270443एफ अब जेसी-  
500234एम), 14 मई 2010

[नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले  
बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010]

हवलदार हरबंश सिंह (सं. 3388693के अब जेसी-500235पी),  
05 जुलाई 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2010)

हवलदार जसविंदर सिंह (सं. 3388715एक्स अब जेसी-500236एक्स),  
02 जुलाई 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 फरवरी 2010)

हवलदार मोहिन्दर सिंह (सं. 3388905के अब जेसी-500237ए),  
23 जून 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
10 मई 2010)

हवलदार कुलविन्दर सिंह (सं. 3389570के अब जेसी-500238एच),  
14 जून 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
12 मई 2010)

हवलदार चमकौर सिंह (सं. 3390153के अब जेसी-500239एल),  
26 जून 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जून 2010)

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) रमेश चंद्रा (सं. 3391530एफ अब जेसी-  
500240ए), 01 जुलाई 2010

हवलदार (लिपिक) गुलाब सिंह (सं. 3391541एन अब जेसी-  
500241एच), 01 जुलाई 2010

हवलदार (लिपिक) जगदीश प्रसाद (सं. 3391543वाई अब जेसी-  
500242एल), 01 जुलाई 2010

जाट रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार प्रेम सिंह (सं. 3179950एल अब जेसी-490545के),  
01 अप्रैल 2010

हवलदार अशोक कुमार (सं. 3180689एच अब जेसी-490546एम),  
01 अप्रैल 2010

हवलदार मूल चंद (सं. 3180821एक्स अब जेसी-490547पी),  
01 अप्रैल 2010

हवलदार रामवीर सिंह (सं. 3180825एन अब जेसी-490548एक्स),  
01 अप्रैल 2010

हवलदार देवेन्द्र सिंह (सं. 3181040डब्ल्यू अब जेसी-490549ए),  
01 अप्रैल 2010

हवलदार भूदेव सिंह (सं. 3181126पी अब जेसी-490550पी),  
01 अप्रैल 2010

हवलदार सत्यपाल (सं. 3180849एक्स अब जेसी-490551एक्स),  
01 अप्रैल 2010

हवलदार राम निवास (सं. 3185043एफ अब जेसी-490552ए),  
07 अप्रैल 2010 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाएगी)

हवलदार शिव सिंह चाहर (सं. 3183316ए अब जेसी-490553एच),  
14 मई 2010 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 14 अप्रैल 2010 से दी जाएगी)

हवलदार अनिल कुमार (सं. 3183926एम अब जेसी-490554एल),  
04 मई 2010 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाएगी)

हवलदार शिव गणेश (सं. 3182853वाई अब जेसी-490555एन),  
01 मई 2010

हवलदार बिजेन्द्र सिंह (सं. 3184322ए अब जेसी-490556डब्ल्यू),  
01 जून 2010 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाएगी)

हवलदार हमबीर (सं. 3180867ए अब जेसी-490557वाई), 25 मई  
2010 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाएगी)

हवलदार बीरपाल सिंह, सेना मेडल (सं. 3181204एफ अब जेसी-  
490558एफ), 21 जून 2010 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 25 अप्रैल 2010 से दी जाएगी)

हवलदार छोटू राम (सं. 3181759एच अब जेसी-490559के),  
12 मई 2010 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाएगी)

हवलदार नरेन्द्र कुमार (सं. 3180912एफ अब जेसी-490560वाई),  
25 मई 2010 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाएगी)

हवलदार दिलबाग सिंह (सं. 3182941पी अब जेसी-490561एफ),  
27 मई 2010 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाएगी)

हवलदार सुमेर सिंह (सं. 3182711एफ अब जेसी-490562के),  
01 जून 2010

हवलदार सत्यवीर जाट (सं. 31619349के अब जेसी-490563एम),  
28 जून 2010 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 04 जून 2010 से दी जाएगी)

हवलदार सत्यावान (सं. 3181263एन अब जेसी-490564पी),  
01 जुलाई 2010

हवलदार हरीराम (सं. 3182959एल अब जेसी-490565एक्स),  
01 जुलाई 2010

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) सन्तोष कुमार पटेल (सं. 3181210पी अब  
जेसी-490566ए), 01 जुलाई 2010

हवलदार (लिपिक) कैलाश चन्द्र पांडे (सं. 3181559एम अब  
जेसी-490567एच), 01 जुलाई 2010

5 जी आर (एफएफ)

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार प्रसाद गुरुंग (सं. 5451474एम अब जेसी-617989पी),  
08 मई 2010 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 24 अप्रैल 2010 से दी जाएगी)

हवलदार खेम बहादुर थापा (सं. 5451775डब्ल्यू अब जेसी-  
617990के), 08 मई 2010 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 24 अप्रैल 2010 से दी जाएगी)

हवलदार नबिन गुरुंग (सं. 5451817एक्स अब जेसी-617991एम),  
08 मई 2010 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाएगी)

हवलदार दिनेश बहादुर थापा (सं. 5450552ए अब जेसी-617992पी),  
16 मई 2010 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाएगी)

हवलदार मोती बहादुर थापा (सं. 5450751ए अब जेसी-  
617984डब्ल्यू), 01 मई 2010

हवलदार दिल बहादुर थापा (सं. 5450548के अब जेसी-617985वाई),  
01 मई 2010

हवलदार लाल बहादुर थापा (सं. 5450526एल अब जेसी-  
617986एफ), 01 मई 2010

हवलदार मोहन प्रताप खान (सं. 5450533एफ अब जेसी-617987के),  
01 मई 2010

हवलदार बिकास गुरुंग (सं. 5454933एल अब जेसी-617988एम),  
08 मई 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 24 अप्रैल 2010 से दी जाएगी)

#### असम रेजिमेंट

##### नायब सूबेदार के पद में

हवलदार निपेन दास (सं. 4358759डब्ल्यू अब जेसी-549893एल),  
21 अप्रैल 2010/28 दिसम्बर 2009\*

हवलदार राकेश सिंघा (सं. 4360283एन अब जेसी-549993डब्ल्यू),  
13 अप्रैल 2010/01 फरवरी 2010\*

हवलदार छनलियाना (सं. 4360320डब्ल्यू अब जेसी-549994वाई),  
10 अप्रैल 2010/16 मार्च 2010\*

हवलदार गोपाल चंद्र पाल (सं. 4361214के अब जेसी-550000वाई),  
13 मार्च 2010/27 दिसम्बर 2009\*

हवलदार गोपाल चंद्र नाथ (सं. 4361109एन अब जेसी-550001एफ),  
02 मार्च 2010/19 जनवरी 2010\*

हवलदार हॉजम थोइबा सिंघ (सं. 4361295पी अब जेसी-550002के),  
15 मार्च 2010/01 फरवरी 2010\*

हवलदार लिल बहादुर गुरुंग (सं. 4363053एल अब जेसी-550003एम),  
15 मार्च 2010/07 फरवरी 2010\*

हवलदार लखी कांता राय (सं. 4360456ए अब जेसी-550004पी),  
01 मार्च 2010/22 फरवरी 2010\*

हवलदार अनिल सैकिया (सं. 4360641एन अब जेसी-550005एक्स),  
01 मार्च 2010/01 मार्च 2010\*

हवलदार मोती लाल शर्मा (सं. 4361184एक्स अब जेसी-550006ए),  
02 मार्च 2010/01 मार्च 2010\*

हवलदार देबा कांता नाथ (सं. 4361405वाई अब जेसी-550007एच),  
02 मार्च 2010/01 मार्च 2010\*

हवलदार बिन राम छेत्री (सं. 4360621ए अब जेसी-550008एल),  
22 मार्च 2010/01 मार्च 2010\*

हवलदार मीन बहादुर (सं. 4363202एन अब जेसी-550009एन),  
15 मार्च 2010/01 मार्च 2010\*

हवलदार वाई राजेंद्र सिंघ (सं. 4360747ए अब जेसी-550010एच),  
06 अप्रैल 2010/01 मार्च 2010\*

हवलदार लक्विश राम नाथ (सं. 2594483एन अब जेसी-550012एन),  
12 मई 2010/03 मार्च 2010\*

हवलदार लालबियकथारा (सं. 4361459ए अब जेसी-550013डब्ल्यू),  
15 अप्रैल 2010/28 मार्च 2010\*

हवलदार खामलियाना (सं. 4361703पी अब जेसी-550015एफ),  
01 अप्रैल 2010/01 अप्रैल 2010\*

हवलदार चंद्रा कांता राभा (सं. 4361966एन अब जेसी-550016के),  
01 अप्रैल 2010/01 अप्रैल 2010\*

हवलदार मोहम्मद निज़ामुद्दीन (सं. 4360549पी अब जेसी-  
550017एम), 21 अप्रैल 2010/03 अप्रैल 2010\*

हवलदार बाबा सना सिंघा (सं. 4358746वाई अब जेसी-550018पी),  
05 मई 2010/07 अप्रैल 2010\*

हवलदार परेश बार फुकन (सं. 4358886एल अब जेसी-  
550019एक्स), 05 मई 2010/07 अप्रैल 2010\*

हवलदार सामुएल आर संग्मा (सं. 4360572एच अब जेसी-  
550020एम), 05 मई 2010/07 अप्रैल 2010\*

हवलदार फिरोजजाम इबोम्वा सिंघ (सं. 4360619एच अब जेसी-  
550021पी), 05 मई 2010/07 अप्रैल 2010\*

##### नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) दिनेसन पुथुर (सं. 4270584डब्ल्यू अब  
जेसी-549999एक्स), 10 मार्च 2010/15 फरवरी 2010\*

हवलदार (लिपिक) कुमारसन ए (सं. 3184217के अब जेसी-  
550022एक्स), 23 अप्रैल 2010/01 अप्रैल 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता)

#### पंजाब रेजिमेंट

##### नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार जय राम चोहन (सं. 2480669एक्स अब जेसी-430658एच),  
09 अप्रैल 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 2480784एक्स अब जेसी-430659एल),  
09 अप्रैल 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार शिव चरन (सं. 2480808डब्ल्यू अब जेसी-430660ए),  
09 अप्रैल 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मार्च 2010 से दी जाती है)

हवलदार राकेश चन्द (सं. 2480128डब्ल्यू अब जेसी-430661एच),  
30 अप्रैल 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

हवलदार केवल सिंह (सं. 2480858एफ अब जेसी-430662एल),  
09 अप्रैल 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

हवलदार भुपिन्दर सिंह (सं. 2481124एम अब जेसी-430663एन),  
09 अप्रैल 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

हवलदार सक्कतर सिंह (सं. 2480588एक्स अब  
जेसी-430664डब्ल्यू), 06 मई 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मई 2010 से दी जाती है)

हवलदार मनोहर लाल शर्मा (सं. 2480388एफ अब  
जेसी-430655वाई), 01 मई 2010

हवलदार राजीव कुमार (सं. 2480401ए अब जेसी-430666एफ),  
01 मई 2010

हवलदार हरवंस लाल (सं. 2480675एल अब जेसी-430667के),  
01 मई 2010

हवलदार अशोक कुमार (सं. 2481833एफ अब जेसी-430668एम),  
04 मई 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मई 2010 से दी जाती है)

हवलदार जसविर सिंह (सं. 2480047डब्ल्यू अब जेसी-430669पी),  
02 अप्रैल 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
08 मार्च 2010 से दी जाती है)

हवलदार वजीर सिंह (सं. 2480468वाई अब जेसी-430670के),  
26 अप्रैल 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

हवलदार हुकुम चन्द (सं. 2480653एम अब जेसी-430671एम),  
26 अप्रैल 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

हवलदार चमन लाल (सं. 2480657एच अब जेसी-430672पी),  
26 अप्रैल 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

हवलदार नरेन्द्र कुमार चन्देल (सं. 2480679एफ अब  
जेसी-430673एक्स), 26 अप्रैल 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

हवलदार कुलवीन्दर सिंह (सं. 2480488एम अब जेसी-430674ए),  
04 मई 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मई 2010 से दी जाती है)

हवलदार सुखचैन सिंह (सं. 2480829एम अब जेसी-430675एच),  
04 मई 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मई 2010 से दी जाती है)

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 2479980एल अब जेसी-430676एल),  
04 मई 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मई 2010 से दी जाती है)

जम्मू और काश्मीर राईफल्स

नायब सूबेदार जी डी के रैंक में

हवलदार र्वन सिंह चाँक (सं. 13753274वाई अब जेसी-581057पी),  
28 जनवरी 2010 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 30 दिसम्बर 2009 से दी जाती है)

हवलदार नलीन कुमार राणा (सं. 13751022एन अब जेसी-581058एक्स),  
18 जनवरी 2010 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार सनवर सिंह (सं. 13751473एन अब जेसी-581059ए),  
12 फरवरी 2010 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार मनोहर कुमार (सं. 13754335एक्स अब जेसी-581060पी),  
01 फरवरी 2010

हवलदार प्रदीप सिंह (सं. 13752047एम अब जेसी-581061एक्स),  
01 फरवरी 2010

हवलदार प्रवीन कुमार (सं. 13752286एफ अब जेसी-581062ए),  
01 फरवरी 2010

हवलदार मदन लाल (सं. 13752402वाई अब जेसी-581063एच),  
15 फरवरी 2010 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार रूप लाल (सं. 13752099एच अब जेसी-581064एल),  
01 फरवरी 2010

हवलदार सुरेन्द्र कुमार (सं. 13753132एफ अब जेसी-581065एन),  
15 फरवरी 2010

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार लिपिक (जीडी) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) बागल हनमंत रामचंद्रा (सं. 13753676डब्ल्यू अब  
जेसी-581066डब्ल्यू), 01 मार्च 2010

हवलदार (लिपिक) वीर वसंत रामराओ (सं. 13753677वाई अब  
जेसी-581067वाई), 01 मार्च 2010

हवलदार (लिपिक) विजय कुमार राना भाई (सं. 13753711एन अब  
जेसी-581068एफ), 01 मार्च 2010

हवलदार (लिपिक) मनी राज के पी (सं. 13753766एक्स अब  
जेसी-581069के), 01 मार्च 2010

नायब सूबेदार जी डी के रैंक में

हवलदार विनोद कुमार मेहरा (सं. 13752361ए अब जेसी-  
581081एल), 19 अप्रैल 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जायेगी)

हवलदार निर्मल सिंह (सं. 13751970एम अब जेसी-581082एन),  
03 अप्रैल 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जायेगी)

हवलदार विजय कुमार शर्मा (सं. 13751426डब्ल्यू अब जेसी-  
581083डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2010\*

हवलदार शकीन सिंह (सं. 13751408एन अब जेसी-581084वाई),  
05 अप्रैल 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जायेगी)

हवलदार प्रशौतम सिंह (सं. 13751413वाई अब जेसी-581085एफ),  
05 अप्रैल 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जायेगी)

हवलदार जयपाल सिंह काटल (सं. 13751414एफ अब जेसी-  
581086के), 05 अप्रैल 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जायेगी)

हवलदार राजिन्द्र कुमार (सं. 13752400एन अब जेसी-581087एम),  
04 अप्रैल 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जायेगी)

हवलदार चुडा मणी (सं. 13752100एम अब जेसी-581088पी),  
01 अप्रैल 2010

हवलदार किशन सिंह (सं. 13753199ए अब जेसी-581089एक्स),  
01 अप्रैल 2010

हवलदार बिपन कुमार (सं. 13753221ए अब जेसी-581090एम),  
07 अप्रैल 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जायेगी)

हवलदार दलजीत सिंह (सं. 13752545वाई अब जेसी-581091पी),  
01 अप्रैल 2010

हवलदार धर्मेष्ट छेत्री (सं. 13751128ए अब जेसी-581092एक्स),  
01 अप्रैल 2010

हवलदार प्रदीप कुमार (सं. 13751498ए अब जेसी-581093ए),  
03 मई 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जायेगी)

हवलदार गौतम सिंह (सं. 13752561डब्ल्यू अब जेसी-581094एच),  
03 अप्रैल 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जायेगी)

हवलदार विरेन्द्र कुमार (सं. 13751111एम अब जेसी-581097डब्ल्यू),  
02 मई 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जायेगी)

हवलदार रमेश चन्द (सं. 13752738वाई अब जेसी-581098वाई),  
01 मई 2010

नायब सूबेदार लिपिक जीडी के रैंक में

हवलदार (लिपिक) जय कुमार एल (सं. 13753448एन अब जेसी-  
581095एल), 01 मई 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2009 से दी जायेगी)

हवलदार विनोदन के के (सं. 13753767ए अब जेसी-581096एन),  
05 मई 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जायेगी)

11 जी आर

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मौला बहादुर तामंग (सं. 9419734एक्स अब जेसी-  
634927एल), 24 मई 2010\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2010 से)

हवलदार (लिपिक) मनोज कुमार राय (सं. 9418450एफ अब जेसी-634928एन), 01 जुलाई 2010

हवलदार (लिपिक) सुखविर सिंह (सं. 9418506एच अब जेसी-634929डब्ल्यू), 01 जुलाई 2010

एस अशरफ  
अवर सचिव

सं. 71, दिनांक 24 जनवरी 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

नियमित सेना

क्वचित कोर

नायब रिसालदार के रैंक में

दफादार तारा चन्द (सं. 1089422एन अब जेसी-244193पी), 01 अप्रैल 2010

दफादार सुरेन्द्र कुमार (सं. 15462508एम अब जेसी-244570ए), 19 अक्टूबर 2010\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

दफादार योगेन्द्र सिंह (सं. 1089185पी अब जेसी-244691एफ), 20 अक्टूबर 2010\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार शान सिंह यादव (सं. 1089920ए अब जेसी-244692के), 20 अक्टूबर 2010\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

दफादार लाल बाबू साह (सं. 1099532डब्ल्यू अब जेसी-244693एम), 20 अक्टूबर 2010\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार रविन्द्र झा (सं. 15462859एफ अब जेसी-244647एक्स), 01 सितम्बर 2010

दफादार करपाल सिंह (सं. 15462029एल अब जेसी-244684एल), 11 अक्टूबर 2010\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार शकील सिंह (सं. 15461646एफ अब जेसी-244686डब्ल्यू), 25 अक्टूबर 2010\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार आशीम कुमार (सं. 1088212एफ अब जेसी-244703एल), 01 नवम्बर 2010\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

दफादार भूप सिंह (सं. 1089391वाई अब जेसी-244704एन), 01 नवम्बर 2010

दफादार पी गोविन्दा स्वामी (सं. 1089480एक्स अब जेसी-244705डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2010

दफादार करमवीर सिंह (सं. 1089586के अब जेसी-244706वाई), 01 नवम्बर 2010

दफादार कैलाश सिंह (सं. 1089602डब्ल्यू अब जेसी-244707एफ), 01 नवम्बर 2010

दफादार सुबोध कुमार साडा (सं. 1089847एम अब जेसी-244711के), 01 नवम्बर 2010\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

दफादार सुरेन्द्र कुमार (सं. 1098743एम अब जेसी-244712एम), 01 नवम्बर 2010

दफादार नटवर सिंह राठौर (सं. 1089672पी अब जेसी-244609एफ), 04 अगस्त 2010\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

दफादार शम्भु लाल (सं. 15461095एफ अब जेसी-244628एम), 23 सितम्बर 2010\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

दफादार वीर पाल (सं. 1098773के अब जेसी-244718एन), 07 नवम्बर 2010\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

दफादार सतनाम सिंह (सं. 15464107डब्ल्यू अब जेसी-244719डब्ल्यू), 05 नवम्बर 2010\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

दफादार हरेन्द्र सिंह (सं. 15461195एम अब जेसी-244723वाई), 15 नवम्बर 2010\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

दफादार जसविन्द्र सिंह (सं. 15462421एल अब जेसी-244725के), 15 नवम्बर 2010\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार राजेश कुमार (सं. 15462583डब्ल्यू अब जेसी-244726एम),  
12 नवम्बर 2010\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 06 अगस्त 2010 से दी जाती है)

दफादार सयूद महेबूब सुभानी (सं. 1099582एफ अब  
जेसी-244727वी), 12 नवम्बर 2010\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार सुभाष (सं. 15463884एम अब जेसी-244728एक्स),  
12 नवम्बर 2010\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार जमिल अहेमद (सं. 1099613डब्ल्यू अब जेसी-244729ए),  
12 नवम्बर 2010\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

दफादार विनित कुमार (सं. 15462647डब्ल्यू अब जेसी-244730पी),  
12 नवम्बर 2010\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 11 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

दफादार शेख मोहमद अखिल (सं. 17461131एफ अब  
जेसी-244731एक्स), 12 नवम्बर 2010\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जाती है)

भूतपूर्व दफादार रनविजय सिंह (सं. 1069680एम अब  
जेसी-244763ए), 01 सितम्बर 2004

जे. राय चौधरी  
अवर सचिव

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं. 72, दिनांक 24 जनवरी 2011--श्री के. के. सिंघल, तकनीकी  
अधिकारी 'बी' डी.पी.आई., डीआरडीओ मुख्यालय से 01 जनवरी 2011  
(पूर्वाह्न) को स्वैच्छा से सेवानिवृत्त हो गये और 1 जनवरी 2011 से पेंशन  
स्थापना में स्थानांतरित हो गये हैं।

बी. बी. शर्मा,  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक-टीसी)

सं. 73, दिनांक 24 जनवरी 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नत्या  
करते हैं:--

नियमित सेना

इन्फेन्ट्री

मैकनाइज्ड इन्फेन्ट्री रेजिमेन्ट

भारत के राजपत्र सं. 452, दिनांक 15 जुलाई 2010 में प्रकाशित  
अधिसूचना सं. 35 दिनांक 28 अगस्त 2010 शिर्षक नियमित सेना  
उपशिर्षक इन्फेन्ट्री और मैकनाइज्ड इन्फेन्ट्री रेजिमेन्ट के नीचे निम्नलिखित  
संशोधन किया जाता है।

नायब सूबेदार के रैंक में

के स्थान पर

हवलदार रणजीत सिंह (14916133 एम अब जे सी-421582 एम),  
07 अप्रैल 2010

पढा जाए

हवलदार रणजीत सिंह (14916133एम अब जे सी-421582 एम),  
01 मई 2010

जे. राय चौधरी  
अवर सचिव



## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 19th February 2011

No. 66, dated 21 January 2011—The President is pleased to make the following appointments with effect from the dates shown against each (Navy Instructions 15/69 refers) :—

## INDIAN NAVY

## PERMANENT CADRE TO BE

## MASTER CHIEF PETTY OFFICER CLASS I

Name, Rank, PNo. &amp; wef Date

Govind Singh, MC AM I (163046K), 01 Apr 2009  
 Vimal Prasad, MC AM I (163362B), 01 Apr 2009  
 Pradeep K Pattanaik, MC AA I (193080W), 01 Aug 2009  
 Arun Kumar Singh, MC AA I (193060Z), 01 Nov 2009  
 Sudhir Pathania, MC AA I (192896A), 01 Dec 2009  
 Parsuram Rout, MC AM(W) I (162727K), 01 Apr 2009  
 Ram Niwas, MC AM(W) I (163577T), 01 Apr 2009  
 Balaga Jeevaratnam, MC AA(W) I (164098A), 01 Apr 2009  
 Upminder Singh, MC AM(W) I (192643A), 01 Apr 2009  
 Roopa Ram, MC AT Arms I (143679W), 01 Apr 2009  
 Ratan Singh, MC AT Arms I (111128R), 01 Jun 2009  
 Satvir Singh, MC AT Arms I (143610N), 01 Sep 2009  
 Prahlad Singh, MC AT Arms I (149619W), 01 Nov 2009  
 Vijay Singh, MCA(AH) I (112454B), 01 Apr 2009  
 Karan Singh, MCA(AH) I (149401Z), 01 Apr 2009  
 Suresh TR, MCA(AH) I (160843B), 01 Apr 2009  
 Bharat Singh, MCA(Met) I (161258Y), 01 May 2009  
 Balwinder Singh, MCA(AH) I (114143T), 01 Jun 2009  
 Pardeep Kumar, MCA(AH) I (162954A), 01 Dec 2009  
 Siju Joseph, MCPOR Tel I (119085Z), 18 Nov 2008  
 Hridaya Narayan Singh, MCPOR Tel I (114253T), 01 Apr 2009  
 Krishna Kumar Singh, MCPOR Spl I (160503F), 01 Apr 2009  
 Satheesan N, MCPOR Tac I (160825N), 01 Apr 2009  
 Lalji Pal, MCPOR Tac I (162138Y), 01 May 2009  
 Santosh Kumar Upadhyay, MCPOR Tac I (163075A), 01 Jun 2009  
 Sanjay Kumar Singh, MCPOR Tac I (114667H), 01 Jul 2009  
 Narayan S Dhami, MCPOR Tel I (114787F), 01 Jul 2009

Baidehi Sharan Shukla, MCPOR Tel I (162791F), 01 Jul 2009

Om Prakash, MCPOR Spl I (113800N), 01 Aug 2009

Shankar Nazir, MCPOR Tel I (161070W), 01 Aug 2009

Vinay Kumar Chauhan, MC EAA I (197202N), 01 Apr 2009

Kishor Kumar Aswal, MC EAA I (197418B), 01 Apr 2009

Tapan Kumar Pati, MC Mech(Ar) I (162485K), 01 Apr 2009

Uday Narayan Tiwari, MC EAAR I (197484B), 02 Aug 2009

Prem Anand, MC EAAR I (197457T), 01 Jan 2010

Abdul Gaffar, MC Mech P I (162203W), 01 Oct 2008

Inder Singh, MC Mech P I (163568Y), 01 Apr 2009

Virender Krishana, MC Eap I (197702Z), 01 Aug 2009

Bhism Pal, MC Mech P I (163129Z), 02 Aug 2009

Subash Chandra, MC Mech P I (114520Z), 01 Sep 2009

Raj Kumar Yadav, MC Mech P I (166967Y), 01 Sep 2009

Paramjit Singh, MC Eap I (197686N), 01 Dec 2009

Madanlal Kalta, MC Ear I (197354H), 01 Apr 2009

Anupam Singh Negi, MC Ear I (197701Y), 01 Apr 2009

Vikram Singh Yadav, MC Ear I (197713Z), 01 Apr 2009

Jasbir Singh, MC Ear I (197721T), 02 Aug 2009

Ram Singh, MC Ear I (197551F), 06 Oct 2009

Jagdish Singh Negi, MC Ela I (164858B), 01 Aug 2009

Tarsem Lal Matlotia, MC Elar I (161704K), 01 Jun 2009

Nasib Singh, MC Elar I (166007R), 12 Sep 2009

Suresh Kumar V, MC Elp I (160288T), 01 Jun 2009

VB Yadava, MC Elp I (160508T), 01 Sep 2009

KC Sahoo, MC Elp I (160187N), 01 Dec 2009

Laxman Datt Joshi, MC Elp I (162580A), 01 Jan 2010

Shashidhar Mishra, MC Elr I (162449B), 01 Jun 2009

Anoop Kumar, MC Elr I (113496Y), 01 Jul 2009

Bhupender Yadav, MC Elr I (161920A), 01 Nov 2009

Deep Chandra Pandey, MC Elr I (161976B), 01 Mar 2010

Dhar Singh Rathore, MC Mech I (113214F), 01 Apr 2009

Ashok Kumar, MC Mech I (114128H), 01 Apr 2009

Devki Nandan, MC Mech I (114250K), 01 Apr 2009

Dharam Pal, MC Mech I (114381H), 01 Apr 2009

S Ramesh, MC Mech I (114627T), 01 Apr 2009	Kali Ram, MCPO I (160236Z), 01 Apr 2009
Swinder Singh, MC Mech I (149930A), 01 Apr 2009	Arun Dobhal, MCPO I (160409T), 01 Apr 2009
Gulab Singh, MC Mech I (150085B), 01 Apr 2009	Daulat Ram Sharma, MCPO I (111859A), 01 May 2009
Sunil Kumar Ray, MC Mech I (161435Z), 01 Apr 2009	Swaminath Yadawa, MCPO I (113082F), 01 May 2009
Santanu Adhikari, MC Mech I (161676Y), 01 Apr 2009	Krishan Kumar Gaur, MCPO I (148411Z), 01 May 2009
Vinod Kumar, MC Mech I (162389T), 01 Apr 2009	Uday Kumar Singh, MCPO I (149917Y), 01 May 2009
Arat Malik, MC Era I (167651A), 01 Apr 2009	Inder Singh, MCPO I (160444Y), 01 May 2009
Makara Sahoo, MC Era I (171021K), 01 Apr 2009	Nand Lal, MCPO I (160614H), 01 May 2009
Dilbahadur Chhetri, MC Era I (172502A), 01 Apr 2009	Surinder Singh Yadav, MCPO I (113468H), 01 Jun 2009
Barun Kumar Mehta, MC Era I (173090N), 01 Apr 2009	Laxman Singh Negi, MCPO I (149252K), 01 Jun 2009
Santosa Kumar Dash, MC Era I (173101N), 01 Apr 2009	Ramesh Kumar, MCPO I (113325H), 01 Jul 2009
Satyabir Singh, MC Era I (192892T), 01 Apr 2009	Sharwan Kumar, MCPO I (113494T), 01 Jul 2009
Chaudhary T Kisan, MC Era I (169726T), 21 Apr 2009	Madan Mohan Singh, MCPO I (162246T), 01 Jul 2009
Ashwani Kumar, MC Mech I (163303W), 01 Jun 2009	Trilok Singh Negi, MCPO I (163088F), 01 Aug 2009
Baliram Chandel, MC Era I (170708Z), 01 Sep 2009	Chandra Shekhar, MCPO I (149929Z), 01 Sep 2009
Ravi Shankar Tiwari, MC Mech I (163875W), 01 Nov 2009	Trilok Singh Indolia, MCPO I (162041A), 01 Sep 2009
Desh Raj, MC ME I (112265Z), 01 Jul 2008	Suresh Prasad, MCPO I (149949W), 01 Oct 2009
Iqbal, MC ME I (146203F), 01 Apr 2009	Santosh Kumar, MCPO I (113322A), 01 Nov 2009
Dipaka Kumar Das, MC ME I (160993W), 01 Apr 2009	Laxman Jati, MCPO I (113507Y), 01 Nov 2009
Tarendra Pratap Singh, MC ME I (162210K), 02 Aug 2009	Sitaram Singh, MCPO I (161492B), 01 Nov 2009
Anirudh Singh, MC ME I (163419H), 03 Sep 2009	Kuldeep Singh Katoch, MCPO I (113785B), 01 Dec 2009
Ram Yash Garg, MC ME I (112544H), 01 Nov 2009	Vijay Kesavan, MCPO I (114021R), 01 Dec 2009
Ramesh Kumar, MC ME I (161065H), 01 Jan 2010	Ram Sajiwan, MCPO I (162317B), 01 Dec 2009
Rakesh Singh Pathania, MC Swa I (193255T), 01 Apr 2009	Leeladhar Chouhan, MCPO I (162996Y), 01 Dec 2009
Harish Chander Katoch, MC Swa I (193478Z), 01 Apr 2009	Kutty Krishna Pillai B, MCPO I (164941T), 01 Dec 2009
Korade C Kisan, MC Swa I (193470F), 01 Feb 2010	Bhim Singh, MCPO I (113608Z), 01 Jan 2010
Karan Singh Shekhawat, MCPO AF I (164771F), 01 Jun 2009	Ram Vilas, MCPO I (163018Y), 01 Jan 2010
K Suresh, MCPO AF I (164842T), 01 Jan 2010	Hari Ram, MCPO I (162012K), 01 Mar 2010
Raj Kumar, MCPO AF I (165071N), 01 Jan 2010	Banwar Lal, MCPO M I (110877W), 01 Apr 2009
Chain Singh, MCPO AOF I (114751Z), 01 Apr 2009	Gopal Dubey, MCPO M I (112310A), 01 Apr 2009
Vikram Singh Kushwaha, MCPO CK(O) I (108626B), 01 Jan 2010	Raj Pal Singh, MCPO M I (144472Y), 01 Apr 2009
Fateh Bahadur Singh, MCPO CK(S) I (107243K), 01 Oct 2009	Narendranath KP, MCPO Mus I (188261T), 01 Apr 2009
Suresh Pal Singh Tomar, MCPO I (112045Z), 01 Apr 2009	Brajakishor Sanantaray, MCPO Std I (143773H), 01 Sep 2009
Ram Jeet Prasad, MCPO I (146943N), 01 Apr 2009	Ram Kumar, MCPO Std I (143765R), 01 Jan 2010
B T Dally, MCPO I (148894Y), 01 Apr 2009	Jai Bhagwan Singh, MCPO Std I (107590Z), 11 Jun 2009
J Siva Shan Mugam, MCPO I (148940A), 01 Apr 2009	Amar Chandra, MCPO Top I (107563N), 01 Dec 2009
Chander Prakash Sharma, MCPO I (149230K), 01 Apr 2009	Sanjay Kumar Singh, MCPO WTR I (112449T), 01 Apr 2009
	Suresh Kumar Singh, MCPO Wtr I (147864F), 01 Apr 2009

Deep Narayan, MCPO Wtr I (161274H), 01 Aug 2009  
Suresh Singh, MCPO Wtr I (149702H), 01 Sep 2009  
Raj Singh MSCPO I (143224K), 01 Oct 2009  
Santosh Kumar MSCPO I (111302K), 01 Nov 2009  
Ganapathi KC MSCPO I (111483Y), 01 Nov 2009  
Om Pal Singh MSCPO I (149772T), 01 Jan 2010  
Kanak Krishna Debnath, MC AM I (112054W), 01 Apr 2005  
Ravindra Kumar, MC AM I (112626W), 01 Apr 2005  
Raj Pal Singh, MC AM I (114155W), 01 Apr 2005  
Anil Kumar NS, MC AA I (192699B), 01 Apr 2005  
Mahi Pal Singh, MC AA I (192738T), 01 Apr 2005  
Sathyanathan KA, MC AA(W) I (192088R), 01 Apr 2005  
Shambhu Nath Yadav, MC AM(W) I (112574A), 01 Jan 2006  
Brij Raj Singh, MC AT Arms I (142308B), 01 Oct 2005  
Yashwant Singh Chauhan, MC AT Arms I (108853W), 01 Nov 2005  
Kashmir Singh, MCA(SE) I (107939T), 01 May 2005  
GS Chowdhari, MCA(AH) I (108794K), 01 Jun 2005  
AK Jyothi, MCA(Met) I (146015B), 01 Jun 2005  
RD Singh, MCA(AH) I (111306W), 01 Jan 2006  
Ajit Singh Saini, MCPOR Spl I (143438Y), 01 Apr 2005  
Rajendra Kumar, MCPOR Tac I (143990A), 01 Apr 2005  
PR Sasidharan, MCPOR Tel I (201493R), 01 Apr 2005  
Ram Kishan Yadav, MCPOR Tel I (144347N), 01 May 2005  
Ashok Kumar Kashiv, MCPOR Spl I (146292H), 01 Jun 2005  
Ginder Singh, MCPOR Tel I (109160T), 01 Jul 2005  
Narinder Singh, MCPOR Spl I (143524T), 01 Aug 2005  
Mohanlal Sah, MCPOR Tac I (110803A), 01 Nov 2005  
Shatrughan Singh, MCPOR Tel I (144380N), 01 Nov 2005  
Ram Bhuj Rawat, MCPOR Spl I (146857T), 01 Nov 2005  
Prem Singh Chauhan, MC Mech(AL) I (112263W), 01 Apr 2005  
Pushkar Singh Rawat, MC Mech(AL) I (160451N), 01 Jan 2006  
Krishna Singh, MC Mech(AR) I (113573Y), 01 Apr 2005  
Arun Kumar Rana, MC Eaar I (192203A), 01 Apr 2005  
RK Pradhan, MC Eap I (114700H), 01 Apr 2005  
Nirakar Sahoo, MC Eap I (162496K), 01 Apr 2005

Thomas CA, MC Eap I (164428A), 01 Apr 2005  
Krishna Kumar P, MC Eap I (166993F), 01 Apr 2005  
Rakesh Kumar, MC Eap I (197422N), 01 Apr 2005  
Dinesh Kumar Dhatwalia, MC Eap I (197423R), 01 Apr 2005  
Sunil Kumar, MC Eap I (197426Y), 01 Apr 2005  
Subhash Singh, MC Eap I (197436W), 01 Apr 2005  
Purushottam L Warjurkar, MC Eap I (197447W), 01 Apr 2005  
Thomas MP, MC Eap I (197451B), 01 Apr 2005  
Manoj Kumar Sharma, MC Eap I (197479T), 01 Apr 2005  
Rakesh Kumar, MC Eap I (197496F), 01 Sep 2005  
Herjinder Singh Saini, MC Eap I (197519H), 01 Feb 2006  
Prakasan K, MC Eap I (197530H), 01 Feb 2006  
Megh Singh, MC Mech R I (112362W), 01 Apr 2005  
Vakil Singh, MC Mech R I (148831B), 01 Apr 2005  
Shiv Kumar, MC Mech R I (148959W), 01 Apr 2005  
Ganesh Shankar Gupta, MC Mech R I (148980T), 01 Apr 2005  
Amjad Ali, MC Mech R I (149470F), 01 Apr 2005  
Chand Ram Singh, MC Mech R I (149539N), 01 Apr 2005  
Khimanand Joshi, MC Mech R I (149609Y), 01 Apr 2005  
Pramod Kumar, MC Ear I (192349H), 01 Apr 2005  
Swarn Singh, MC Mech R I (149437F), 01 Feb 2006  
Tanpure A Keshav, MC Ela I (112103F), 01 Apr 2005  
Sushil Kumar Upadhyay, MC Ela I (112914Z), 01 Jan 2006  
Daler Singh, MC Elar I (112887N), 01 Jun 2005  
Swapan Kumar Pradhan, MC EIP I (147372N), 01 Mar 2006  
Dilip Kumar Sharma, MC EIR I (110597H), 01 Apr 2005  
Dalbir Singh, MC EIR I (148341R), 01 Apr 2005  
Surbeer Singh Rawat, MC EIR I (148707Y), 01 Apr 2005  
Bhadur Singh, MC EIR I (111970B), 01 Dec 2005  
Bhanu Pratap Gupta, MC Era I (187616A), 01 Apr 2005  
Gaikwad Sunil Raosaheb, MC Era I (187627A), 01 Apr 2005  
Basheer A Basha, MC Era I (187664K), 01 Apr 2005  
A Kumar Venkatesh, MC Era I (187665N), 01 Apr 2005  
M Ramalingam, MC Era I (187666R), 01 Apr 2005  
Amrutha Prasad Bande, MC Era I (187669Y), 01 Apr 2005  
Gara John Sudhakar, MC Era I (187671A), 01 Apr 2005

Raj Kumar, MC Era I (187679W), 01 Apr 2005	Anil Kumar Yadav, MCPO I (204345Y), 01 Apr 2005
Tarate Bhagchand Keru, MC Era I (187684F), 01 Apr 2005	NK Shome, MCPO I (108751N), 01 May 2005
Pramod Amrutrao Kanase, MC Era I (191535H), 01 Apr 2005	Rabinder Kumar, MCPO I (144401K), 01 May 2005
Chander Bhan, MC Era I (191953H), 01 Apr 2005	Raj Kumar, MCPO I (146069A), 01 May 2005
Peter Antony V, MC Era I (187619H), 01 May 2005	Gurdial Singh, MCPO I (108401T), 18 Jun 2005
Udham Singh Virk, MC Era I (192103Z), 01 Jun 2005	Kuldeep Singh, MCPO I (177941N), 09 Jul 2005
Jayanta Majumder, MC Era I (192162H), 01 Nov 2005	Kamal Singh, MCPO I (144627Z), 01 Aug 2005
Jarnail Singh, MC Era I (192157Y), 30 Nov 2005	Sushil Kumar Jangid, MCPO I (146244Z), 01 Aug 2005
Birender Singh Yadav, MC Mech I (108663N), 01 Feb 2006	Ram Avtar, MCPO I (111004H), 01 Sep 2005
Vivekanand Jha, MC Mech I (142255H), 01 Feb 2006	Sitaram, MCPO I (110439Z), 01 Oct 2005
Jagdish Singh, MC ME I (110466K), 01 Jun 2005	Radha Kant Pandey, MCPO I (109394Z), 01 Nov 2005
Ghanshyam Dubey, MC ME I (109570Z), 01 Sep 2005	Radheshyam Singh, MCPO I (109932Y), 01 Nov 2005
Md Sunazul Haque Mazumdar, MC ME I (144118T), 01 Oct 2005	Guljari Lal, MCPO I (146449R), 01 Nov 2005
Yuvaraj Dhudum, MC ME I (144415T), 01 Nov 2005	CI Joy, MCPO I (146187W), 01 Dec 2005
Vijay Singh Sapahiya, MC ME I (148305H), 01 Feb 2006	Tirath Singh, MCPO I (146259H), 01 Dec 2005
Vinod Kumar OB, MC Swa I (187531H), 01 Apr 2005	Bhar Singh, MCPO I (110166B), 01 Feb 2006
Ramesh S, MC Swa I (187631K), 01 Apr 2005	Rajesh Kumar, MCPO I (146868T), 01 Feb 2006
Patil Ekanath Ramdas, MC Swa I (187632N), 01 Apr 2005	Amar Singh, MCPO I (147346B), 01 Feb 2006
M Abdul Rahiman, MC Swa I (187636Y), 01 Apr 2005	Lalji Yadav, MCPO I (110588N), 01 Mar 2006
Pradeep K, MC Swa I (187640F), 01 Apr 2005	Rakesh Chendra, MCPO I (111030T), 01 Mar 2006
Surya Bhanu Singh, MC Swa I (191684Y), 01 Apr 2005	Bir Bhan, MCPO I (147685Z), 01 Mar 2006
Birendra Pratap Singh, MCPO AF I (142995R), 01 Jun 2005	Krishna Chandra Rai, MCPO M I (142055B), 01 Jun 2005
Som Pal, MCPO AF I (110839H), 01 Feb 2006	Bhanwer Singh Rathore, MCPO M I (107591A), 01 Aug 2005
Brajendra Kumar Singh, MCPO AOF I (113379F), 01 Apr 2005	Jaswant Singh, MCPO M I (143678T), 01 Sep 2005
Narendra Singh, MCPO CK(O) I (106914N), 01 Aug 2005	Prem Singh, MCPO M I (141720T), 01 Nov 2005
Panchanan Sahoo, MCPO CK(S) I (140518K), 01 Apr 2005	Patnala Satya Rao, MCPO Mus I (188150R), 01 Apr 2005
Harendra Singh, MCPO I (108027T), 01 Apr 2005	Janak Singh, MCPO Std I (108093T), 01 Jul 2005
Anil Kumar Rao, MCPO I (108185A), 01 Apr 2005	Nanda Dulal Mandal, MCPO Std I (106910B), 26 Dec 2005
Krishan Singh, MCPO I (109979B), 01 Apr 2005	MS Mohanan, MCPO Top I (150644Z), 01 Dec 2005
Lalbahadur, MCPO I (141368T), 01 Apr 2005	Rajan PK, MCPO Wtr I (146577F), 01 Jul 2005
Darhsan Singh, MCPO I (143640F), 01 Apr 2005	Kartar Singh Yadav, MCPO Wtr I (110901Z), 01 Sep 2005
Nepal Saha, MCPO I (147933N), 01 Apr 2005	Ramkumar Raghav, MCPO Wtr I (147834N), 01 Jan 2006
Gajendra Pal Singh, MCPO I (201907F), 01 Apr 2005	Uttam Singh, MCPO Wtr I (147806Z), 31 Mar 2006
Satish Kumar Sharma, MCPO I (202362R), 01 Apr 2005	Shiv Kumar, MSCPO I (143554K), 01 Apr 2005
Rajender Mohan, MCPO I (202512F), 01 Apr 2005	Gangupam Trinadhamurty, MSCPO I (144806F), 01 Apr 2005
Binay Kumar Singh, MCPO I (203559K), 01 Apr 2005	Ashok Kumar, MSCPO I (109788W), 01 Jan 2006

## MASTER CHIEF PETTY OFFICER CLASS II

Name, Rank, P. No. &amp; wef Date

Satya Narayan Yadav, MC AM II (168876K), 01 Apr 2005  
 Vimal Kumar Singh, MC AM II (170605R), 01 May 2005  
 Rajeev Kumar Shandilya, MC AA(W) II (192878K), 01 Apr 2005  
 James Varghese, MC AA(W) II (193127A), 01 Apr 2005  
 Saju P Thomas, MC AA(W) II (193149A), 01 Apr 2005  
 K Biju MC, AA(W) II (193298R), 01 Apr 2005  
 Manoj Kumar Chauhan MC AA(W) II (193111R), 02 Apr 2005  
 Shibu Augustine, MC AA(W) II (193134T), 01 Jan 2006  
 Balakrishnan T, MC AT Arms II (149225Z), 01 May 2005  
 Manoj Kumar, MC AT Arms II (160604K), 01 May 2005  
 Ved Prakash, MC AT Arms II (149989K), 01 Oct 2005  
 Naurang Singh, MC AT Arms II (150937R), 01 Nov 2005  
 Ram Binod Thakur, MC AT Arms II (161512Z), 01 Jan 2006  
 Vijendra Singh, MC AT Arms II (162226Y), 01 Feb 2006  
 KDR Reddy, MCA (AH) II (162507K), 01 May 2005  
 Pradeep Bajpai, MCA (AH) II (162153F), 01 Jun 2005  
 Tulsi Ram, MCA (SE) II (162658B), 01 Jun 2005  
 Rajbir Singh Dhruv, MCA (SE) II (163969H), 01 Jul 2005  
 Harish Chnadra Dubey, MCA (AH) II (164284Z), 01 Jul 2005  
 Shishupal Singh, MCA (MET) II (163773N), 01 Aug 2005  
 VJ Kamalta, MCA (AH) II (163188H), 01 Oct 2005  
 Om Prakash, MCA (AH) II (164601W), 01 Oct 2005  
 Suresh Kumar, MC Por Tac II (113776H), 01 Apr 2005  
 Vallepu Rama Mohan, MC Por Tac II (113803W), 01 Apr 2005  
 Bhanwar Lal, MC Por Tac II (114668K), 01 Apr 2005  
 Tony Kumar Roy, MC Por Tel II (160050A), 01 Apr 2005  
 Shamsher Singh, MC Por Tel II (160879K), 01 Apr 2005  
 Kapileswar Mohapatra, MC Por Tac II (162488T), 01 Apr 2005  
 Pavithran KP, MC Por Tac II (162980K), 01 Apr 2005  
 Jai Ram Kureeya, MC Por Tel II (114797B), 01 May 2005  
 Bhairvi Datt, MC Por Tac II (114724N), 01 Jun 2005  
 Ramvir Singh, MC Por Tel II (162261A), 01 Jun 2005  
 R Deenathayalan, MC Por Tel II (163326Y), 01 Jun 2005

Harbinder Singh, MC Por Tel II (114194H), 01 Aug 2005  
 Satish Chandra Rathore, MC Port AC II (162635A), 01 Aug 2005  
 Subhash Chand, MC Por Tel II (114584W), 01 Nov 2005  
 Yoginder, MC Por Tel II (161742Y), 01 Nov 2005  
 Akshaya Kumar Biswal, MC Por Tel II (162482B), 01 Nov 2005  
 Krishna Nand Sharma, MC Por Spl II (163663N), 01 Nov 2005  
 Harivnder Singh, MC Por AC II (161343R), 01 Dec 2005  
 Shyam P Tripathi, MC Por Tel II (163757A), 01 Feb 2006  
 Kedar Singh, MC Por Tel II (164145H), 01 Feb 2006  
 P Muralidharan, MC Mech(AL) II (164850K), 01 Aug 2005  
 Devinder Singh Rawat, MC Eaar II (197420H), 31 Mar 2006  
 MDJ Mullick, MC Mech P II (164902B), 01 Apr 2006  
 Rakesh Kumar Singh, MC EAP II (197505A), 01 Apr 2005  
 Amrendra Kumar Singh, MC EAP II (197699T), 01 Apr 2005  
 Ajith Kumar, MC EAP II (197706H), 01 Apr 2005  
 Ganaraj Christopher, MC EAP II (197710T), 01 Apr 2005  
 Narender Pal Singh, MC EAP II (197703A), 01 Sep 2005  
 Nilesh More, MC EAP II (197697N), 01 Feb 2006  
 E Manoj, MC EAP II (197715B), 01 Feb 2006  
 Narendra Singh, MC EAP II (197717H), 31 Mar 2006  
 Satvinder Nath, MC EAR II (197682B), 01 Apr 2005  
 Sunil Kumar Singh, MC EAR II (197735Z), 01 Apr 2005  
 George Joseph, MC EAR II (197744W), 01 Apr 2005  
 Manish Bhardwaj, MC EAR II (197733W), 02 Apr 2005  
 S Sharma, MC EAR II (197726B), 01 Feb 2006  
 D Rajeswaran, MC EAR II (197734Y), 01 Feb 2006  
 Unas Ali Khan, MC ELA II (167302H), 01 Apr 2005  
 Ramesh Singh, MC ELA II (167327R), 01 Apr 2005  
 P Sathiapalan, MC ELA II (166452A), 01 Jan 2006  
 Kartar Singh, MC ELAR II (164531K), 01 Apr 2005  
 Sarat Chandra Das, MC ELAR II (162726H), 01 Jun 2005  
 Vijaykrishnan P, MC ELP II (114814T), 01 Apr 2005  
 Kundan Singh Adhikari, MC ELP II (162376N), 01 Apr 2005  
 Raksha Pal singh, MC ELP II (162797W), 01 Apr 2005  
 Rabinarayan Das, MC ELP II (163524Y), 01 Apr 2005

- Gopal Sharan Singh, MC ELP II (164234K), 01 Apr 2005
- Rajnish Kumar Tripathi, MC ELP II (164448Y), 01 Apr 2005
- Om Prakash Singh, MC ELP II (114758R), 01 Jan 2006
- Jagbir Singh, MC ELP II (179844N), 01 Mar 2006
- Anil Kumar, MC ELR II (114177W), 01 Apr 2005
- Janardan Yadav, MC ELR II (114684Y), 01 Apr 2005
- Suraj Thapa, MC ELR II (161642W), 01 Apr 2005
- Ramesh Chandra, MC ELR II (162633Y), 01 Apr 2005
- Sarwan Kumar, MC ELR II (114869T), 01 May 2005
- Shrinivas Kamat, MC ELR II (163298H), 15 Jul 2005
- Chavan S Ganpat, MC ELR II (114784Z), 01 Aug 2005
- Krishna Pratap Singh, MC ELR II (162017Y), 01 Oct 2005
- Avnindra Kumar, MC ELR II (164297B), 01 Dec 2005
- Dinesh Chandra Yadav, MC Mech II (113913W), 01 Apr 2005
- Satish Chand, MC Mech II (113988R), 01 Apr 2005
- Ramesh Chand Thakur, MC Mech II (114243W), 01 Apr 2005
- Kashmir Singh, MC Mech II (160873Y), 01 Apr 2005
- Rajender Kumar, MC Mech II (161256T), 01 Apr 2005
- Nand Lal, MC Mech II (161919Z), 01 Apr 2005
- Banwari Lal Saini, MC Mech II (162220H), 01 Apr 2005
- Chander Vir Singh, MC Mech II (162426A), 01 Apr 2005
- Anil Kishor, MC Mech II (162631T), 01 Apr 2005
- Uma Shankar, MC Mech II (162675T), 01 Apr 2005
- Mohan Lal Kangotra, MC Mech II (163307B), 01 Apr 2005
- Sanyasi Sahani, MC Mech II (163368T), 01 Apr 2005
- Kartika C Rout, MC Mech II (163482A), 01 Apr 2005
- Ramesh Chaudhary, MC Mech II (163518H), 01 Apr 2005
- L V N L Prasad, MC Mech II (163845A), 01 Apr 2005
- Yechuru Sasidhar, MC Mech II (163847F), 01 Apr 2005
- Indrajit, MC Mech II (164539B), 01 Apr 2005
- Satish Chander, MC Mech II (165123F), 01 Apr 2005
- Mukesh Kumar, MC Mech II (165993H), 01 Apr 2005
- Nashikkar A Vasant, MC ERA II (169748T), 01 Apr 2005
- Duryodhan Biswal, MC ERA II (171023R), 01 Apr 2005
- Danawale Dilip Sopan, MC ERA II (171794T), 01 Apr 2005
- Ranjith V, MC ERA II (172896Y), 01 Apr 2005
- Deshmukh Kishore Uttam, MC ERA II (173575R), 01 Apr 2005
- Jaipal Singh, MC ERA II (173730T), 01 Apr 2005
- Manish Kumar, MC ERA II (173923F), 01 Apr 2005
- Rajesh Kocheril, MC ERA II (173969K), 01 Apr 2005
- Satish Chandra Chandola, MC ERA II (193331R), 01 Apr 2005
- Rajesh Mandal, MC ERA II (193418N), 01 Apr 2005
- Naidu S Arunkumar, MC ERA II (193474R), 01 May 2005
- Laxmi Narayan, MC Mech II (112631F), 01 Jun 2005
- Ram Avatar Koashik, MC ERA II (173749K), 01 Jun 2005
- Anoop Kumar, MC ERA II (193433Y), 01 Jun 2005
- Asvini Kumar Yadav, MC ERA II (193482H), 01 Oct 2005
- Rakesh Balwan, MC ERA II (193448F), 01 Nov 2005
- Molay Kumar Das, MC ERA II (193469B), 01 Nov 2005
- Harish Kumar, MC Mech II (161889F), 30 Nov 2005
- Sohan Singh, MC Mech II (113756N), 01 Feb 2006
- Surya N Panigrahi, MC Mech II (165233F), 01 Feb 2006
- Devikar Dattatray Nana, MC ERA II (193446A), 01 Feb 2006
- Anoop Singh, MC ME II (113591N), 01 Apr 2005
- Sanjay Kumar Singh, MC ME II (161673R), 01 Apr 2005
- Vinod Kumar Rai, MC ME II (163405A), 01 Apr 2005
- Yashawant Rai, MC ME II (163455R), 01 Apr 2005
- Harendra Pandey, MC ME II (166521H), 01 Jun 2005
- VK Tripathi, MC ME II (167297Y), 01 Jul 2005
- Birendra Kumar Yadav, MC ME II (112640A), 01 Aug 2005
- Ram Krishna Chaudhary, MC ME II (161607R), 01 Sep 2005
- Mukesh Kumar, MC ME II (161196F), 01 Oct 2005
- Devanand Singh, MC ME II (112750A), 01 Nov 2005
- Bijender Singh, MC ME II (161583K), 01 Nov 2005
- Pradeep Kumar, MC ME II (166984K), 01 Dec 2005
- Arvind Kumar Singh, MC ME II (113083H), 01 Feb 2006
- Arvind Kumar Singh, MC ME II (165667T), 01 Feb 2006
- Pramoth Kumar Puan, MC ME II (167705Z), 01 Mar 2006
- Kathole Anil Ramesh Rao, MC ME II (168089Y), 31 Mar 2006
- Jiwan Giri, MC SWA II (193496R), 01 Apr 2005
- Rahul Kumar Mishra, MC SWA II (193511Z), 01 Apr 2005

Anup Kumar Sahu, MC SWA II (193524B), 01 Apr 2005  
Biram Singh Bhadana, MC SWA II (193527K), 01 Apr 2005  
Gurdeep Singh, MC SWA II (193565Y), 01 Apr 2005  
Jai Prakash, MC SWA II (193566Z), 01 Apr 2005  
Rajesh Kumar Yadav, MC SWA II (193570H), 01 Apr 2005  
Kripa Charya Rai, MC SWA II (193413A), 12 Jan 2006  
Dinesh Kumar, MCPO AF II (113128K), 01 Apr 2005  
Kuldeep Singh, MCPO AF II (163122H), 01 Apr 2005  
Om Prakash, MCPO AF II (163131B), 01 Apr 2005  
Bachan Singh, MCPO AF II (165268K), 01 Jun 2005  
Rakesh Bahadur Singh, MCPO AF II (165199B), 01 Feb 2006  
Brijpal Singh, MCPO AOF II (164615A), 01 Apr 2005  
Tasvir Singh, MCPO AOF II (165796K), 01 Apr 2005  
R Sathia Dhas, MCPO CK(O) II (107314Y), 01 Aug 2005  
Birender Singh, MCPO CK(O) II (107558A), 01 Aug 2005  
M Shanmugavelu, MCPO CK(S) II (107357W), 06 Sep 2005  
Girraj Singh, MCPO CK(S) II (107219F), 01 Nov 2005  
Manbir Singh, MCPO CK(S) II (107352H), 30 Nov 2005  
Prem Singh Rawat, MCPO CK(S) II (107865Z), 01 Jan 2006  
Man Singh, MCPO CK(S) II (109636Z), 01 Feb 2006  
Rajendra, MCPO II (113609B), 01 Apr 2005  
Ram Phal, MCPO II (113746R), 01 Apr 2005  
Mushtaq Ahmed, MCPO II (113795A), 01 Apr 2005  
Kamala Prasad Yadav, MCPO II (113798H), 01 Apr 2005  
TG Narsappa, MCPO II (114407T), 01 Apr 2005  
Satyabir Singh, MCPO II (114571R), 01 Apr 2005  
Bharat Singh, MCPO II (114859W), 01 Apr 2005  
Desh Raj, MCPO II (149771R), 01 Apr 2005  
Pradeep Kumar, MCPO II (160405H), 01 Apr 2005  
Ved Ram, MCPO II (161181Y), 01 Apr 2005  
Dinesh Singh, MCPO II (161280Y), 01 Apr 2005  
Kamal Singh, MCPO II (161439H), 01 Apr 2005  
Inder Singh Ojha, MCPO II (161550K), 01 Apr 2005  
Joginder Singh, MCPO II (161564T), 01 Apr 2005  
Raj Kumar Tripathi, MCPO II (161628N), 01 Apr 2005  
Sushant Kumar Ghosh, MCPO II (161683N), 01 Apr 2005

Radhe Shyam S Kushwaha, MCPO II (161730W), 01 Apr 2005  
Shaitana Ram Bishnoi, MCPO II (162010F), 01 Apr 2005  
Digamber Singh, MCPO II (162150Z), 01 Apr 2005  
Rama Kant Tripathi, MCPO II (162191T), 01 Apr 2005  
Sambhu Nath Mohanta, MCPO II (162275H), 01 Apr 2005  
Bijaya Kumar Mohanty, MCPO II (162282Z), 01 Apr 2005  
Rabinarayan Kar, MCPO II (162492A), 01 Apr 2005  
Chandra Deo S Yadav, MCPO II (162718R), 01 Apr 2005  
Umesh Chandra, MCPO II (163106Y), 01 Apr 2005  
Ravinder Kumar, MCPO II (163190N), 01 Apr 2005  
Tule Ram, MCPO II (163727H), 01 Apr 2005  
Suresh Kumar Sharma, MCPO II (163985W), 01 Apr 2005  
Ramana Joshi, MCPO II (164443K), 01 Apr 2005  
Ravinder Kumar, MCPO II (164573F), 01 Apr 2005  
P Madhusudhan Reddy, MCPO II (177196W), 01 Apr 2005  
Sarvesh K Tripathi, MCPO II (112765K), 13 Apr 2005  
Pala Mukeshchandra Chandrakant, MCPO II (113183K), 01 May 2005  
K Lal Shrivastava, MCPO II (113747T), 01 May 2005  
Golam Mostafa Mondal, MCPO II (151185B), 01 May 2005  
Jai Singh Bola, MCPO II (163009A), 01 May 2005  
Hawa Singh, MCPO II (163135N), 01 May 2005  
Mrutyunjay Prusty, MCPO II (164038R), 01 May 2005  
Shiv Kishore Dwivedi, MCPO II (163095Y), 01 Jun 2005  
Pralhad Kumar Dixit, MCPO II (160665Z), 09 Jul 2005  
Dharm Vir, MCPO II (113596Z), 01 Aug 2005  
Manohar Lal, MCPO II (114768N), 01 Aug 2005  
Shiva Bhan S Chauhan, MCPO II (161634A), 01 Aug 2005  
Surya Prakash Singh, MCPO II (161867F), 01 Aug 2005  
Ram Raghu Nath, MCPO II (164317Z), 01 Aug 2005  
Ram Nayan Yadav, MCPO II (113920K), 01 Sep 2005  
Kuldip Singh, MCPO II (114138F), 01 Sep 2005  
Raphik Khan, MCPO II (114296R), 01 Sep 2005  
Randhir Singh, MCPO II (114872B), 01 Oct 2005  
CPR Sudheer Kumar, MCPO II (128439H), 28 Oct 2005  
Surender Singh, MCPO II (112129R), 01 Nov 2005  
Mohammed Askander, MCPO II (160061A), 01 Nov 2005

Teerth Raj, MCPO II (162372B), 01 Nov 2005	Bacha Lal Ram, MCPO TOP II (108638F), 01 Nov 2005
Rakesh Kumar Pandey, MCPO II (162377R), 01 Nov 2005	Ganiseety Ananda Raju, MCPO WTR II (112977T), 01 Apr 2005
Sunil Kumar Sinha, MCPO II (162554T), 01 Nov 2005	Rajender Prasad, MCPO WTR II (149668F), 01 Apr 2005
Naresh Kumar, MCPO II (163187F), 01 Nov 2005	Sajjan Kumar Soni, MCPO WTR II (160782R), 01 Apr 2005
Rajendra Singh, MCPO II (163582B), 01 Nov 2005	Laxmi Narain, MCPO WTR II (161410T), 01 Apr 2005
Shamsher Singh, MCPO II (164620N), 01 Nov 2005	Hans Raj, MCPO WTR II (160787A), 01 Jul 2005
Lakhan Lal, MCPO II (161269Y), 01 Dec 2005	Sridharan Jayakumar, MCPO WTR II (113356B), 01 Sep 2005
Kamlesh Kumar Singh, MCPO II (161724F), 01 Dec 2005	Bachana Ram Choudhary, MCPO WTR II (113647R), 01 Jan 2006
Ashok Kumar, MCPO II (163971N), 01 Dec 2005	Gautam Singh, MCPO WTR II (161640R), 01 Feb 2006
Anil Kumar Singh Yadav, MCPO II (162704H), 01 Jan 2006	Narayan Samal, MCPO WTR II (160987F), 31 Mar 2006
Rajender Singh, MCPO II (163141A), 01 Jan 2006	Mukesh Kumar Verma, MCPO WTR II (163183Y), 31 Mar 2006
Anand Singh, MCPO II (161991N), 01 Feb 2006	M Narayan Dubey, MSCPO II (147826W), 01 May 2005
Balaram Mondal, MCPO II (163461B), 01 Feb 2006	Uday Singh, MSCPO II (111801W), 01 Jul 2005
I Uday Kumar, MCPO II (162611Y), 01 Mar 2006	Hardeb Singh Sikarwar, MSCPO II (148081Z), 01 Aug 2005
Satyanarayan, MCPO II (114679K), 31 Mar 2006	Dharmpal Singh, MSCPO II (113336H), 01 Nov 2005
Pradeep Kumar Pandey, MCPO II (162454R), 31 Mar 2006	Subhash Chander Shukla, MSCPO II (161217B), 01 Nov 2005
Arjun Shivaji Mandage, MCPO II (164401R), 31 Mar 2006	Shravan Kumar Lodhi, MSCPO II (161246W), 01 Nov 2005
Umesh Singh, MCPO II (164669Z), 31 Mar 2006	Jai Prakash Yadav, MSCPO II (161454T), 01 Nov 2005
Brijendra Singh, MCPO M II (149094A), 01 Jun 2005	Suresh Kumar, MSCPO II (113187W), 01 Jan 2006
Anil Kumar Singh, MCPO M II (112368H), 01 Aug 2005	Parmanand, MSCPO II (113901T), 01 Jan 2006
Sube Singh, MCPO M II (112892Z), 01 Aug 2005	Sameer Ramesh Bhoir, MC AA II (181011R), 01 Apr 2007
Hira Singh, MCPO M II (148555A), 01 Sep 2005	K Chandra Palei, MC AM II (179977R), 01 Feb 2009
Raj Kumar, MCPO M II (112638Y), 01 Nov 2005	Sudhir Singh, MC AM II (116609Y), 01 Apr 2009
Surender Kumar, MCPO M II (148608Y), 01 Nov 2005	Baljit Singh, MC AM II (117508R), 01 Apr 2009
Ravinder Singh, MCPO M II (148952F), 01 Nov 2005	GV Ramayya, MC AM II (117539K), 01 Apr 2009
Mahender D Sharma, MCPO M II (160570H), 01 Nov 2005	Jogender Singh, MC AM II (117824H), 01 Apr 2009
Ramesh Kumar, MCPO M II (112496Z), 01 Jan 2006	Bhabatosh Mandal, MC AM II (176944Y), 01 Apr 2009
Suresh Pal Saini, MCPO M II (113431Z), 01 Jan 2006	Akhilesh Kumar Jha, MC AM II (176952R), 01 Apr 2009
Vijaypal Singh, MCPO M II (113720F), 01 Feb 2006	Sisir Kumar Sahoo, MC AM II (177870A), 01 Apr 2009
R Kumar Lal Karam, MCPO MUS II (188169H), 01 Apr 2005	Thankappan Biju, MC AM II (178526T), 01 Apr 2009
Roshan Lal, MCPO STD II (145001Z), 01 Jun 2005	P S Venkat Prasad, MC AM II (179008N), 01 Apr 2009
Shaik Moula, MCPO STD II (145313H), 01 Jul 2005	Amar K Singh, MC AM II (180644F), 01 Apr 2009
Rostam Ram, MCPO STD II (145024A), 10 Nov 2005	Vivek Puri, MC AA II (180648R), 01 Apr 2009
Joginder Singh, MCPO STD II (143701W), 01 Feb 2006	
Ghenghat Ganesh Munsilal, MCPO TOP II (107831Y), 01 Nov 2005	
Matcha Surya Rao, MCPO TOP II (107954A), 01 Nov 2005	



- Arvind Kumar, MC AA II (180981Y), 01 Apr 2009  
Tarsem Singh, MC AA II (180988N), 01 Apr 2009  
Manoj T, MC AA II (181434A), 01 Apr 2009  
Pravin Rajan, MC AA II (181446B), 01 Apr 2009  
Daksh Kumar, MC AA II (181514H), 01 Apr 2009  
Rishi Kumar Yadav, MC AA II (181553Y), 01 Apr 2009  
Avinash Pandey, MC AA II (181559K), 01 Apr 2009  
Amit Kumar, MC AA II (193762W), 01 Apr 2009  
D Subba Rao, MC AA II (193782R), 01 Apr 2009  
B Sharad Reddy, MC AA II (193951Z), 01 Apr 2009  
Gopal Chaubey, MC AA II (193956K), 01 Apr 2009  
Mohd Muzahid Qureshi, MC AA II (193968N), 01 Apr 2009  
Yogesh Kumar, MC AA II (194010H), 01 Apr 2009  
Pankaj Kumar, MC AA II (194045N), 01 Apr 2009  
Manish Kumar Tyagi, MC AA II (194060Y), 01 Apr 2009  
Gaurish Rawji Singbal, MC AA II (181419T), 01 Sep 2009  
Pentakota B Shekar, MC AA II (194034N), 01 Sep 2009  
GVL Nageswararao, MC AA II (194078N), 01 Nov 2009  
Neeraj Kumar, MC AM(W) II (116306H), 01 Apr 2009  
Mukesh Kumar Sharma, MC AM(W) II (176263Z), 01 Apr 2009  
Narayan Ram Gureliya, MC AM(W) II (178366B), 01 Apr 2009  
Radhakanta Chaudhari, MC AM(W) II (179954N), 01 Apr 2009  
Rajiv Kumar Ahlawat, MC AM(W) II (193896Z), 01 Apr 2009  
Sushil Kumar Dubey, MC AM(W) II (193910F), 01 Apr 2009  
Samit Chakrabarty, MC AM(W) II (115562T), 02 Apr 2009  
Basanta Kumar Sahu, MC AM(W) II (115883Y), 01 Jul 2009  
Giri K, MC AM(W) II (118169T), 01 Dec 2009  
Munish Chandra, MC AT Arms (162146R), 01 May 2009  
Shish Ram, MC AT Arms (168069A), 01 Jun 2009  
Mohinder Kumar, MC AT Arms (114662Y), 01 Jul 2009  
Jagjivan Ram Yadav, MCA(AH) II (163065B), 01 Apr 2009  
Bhupendra Singh Nayal, MCA(SE) II (163295A), 01 Apr 2009  
Ashok Kumar Yadav, MCA(MET) II (164224N), 01 Apr 2009  
Rajendran P, MCA(AH) II (164724Z), 01 Apr 2009  
Balaram Mohapatra, MCA(PH) II (164981H), 01 Jan 2010  
Shivaji Mahto, MCA(AH) II (165166B), 01 Jan 2010  
Sivakumar C, MCA(AH) II (165155B), 01 Feb 2010  
Ranbir Singh Yadav, MCPOR Spl I (164656W), 01 Apr 2009  
Dalip Kumar Dahiya, MCPOR Spl I (165862K), 01 Apr 2009  
Naresh Kumar, MCPOR Tel I (165889Y), 01 Apr 2009  
Kumaran K, MCPOR Spl I (166119W), 01 Apr 2009  
PK Kumar Chhotabhai, MCPOR Spl I (167294R), 01 Apr 2009  
Akshaya Kumar Samal, MCPOR Tac I (167694Z), 01 Apr 2009  
Neehar Ranjan Samal, MCPOR Tac I (168977R), 01 Apr 2009  
Gausbeg Amirbeg, MCPOR Tel I (168946W), 21 May 2009  
JDKP Joseph, MCPOR Tac I (168898K), 01 Jul 2009  
Naveen Kumar, MCPOR Tel I (129630R), 26 Aug 2009  
S Kumar Chaturvedi, MCPOR Tel I (167556K), 01 Jan 2010  
T Ravindra Kumar Naidu, MCPOR Tel I (168371N), 01 Feb 2010  
Indra Ram, MC Mech (AL) (176733T), 01 Apr 2009  
Rajbalee Bind, MC Mech (AL) (177557R), 01 Apr 2009  
Dheeraj K Sharma, MC EAA II (180556F), 01 Apr 2009  
Sombir, MC EAA II (180565A), 01 Apr 2009  
Binesh PV, MC EAA II (180571R), 01 Apr 2009  
Kandi Achim Naidu, MC EAA II (180595W), 01 Apr 2009  
Tapan K Patra, MC EAA II (180597Z), 01 Apr 2009  
Arun K Choudhury, MC EAA II (180603N), 01 Apr 2009  
AK Sharma, MC EAA II (180785A), 01 Apr 2009  
Punit Pandey, MC EAA II (180789K), 01 Apr 2009  
CK Srivastava, MC EAA II (180790N), 01 Apr 2009  
Prashant Khare, MC EAA II (180919F), 01 Apr 2009  
Krishan Kant Rawat, MC EAA II (181207K), 01 Apr 2009  
A Vinoth Kumar, MC EAA II (181235Z), 01 Apr 2009  
Rakesh K Srivastava, MC EAA II (181331T), 01 Apr 2009  
Manas Ranjan Pattanaik, MC EAA II (197840N), 01 Apr 2009  
Avinash Salunke, MC EAA II (197887W), 01 Apr 2009  
CM Bhadrinath, MC EAA II (197888Y), 01 Apr 2009

- Lino K Philip, MC EAA II (197904H), 01 Apr 2009
- Neelmani Dubey, MC EAA II (198020Y), 01 Apr 2009
- S Zaheer Abbas Rizvi, MC EAA II (198116R), 01 Apr 2009
- Ravi Prakash Sharma, MC EAA II (198043Z), 01 Jan 2010
- Vijay Bahadur Pal, MC CAA II (181326F), 01 Feb 2010
- Singa Raju S Prasad, MC Mech (AR) (115712H), 01 Apr 2009
- Pratip Sen, MC Mech (AR) (176577N), 01 Apr 2009
- Ankush Rambhau Darode, MC Mech (AR) (178339T), 01 Apr 2009
- Uttam Chettri, MC Mech (AR) (178870Z), 01 Apr 2009
- Ashok Bansal, MC EAAR II (180510A), 01 Apr 2009
- Himanshu S Bishi, MC EAAR II (180518W), 01 Apr 2009
- Gulam Tayab A Khan, MC EAAR II (180544B), 01 Apr 2009
- Amar Pal, MC EAAR II (180676B), 01 Apr 2009
- Paramanand, MC EAAR II (180843H), 01 Apr 2009
- Ashwani Kumar, MC EAAR II (180931H), 01 Apr 2009
- Nevase M Gopinath, MC EAAR II (181217H), 01 Apr 2009
- Rajdeep Sarkar, MC EAAR II (197805H), 01 Apr 2009
- Sudesh Kumar Singh, MC EAAR II (197817K), 01 Apr 2009
- VR Prem Kumar, MC EAAR II (197822Y), 01 Apr 2009
- SC Tiwari, MC EAAR II (197874R), 01 Apr 2009
- Rakesh Sharma, MC EAAR II (197916K), 01 Apr 2009
- Amrendra Kumar Arun, MC EAAR II (197942W), 01 Apr 2009
- KV Chandra Sekhar, MC EAAR II (197959H), 01 Apr 2009
- Nand Kishore, MC EAAR II (198021Z), 01 Apr 2009
- Rajesh Kumar Saini, MC EAAR II (198039R), 01 Apr 2009
- Sreekant P Kunnath, MC EAAR II (181266W), 01 May 2009
- Shyam Sunder Singh, MC EAAR II (197993K), 08 May 2009
- Anish K Singh, MC EAAR II (180975H), 01 Nov 2009
- Hari Kumar CH, MC EAP II (180719A), 01 Feb 2009
- Tapas Kumar Gope, MC EAP II ((175834Z), 01 Apr 2009
- Kamala Kant Dash, MC EAP II ((176516Z), 01 Apr 2009
- Sanjay Kumar, MC EAP II ((176947B), 01 Apr 2009
- Ashim Kumar Adhikari, MC Mech P II (177373Y), 01 Apr 2009
- Anand S R Deole, MC Mech P II (177386A), 01 Apr 2009
- Rajiv Ranjan Vinit, MC EAP II (177558T), 01 Apr 2009
- Biranchi Narayan Sahoo, MC Mech P II (178146B), 01 Apr 2009
- Jitendra Kumar Naik, MC EAP II (178147F), 01 Apr 2009
- Manjit Singh, MC EAP II (178282N), 01 Apr 2009
- Simaanta Biswas, MC Mech P II (178435K), 01 Apr 2009
- Mohammad Faizuddin, MC Mech P II (178923W), 01 Apr 2009
- KS Sreejith, MC EAP II (180576A), 01 Apr 2009
- Biswaranjan Ojha, MC EAP II (180610B), 01 Apr 2009
- Deepak Hooda, MC EAP II (180682T), 01 Apr 2009
- RK Maharana, MC EAP II (180696Z), 01 Apr 2009
- KK Verma, MC EAP II (180794Y), 01 Apr 2009
- AK Mishra, MC EAP II (180840A), 01 Apr 2009
- Jagat Singh, MC EAP II (180896B), 01 Apr 2009
- Sumit Kumar, MC EAP II (180908F), 01 Apr 2009
- Baldau Prasad Sen, MC EAP II (180927Z), 01 Apr 2009
- Peddi RVV Krishna, MC EAP II (180928A), 01 Apr 2009
- Bibekananda Dash, MC EAP II (197760F), 01 Apr 2009
- Manish Kumar, MC EAP II (197769A), 01 Apr 2009
- Deepak Singh Bisht, MC EAP II (197796N), 01 Apr 2009
- Ram Narayana, MC EAP II (197806K), 01 Apr 2009
- Ajay Pratap Rai, MC EAP II (197825B), 01 Apr 2009
- Kawade Maloji Limbajy, MC EAP II (197837F), 01 Apr 2009
- Thyag Sudhir Rajan, MC EAP II (197858B), 01 Apr 2009
- Swapan Kumar Saha, MC EAP II (197876W), 01 Apr 2009
- Arvind Kumar, MC EAP II (197885R), 01 Apr 2009
- Avadhesh Kumar, MC EAP II (197886T), 01 Apr 2009
- Ramesh Kumar, MC EAP II (197917N), 01 Apr 2009
- Sarvesh Kumar, MC EAP II (197921Y), 01 Apr 2009
- Satveer Singh, MC EAP II (197924B), 01 Apr 2009
- Benudhar Chhattoi, MC EAP II (197948H), 01 Apr 2009
- Pawan Kumar, MC EAP II (197970H), 01 Apr 2009
- Rajanikanta Kund, MC EAP II (197974T), 01 Apr 2009
- Sanjeet Kumar Singh, MC EAP II (197984R), 01 Apr 2009
- Siba Prasad Mohanty, MC EAP II (197991F), 02 Apr 2009
- Aneesh TD, MC EAP II (180715T), 02 Apr 2009
- Suraj Kumar R, MC EAP II (180572T), 22 Apr 2009

Devinder Kumar, MC Mech P II (115257Z), 01 Sep 2009  
Pratap Chandra Dhal, MC EAP II (179968W), 01 Sep 2009  
V Ruhani, MC EAP II (198057F), 01 Sep 2009  
Atma Prasad, MC EAP II (179221Y), 01 Jan 2010  
Raj Kumar, MC Mech P II (179329T), 01 Jan 2010  
Vanasetti Diwakar, MC EAP II (198056B), 01 Jan 2010  
Rupinder Singh, MC Mech P II (115614K), 01 Feb 2010  
Rajendra Singh Moond, MC Mech P II (177676K),  
01 Feb 2010  
Raj Pal, MC Mech P II (178841H), 01 Feb 2010  
Prakash C Mallick, MC EAP II (179970Z), 01 Feb 2010  
Nilanchala Panda, MC EAP II (180608Z), 01 Feb 2010  
Narendra S Rathore, MC EAP II (180895A), 01 Feb 2010  
Sandeep Arora, MC EAP II (180899K), 01 Feb 2010  
Amrish K Sharma, MC EAP II (180907B), 01 Feb 2010  
Dharmendra Singh, MC EAP II (180915Y), 01 Feb 2010  
Nirmal Singh, MC EAP II (181152K), 01 Feb 2010  
MC Sreejith, MC EAP II (181232T), 01 Feb 2010  
Vikram Singh Lalotra, MC EAP II (198058H), 01 Feb 2010  
Janmejaya Dout, MC EAR II (180619Z), 01 Apr 2008  
JP Singh, MC Ear II (180844K), 01 Sep 2008  
M Murugan, MC Mech R II (178162R), 01 Feb 2009  
Joseph Vijay G, MC Mech R II (115274N), 01 Apr 2009  
Pradeep Kumar, MC Mech R II (176005N), 01 Apr 2009  
Harsh Verma, MC Mech R II (177126K), 01 Apr 2009  
Amarendra Sahoo, MC Mech R II (177453B), 01 Apr 2009  
Alexander K Muthalali, MC Mech R II (177549Y),  
01 Apr 2009  
Mahesh Kumar Pahi, MC Mech R II (177590R), 01 Apr  
2009  
C Ravi, MC Mech R II (178774F), 01 Apr 2009  
Ram Kumar, MC Mech R II (178829F), 01 Apr 2009  
Ram K Maurya, MC EAR II (180522B), 01 Apr 2009  
Harjinder Singh, MC EAR II (180846R), 01 Apr 2009  
Deepak Kumar, MC EAR II (180847T), 01 Apr 2009  
B Prasana Kumar, MC EAR II (180865H), 01 Apr 2009  
Rajkumar Pathak, MC EAR II (180959Y), 01 Apr 2009  
Manoj Kumar, MC EAR II (181051F), 01 Apr 2009  
Rajesh K Sharma, MC EAR II (181057W), 01 Apr 2009  
Jagadeesh P Chandran, MC EAR II (181098N), 01 Apr 2009

Abhilash Sivadasan, MC EAR II (181099R), 01 Apr 2009  
Ari Vimal, MC EAR II (181220R), 01 Apr 2009  
Pankaj Kumar Yadav, MC EAR II (181341R), 01 Apr 2009  
Shiv Kumar Todiwan, MC EAR II (197813A), 01 Apr 2009  
Pradeep Dnyanoba Patil, MC EAR II (197845Z), 01 Apr  
2009  
M Maharaja, MC EAR II (197868A), 01 Apr 2009  
Sunil Singh, MC EAR II (197931W), 01 Apr 2009  
Suresh Kumar Verma, MC EAR II (197932Y), 01 Apr 2009  
Chandan Das, MC EAR II (197951R), 01 Apr 2009  
Sukumar Das, MC EAR II (198044A), 01 Apr 2009  
S Joshi, MC EAR II (198045B), 01 Apr 2009  
Rajesh Kumar, MC Mech R II (174840R), 02 Apr 2009  
Ashok Kumar, MC Mech R II (175318A), 01 Jul 2009  
Rakesh Kumar, MC EAR II (181052H), 01 Sep 2009  
Jose George, MC EAR II (181097K), 01 Sep 2009  
Ranjan Pandey, MC EAR II (181146Y), 01 Sep 2009  
Rajendra Singh, MC EAR II (181147Z), 01 Sep 2009  
Ganesh Datt Joshi, MC EAR II (181150F), 01 Sep 2009  
Antaryami Mohapatra, MC EAR II (181281B), 01 Sep 2009  
Rajesh Yadav, MC EAR II (181343W), 01 Sep 2009  
Hemraj, MC Mech R II (177482W), 01 Dec 2009  
Rakend P, MC EAR II (181270B), 01 Dec 2009  
Shivjee Prasad Kushwan, MC EAR II (181340N), 01 Dec  
2009  
Kamal Kant, MC EAR II (181283H), 01 Feb 2010  
Shaik Gouse Basha, MC EAR II (181494N), 01 Feb 2010  
Sanjay Kumar S, MC EAR II (181542Y), 01 Feb 2010  
Shailendra K Singh, MC EAR II (181548K), 01 Feb 2010  
S Kumar, MC EAR II (198105R), 01 Feb 2010  
Alok Tarwey, MC EAR II (198121A), 01 Feb 2010  
Ashok Kumar Singh, MC ELA II (168671W), 01 Aug 2009  
Suresh Kumar Beniwal, MC ELA II (169213A), 01 Dec  
2009  
Rajiv Kumar, MC ELAR II (168115F), 01 Jul 2009  
Nagendra Kumar Singh, MC ELAR II (166387B),  
01 Jan 2010  
Narendra Singh, MC ELP II (165080H), 01 Apr 2009  
Daulat Ram, MC ELP II (165628B), 01 Apr 2009  
Rabindra Nath Thakur, MC ELP II (167546N), 01 Apr 2009

Dilip Kumar Roy, MC ELP II (167548T), 01 Apr 2009	Manoj Kumar Yadav, MC ERA II (193592H), 01 Apr 2009
Naresh Kumar, MC ELP II (169408W), 01 Apr 2009	Mohammed Ghouselazam, MC ERA II (193596T), 01 Apr 2009
Samay Singh, MC ELP II (169021R), 01 Jun 2009	Tonapi Sanjay Kumar K, MC ERA II (193632Z), 01 Apr 2009
B Debnath, MC ELR II (164922Z), 01 Apr 2009	Naresh Kumar Yadav, MC ERA II (193656B), 01 Apr 2009
Mahadeb R Chowdhury, MC ELR II (168620B), 01 Apr 2009	Purushottam Dubey, MC ERA II (193660N), 01 Apr 2009
Hari Shanker Rai, MC ELR II (167536R), 01 Jul 2009	Ravi Shanker Pandey, MC ERA II (193667B), 01 Apr 2009
Suman Pal Singh, MC ELR II (167163T), 01 Sep 2009	Satendra Singh Yadav, MC ERA II (193670K), 01 Apr 2009
Ombeer Singh, MC ELR II (168325H), 01 Dec 2009	Sumeet Jhajharia, MC ERA II (193677A), 01 Apr 2009
Prem Pal Singh, MC ELR II (166496A), 01 Jan 2010	Sunil Kumar Chaturvedi, MC ERA II (193678B), 01 Apr 2009
Surendra Singh Chauhan, MC ERA II (193178T), 01 Apr 2009	Vivekanand Chaudhury, MC ERA II (193685W), 01 Apr 2009
Arun Kumar Krishnan, MC ERA II (193639R), 01 Apr 2009	Shone Thomas, MC ERA II (193711B), 01 Apr 2009
Borra Sudhakar Gupta, MC ERA II (193689B), 01 Sep 2009	Sanjaykumar Shrivastav, MC ERA II (193712F), 01 Apr 2009
Kurian Kuriakose, MC ERA II (177533K), 01 Feb 2009	Nithin Kumar, MC ERA II (193733B), 01 Apr 2009
K Sandeep, MC ERA II (180485W), 01 Feb 2009	Nitin Nayyar, MC ERA II (193734F), 01 Apr 2009
Kishore Kumar Verma, MC ERA II (180996F), 01 Feb 2009	Sunil Kumar Dubey, MC ERA II (193749R), 01 Apr 2009
Shyju Lal R, MC ERA II (181112W), 01 Feb 2009	Nawele Yogesh P, MC ERA II (180432Z), 01 Jul 2009
Diwan Singh, MC Mech II (168434F), 01 Apr 2009	Neeraj Tanwer, MC ERA II (180635K), 01 Jul 2009
Kunwar Singh, MC Mech II (169661W), 01 Apr 2009	Narendra Pal Singh, MC ERA II (180828Z), 01 Jul 2009
Pawan Kumar, MC Mech II (173322R), 01 Apr 2009	Rahangdale P Gulchand, MC ERA II (180438N), 01 Aug 2009
Dayamoy Dutta, MC Mech II (173593F), 01 Apr 2009	Dabholkar Rohit R, MC ERA II (180436H), 02 Aug 2009
Rakesh Singh, MC ERA II (175855Y), 01 Apr 2009	Sandeep Bisht, MC ERA II (181067T), 02 Aug 2009
Dinesh Kumar Chopra, MC ERA II (176470W), 01 Apr 2009	Vijay Singh, MC ERA II (193841Z), 02 Aug 2009
Debasisa Mohapatra, MC ERA II (177471W), 01 Apr 2009	Irfan Ali Ansari, MC Mech II (173473H), 01 Sep 2009
Sandeep Kumar, MC ERA II (180391F), 01 Apr 2009	Sumbe S Mhataraba, MC Mech II (175779Z), 01 Sep 2009
Ratnesh Kumar Mishra, MC ERA II (180421Z), 01 Apr 2009	Sukhdev Prasad, MC Mech II (175908T), 01 Sep 2009
Rajeev G Sharma, MC ERA II (180443Z), 01 Apr 2009	Ram Karan, MC Mech II (175975W), 01 Sep 2009
Mishra Rakesh Kumar, MC ERA II (180490F), 01 Apr 2009	Raj Kumar Gupta, MC Mech II (176186Z), 01 Sep 2009
Rajesh Kumar, MC ERA II (180653A), 01 Apr 2009	Lal Mani Verma, MC Mech II (176287B), 01 Sep 2009
Virendra Choudhary, MC ERA II (180658N), 01 Apr 2009	Choudhury P Kumar Das, MC ERA II (177467K), 01 Sep 2009
Samir Ranjan Dash, MC ERA II (180807A), 01 Apr 2009	I ohar Satish Sureshrao, MC ERA II (179731F), 01 Sep 2009
Narayankumar Panigrahy, MC ERA II (180814T), 01 Apr 2009	Ramesh Kumar Yadav, MC ERA II (181065N), 01 Sep 2009
Satyanarjan Das, MC ERA II (180815W), 01 Apr 2009	Gangadhararao Annadasu, MC ERA II (181119K), 01 Sep 2009
Subash Chandra Swain, MC ERA II (193555Z), 01 Apr 2009	Karri Vijaya Kumar, MC ERA II (181125Z), 01 Sep 2009
Arun Kumar, MC ERA II (193580F), 01 Apr 2009	

Ashis Kumar, MC ERA II (193760R), 01 Sep 2009  
 Anil Kumar, MC ERA II (193761T), 01 Sep 2009  
 Amit Yadav, MC ERA II (193768H), 01 Sep 2009  
 Bijay Kumar Dixit, MC ERA II (193773W), 01 Sep 2009  
 Dhananjaya S K, MC ERA II (193781N), 01 Sep 2009  
 Leo Raja S, MC ERA II (193791K), 01 Sep 2009  
 Pankaj Kumar Choudhary, MC ERA II (193805T), 01 Sep 2009  
 R Prabhu, MC ERA II (193813K), 01 Sep 2009  
 Vijay Shankar Singh, MC ERA II (193844F), 01 Sep 2009  
 Indrajeet Kumar, MC ERA II (193863Z), 01 Sep 2009  
 Ambekar D Ramesh, MC Mech II (177721N), 01 Oct 2009  
 Basanta Kumar Patnaik, MC ERA II (193853A), 01 Oct 2009  
 Satnarain Sharma, MC Mech II (177286Z), 01 Jan 2010  
 Kola Srinivas, MC Mech II (177767T), 01 Jan 2010  
 Harpreet Singh, MC ERA II (193729W), 07 Jan 2010  
 Patil Dipak Narayan, MC Mech II (172003T), 25 Jan 2010  
 Santhrupa Kumar MR, MC Mech II (178189A), 01 Feb 2010  
 Akeel Ahamad, MC ERA II (180659R), 01 Feb 2010  
 Vadlapudi Kiran Babu, MC ERA II (180870W), 01 Feb 2010  
 Jerome Simon M, MC ERA II (181002W), 01 Feb 2010  
 Shaqeel Ahmad, MC ERA II (181187R), 01 Feb 2010  
 Sreejith Babu MS, MC ERA II (181259B), 01 Feb 2010  
 Guditi V Narayana, MC ERA II (193491B), 01 Feb 2010  
 Aswini Kumar Das, MC ERA II (193770N), 01 Feb 2010  
 Naresh Kumar, MC ERA II (193796Y), 01 Feb 2010  
 Arvind Kumar S Jaswal, MC ERA II (193849T), 01 Feb 2010  
 Balendra Kumar B, MC ERA II (193852Z), 01 Feb 2010  
 Harendra Singh, MC ERA II (193861W), 01 Feb 2010  
 Janardan Bhatt, MC ERA II (193865B), 01 Feb 2010  
 Narayan Datt Pandey, MC ERA II (193877F), 01 Feb 2010  
 Rishi Raj, MC ERA II (193890K), 01 Feb 2010  
 Rupender Singh, MC ERA II (193891N), 01 Feb 2010  
 Raman, MC ERA II (193893T), 01 Feb 2010  
 Rakesh Kumar Verma, MC ERA II (193898B), 01 Feb 2010  
 Shijas P M, MC ME II (124810K), 11 Mar 2008  
 Nandkishor Sharma, MC ME II (163686R), 01 Jan 2009

Vijay Kumar, MC ME II (113374W), 01 Apr 2009  
 Gangadhar Barik, MC ME II (162483F), 01 Apr 2009  
 Jitendra Kumar Tyagi, MC ME II (162881K), 01 Apr 2009  
 Gurnam Singh, MC ME II (162895T), 01 Apr 2009  
 Prabhu Dayal, MC ME II (163245N), 01 Apr 2009  
 Binoda Kumar Tripathy, MC ME II (163488R), 01 Apr 2009  
 Nagandra Prasad Yadav, MC ME II (164308B), 01 Apr 2009  
 Navneet Kumar Dixit, MC ME II (170134W), 01 Apr 2009  
 Kondalarao Varikallu, MC ME II (172040A), 01 Apr 2009  
 Ravinder Kumar, MC ME II (171921F), 01 Dec 2009  
 Yogesh, MC SWA II (180408W), 01 Apr 2009  
 Thoppil N Jayakrishnan, MC SWA II (180455A), 01 Apr 2009  
 Adarsh Nirmal, MC SWA II (180641Z), 01 Apr 2009  
 Mayank Puri, MC SWA II (180772Y), 01 Apr 2009  
 D Srinivasa Reddy, MC SWA II (180869T), 01 Apr 2009  
 Anil Kumar Sardana, MC SWA II (181176R), 01 Apr 2009  
 N Mahalingam, MC SWA II (181252N), 01 Apr 2009  
 Rakesh Kumar, MC SWA II (181353T), 01 Apr 2009  
 Sudhir KS, MC SWA II (193567A), 01 Apr 2009  
 Dharam Singh Narwal, MC SWA II (193725K), 01 Apr 2009  
 Ajay Kumar Pandey, MC SWA II (193764Z), 01 Apr 2009  
 Kamesh K A, MC SWA II (193927W), 01 Apr 2009  
 Yogeshwar Sharma, MC SWA II (193935N), 01 Apr 2009  
 Durga Prasad Dhupam, MC SWA II (181297R), 16 Jul 2009  
 Ravinder Yadav, MC SWA II (181396R), 02 Aug 2009  
 Jagadish Kumar Raju T, MC SWA II (181308R), 01 Jan 2010  
 Rohit Mittal, MC SWA II (181401A), 01 Feb 2010  
 Yandamuri Balakishore, MC SWA II (181497W), 01 Feb 2010  
 Kishore Kumar Nayak, MC SWA II (181503H), 01 Feb 2010  
 Pardeep Rawal, MC SWA II (194021H), 01 Feb 2010  
 Rohita Kumar Behera, MCPO AF II (166191H), 01 Apr 2009  
 Rashmi Ranjan Nayak, MCPO AF II (166326R), 01 Apr 2009

Dau Dayal, MCPO AF II (168112Z), 01 Nov 2009	Kumar Bhoi, MCPO II (167946Y), 01 Nov 2009
NS Patil, MCPO AF II (168747T), 01 Nov 2009	Shashi Kanti Dubey, MCPO II (168062K), 01 Nov 2009
Ashok Kumar, MCPO AOF II (166707F), 01 Apr 2009	Ramesh Chand Nagar, MCPO II (168101Z), 01 Nov 2009
Harish Chandra, MCPO CK(O) (145165Y), 01 Apr 2009	C Suresh Kumar, MCPO II (168183K), 01 Nov 2009
Rajendra Kumar, MCPO CK(O) (145332A), 01 Oct 2009	Ajay Kumar, MCPO II (168813T), 01 Nov 2009
Shayamal KR Singha, MCPO CK(O) (145178A), 01 Nov 2009	Gopal Behera, MCPO II (169769R), 01 Nov 2009
Vijay Shanker Yadav, MCPO CK(O) (145179B), 01 Nov 2009	Roshan Lal, MCPO II (170486W), 01 Nov 2009
Balaram Debnath, MCPO CK(S) I (152346T), 01 Oct 2009	Apurba Majumdar, MCPO II (165983K), 01 Jan 2010
Suresh Singh, MCPO CK(S) I (109251Z), 01 Nov 2009	Jitendra Mishra, MCPO II (170117F), 01 Jan 2010
Ashok Singh, MCPO CK(S) I (145083K), 01 Nov 2009	Paras, MCPO M II (112745R), 01 Apr 2009
Sripal Singh Gusai, MCPO CK(S) I (109620N), 01 Dec 2009	Darshan Lal, MCPO M II (113301B), 01 Apr 2009
Kanwar Singh, MCPO CK(S) I (145038H), 01 Dec 2009	Surender Pal, MCPO M II (114374T), 01 Apr 2009
Kamlesh Bhunia, MCPO II (164182T), 01 Apr 2008	Jai Singh, MCPO M II (162315Z), 01 Apr 2009
Ashok Kumar Mallick, MCPO II (163485H), 01 Apr 2009	Naresh Kumar, MCPO M II (163918T), 01 Apr 2009
Banshidhar Sahoo, MCPO II (165504Y), 01 Apr 2009	Vivekanand Srivastav, MCPO M II (163877Z), 01 Jul 2009
P Satayan Nair, MCPO II (167349R), 01 Apr 2009	Lal Singh, MCPO M II (163264F), 01 Jan 2010
Sanjeev Rajput, MCPO II (124867R), 01 Apr 2009	Rajvir Singh, MCPO M II (163451F), 01 Jan 2010
Vijay Pal Singh, MCPO II (165122B), 01 May 2009	Gopal Singh, MCPO MUS II (188247K), 01 Apr 2009
C Mohan Singh Bisht, MCPO II (166763H), 01 May 2009	Deep Chand, MCPO STD II (145206R), 01 Apr 2009
G Chandra Lenka, MCPO II (164991F), 19 May 2009	Birender Singh, MCPO STD II (145293N), 01 Apr 2009
Davinder Kumar, MCPO II (166005K), 01 Jun 2009	Raj Singh, MCPO STD II (145207T), 01 Oct 2009
Vinod Kumar Singh, MCPO II (167646R), 01 Jul 2009	Gopal Chandra Mondal, MCPO STD II (145298Z), 01 Jan 2010
VG Jayadev, MCPO II (168994B), 01 Jul 2009	B Shankar Supakar, MCPO STD II (150067N), 01 Jan 2010
Satish Chandra Uprety, MCPO II (169026A), 01 Jul 2009	Chhote Lal Pal, MCPO TOP II (145111Z), 07 Jun 2009
Kalem Lokeswara Rao, MCPO II (168368F), 01 Aug 2009	Dhanapal Selvam, MCPO TOP II (145534K), 01 Jul 2009
Bittan Singh, MCPO II (169778K), 02 Aug 2009	Ram Charan, MCPO TOP II (145251T), 01 Jan 2010
Ajit Yadav, MCPO II (168685A), 01 Sep 2009	Arumugham Pandian, MCPO TOP II (145383T), 01 Jan 2010
Abhay Kumar Srivastava, MCPO II (164619K), 01 Oct 2009	Mohinder Kumar, MCPO WTR II (113358H), 01 Apr 2009
G Chandra Debnath, MCPO II (166955W), 01 Oct 2009	Nand Kishor P Singh, MCPO WTR II (145810N), 01 Apr 2009
Pradeep Kumar, MCPO II (167755N), 01 Oct 2009	Ramesh Chand, MCPO WTR II (161777A), 01 Apr 2009
Ikkal Mohammad Panwar, MCPO II (168605W), 01 Oct 2009	Sheo Shambhu Kunwar, MCPO WTR II (114765F), 01 Jul 2009
Narayanprasad Mahto, MCPO II (168881Y), 01 Oct 2009	Rakesh Kumar, MCPO WTR II (162403Z), 01 Jul 2009
Mohammad Ismail, MCPO II (167265Z), 01 Nov 2009	Jai Dev, MCPO WTR II (164501T), 01 Jan 2010
Rajiv Rajan Kumar, MCPO II (167444F), 01 Nov 2009	Ramesh Kumar Minhas, MCPO WTR II (165085W), 01 Jan 2010
Pawan Kumar, MCPO II (167531B), 01 Nov 2009	Budh Ram, MSCPO II (161147W), 01 Jun 2009
	Mahaveer Prasad, MSCPO II (114054R), 01 Jul 2009

Hukkam Singh, MSCPO II (114612H), 01 Jul 2009  
 Chaina Ram, MSCPO II (150348A), 01 Jul 2009  
 Rajender Kumar Yadav, MSCPO II (163179N), 01 Jul 2009  
 Jeet Bahadur Singh, MSCPO II (166654K), 01 Nov 2009  
 Bir Singh, MSCPO II (163175B), 01 Jan 2010  
 Suresh Chander, MSCPO II (163561F), 01 Jan 2010  
 Hare Ram Singh, MSCPO II (165415W), 01 Jan 2010

ASHISH SHARMA  
 Under Secy

#### NAVY BRANCH

No. 67, dated 21st January 2011—The President is pleased to make the following appointment in the Executive Branch (Logistics Cadre) of the Indian Navy for Direct Entry Scheme under the Ministry of Defence letter No. MF/1506/DES/Vol-I/03 dated 07 Jun 2006 from the date shown against the name :—

To be Sub Lt (on Probation)

Name of the Officers (P No.), Type of Commission & Date of Commission

Executive Branch (Logistics Cadre)—Jul 2003

Jasleen Kaur Arora (05478Z), SSC, 21 Aug 2003

R RAJAGOPALAN  
 Cdr  
 JDMPR (OI & R)

#### ARMY BRANCH

No. 68, Dated 21st November 2011—The President is pleased to make the promotions of the undermentioned AMC Officers with effect from the date mentioned against their names :—

#### REGULAR ARMY

##### PERMANENT COMMISSION

Maj to be Capt

Deepika Manoj (MR-07082W), AMC, 20 Jan 2010  
 Shailendra Kumar Chaudhary (MR-07785X), AMC, 02 Feb 2010  
 Swagata Banerjee (MR-08286P), AMC, 15 Jul 2010  
 Amita Rai (MR-08273X), AMC, 21 Jan 2010  
 Archana Saikia Tyagi (MR-08322P), AMC, 06 Aug 2010  
 Vandana Rana (MR-08418X), AMC, 01 Jun 2010  
 Rajesh Kumar Jha (MR-08499H), AMC, 02 Aug 2010  
 Pawan Kumar Shukla (MR-08334K), AMC, 10 May 2008

Subrata Bose (MR-07104K), AMC, 20 Jan 2010

Srinivasa S (MR-07841L), AMC, 27 Jan 2010

Sug Lt Cdr to be Surg Cdr

S Subramaniam (MS-14282P)(MR-08220Y)(75775), AMC, 21 Jan 2010

Flt Lt to Sqn Ldr

Surendra Kumar (MR-08740K)(AF-28373G), AMC, 12 Apr 2009

Capt to be Maj

Jaiel Aparna Bhalchandra (MS-15358W)(MR-08772M), AMC, 22 Sep 2010

Pawar Amit Ajay (MS-15380F)(MR-08778N), AMC, 22 Sep 2010

Biju R (MS-15347K)(MR-08795N), AMC, 22 Sep 2010

Kamal Kumar Deb (MS-15346F)(MR-08812H), AMC, 22 Sep 2010

Varun Jairth (MS-15096L)(MR-08923A), AMC, 17 Sep 2010

Amit Kumar Kamewad (MS-15334M)(MR-08916K), AMC, 22 Sep 2010

Achinta KR Mallick (MS-15421A)(MR-08955H), AMC, 06 Oct 2010

Anup Kumar (MS-15095H)(MR-08785K), AMC, 17 Sep 2010

Surabhi Sharma (MS-15323A)(MR-08793H), AMC, 22 Sep 2010

Tejinder Singh (MS-15338H)(MR-08917M), AMC, 22 Sep 2010

Atul Bucha (MS-15351M)(MR-08918P), AMC, 22 Sep 2010

Prasenjeet (MR-08154F), AMC, 27 Dec 2009

Brijesh Narayan (MS-15098W)(MR-08759H), AMC, 17 Sep 2010

Manoj Kumar (MS-15093X)(MR-08820F), AMC, 17 Sep 2010

Saurabh Vashishth (MR-08952P), AMC, 17 Sep 2010

Madhu Pratap Singh (MR-08237M), AMC, 20 Sep 2010

Anup Prakash B (MR-08777L), AMC, 22 Sep 2010

Ravi Kant (MR-08791X), AMC, 22 Sep 2010

Dilesh PK (MS-15319X)(MR-08792A), AMC, 22 Sep 2010

Puneet Singh (MS-15328Y)(MR-08794L), AMC, 22 Sep 2010

Nitin Sharma (MS-15374N)(MR-08796W), AMC, 22 Sep 2010

Harvinder Sangwan (MS-15318P)(MR-08914Y), AMC, 22 Sep 2010

Khaleel M (MS-15331Y)(MR-08915F), AMC, 22 Sep 2010

YASH PANDE

Brig

Dy DG AFMS(HR)

## ARMY BRANCH

No. 69, Dated 21st January 2011—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY  
RECORDS THE MIR

To be Subs Maj (GD)

Sub Pratap Singh Butola (JC-419664W), 01 Dec 2010

To be Subs (GD)

Nb Sub Gurdhian Singh (JC-420770F), 04 Oct 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Hans Raj Swami (JC-420503A), 01 Dec 2010

Nb Sub Surinder Singh (JC-420575K), 01 Dec 2010

Nb Sub Kishor Singh (JC-420579A), 01 Dec 2010

Nb Sub Vijay Kumar (JC-420838X), 01 Dec 2010

Nb Sub Pramod Kumar Chahar (JC-420929F), 01 Dec 2010

Nb Sub Satyanand Tiwari (JC-420932F), 01 Dec 2010

Nb Sub Varun Kumar Shukla (JC-420957N), 01 Dec 2010

Nb Sub Subhash Singh (JC-420936X), 01 Dec 2010

Nb Sub Jadeja Chen Singh Pathubha (JC-420969H), 01 Dec 2010

Nb Sub Tarun Kumar Manna (JC-421026W), 01 Dec 2010

Nb Sub Ashok Kumar Tripathi (JC-421027Y), 01 Dec 2010

Nb Sub Raj Dev Singh Yadav (JC-421071H), 02 Dec 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Satish Kumar (JC-421103A), 01 Dec 2010

Nb Sub Rakesh Singh (JC-421104H), 01 Dec 2010

Nb Sub Jasmininder Singh (JC-421079P), 01 Dec 2010

Nb Sub Rajesh Kumar (JC-421155W), 01 Dec 2010

Nb Sub Sughan Singh Bika (JC-421156Y), 01 Dec 2010

Nb Sub Parvinder Kumar (JC-421157F), 01 Dec 2010

Nb Sub Satheesh Kumar R (JC-421144K), 04 Dec 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Subs Sub wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Rajinder Singh (JC-420735Y), 09 Dec 2010

J ROY CHOWDHARY  
Under Secy

No. 70, dated 24th January 2011—The President is pleased to make the following promotions :—

## REGULAR ARMY

## INFANTRY

## THE PUNJAB REGIMENT

To be Sub (Religious Teachers)

Nb Sub RT (Pandit) Om Prakash Choubey (JC-428701F), 01 Mar 2010

Nb Sub RT (Granthi) Harbhajan Singh (JC-428700X), 01 Apr 2010

## SPECIAL LIST

## JAK RIF

To be Sub (Religious Teacher)

Nb Sub (RT) Moti Lal Pandey (JC-578908L), JAK Rif, 03 Aug 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allowances wef 01 Aug 2010 )

## THE MAHAR REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Kewal Singh (No. 4560382A now JC-570450X), 25 Jan 2010@

Hav Ram Singh (No. 4560384L now JC-570451A), 25 Jan 2010@

@(Gtd seniority without effect on pay & allces wef 06 Jan 2010)

Hav Ram Sawroop (No. 4559767L now JC-570452H), 23 Feb 2010#

#(Gtd seniority without effect on pay & allces wef 06 Jan 2010)

Hav Shinde Vijay Kumar Pralhad Rao (No. 4559593W now JC-570453L), 03 Mar 2010\$

Hav Kanade Rajendra Sukhadeo (No. 4559785N now JC-570454N), 03 Mar 2010\$

Hav More Ramesh Khandu (No. 4559999K now JC-570455W), 03 Mar 2010\$

\$(Gtd seniority without effect on pay & allces wef 23 Jan 2010)

Hav Sonawane Rajesh Dhana (No. 4561166Y now JC-570456Y), 09 Mar 2010%

%(Gtd seniority without effect on pay & allces wef 15 Feb 2010)

Hav Sonawane Chandrakant Dinkar (No. 4560167P now JC-570457F), 12 Mar 2010^



Hav Sarwade Vyankat Bhanudas (No. 4559983Y now JC-570458K), 31 Mar 2010^

^(Gtd seniority without effect on pay & allces wef 23 Jan 2010)

Hav Laxmi Prasad (No. 4560916A now JC-570459M), 23 Jan 2009&

&(Gtd seniority without effect on pay & allces wef 25 Sep 2009)

Hav Kambale Jayanand Malakari (No. 4559356M now JC-570460F), 10 Feb 2010\*

\*(Gtd seniority without effect on pay & allces wef 02 Dec 2009)

Hav Dorugade Hanmant Ramu (No. 4560637P now JC-570461K), 16 Feb 2010+

+(Gtd seniority without effect on pay & allces wef 02 Jan 2010)

Hav Vikram Chand (No. 4562005H now JC-570462M), 22 Feb 2010=

=(Gtd seniority without effect on pay & allces wef 01 Oct 2009)

Hav Devlekar Pradeep Tulshidas (No. 4562079X now JC-570463P), 22 Feb 2010{

{{(Gtd seniority without effect on pay & allces wef 01 Jan 2010)

Hav Sonkamble Gundu Sonaba (No. 4560765M now JC-570464X), 01 Mar 2010

Hav Gangadhar Pradhan (No. 4562111F now JC-570465A), 11 Mar 2010}

}(Gtd seniority without effect on pay & allces wef 01 Feb 2010)

Hav Lal Singh Manesha (No. 4562201H now JC-570466H), 01 Apr 2010

Hav Om Prakash (No. 4562366F now JC-570467L), 01 Apr 2010

Hav Subhash Chander (No. 4562412L now JC-570468N), 01 Apr 2010

Hav Vankar Magan Bhai Jaga Bhai (No. 4561110M now JC-570469W), 01 Apr 2010<

<(Gtd seniority without effect on pay & allces wef 14 Jan 2010)

Hav Jadav Bharat Bhai Shamji Bhai (No. 4561150N now JC-570470L), 01 Apr 2010

Hav Shiv Kumar Pal (No. 8032366H now JC-570471N), 01 Apr 2010

Hav Yashwant Singh (No. 4560221X now JC-570472W), 01 Apr 2010

Hav Jarnail Singh (No. 4560372W now JC-570473Y), 01 Apr 2010

Hav Indarjit Singh Yadav (No. 4566350N now JC-570474F), 01 Apr 2010

Hav Mohinder Singh (No. 4560085M now JC-570475K), 02 Apr 2010>

>(Gtd seniority without effect on pay & allces wef 01 Apr 2010)

Hav Dilbagh Singh (No. 4562104L now JC-570476M), 02 Apr 2010@@

Hav Amrik Singh (No. 4562190F now JC-570477P), 02 Apr 2010@@

Hav Nishan Singh (No. 4560270A now JC-570478X), 28 Apr 2010@@

Hav Parkash Chand (No. 4560278M now JC-570478M), 04 Apr 2010@@

Hav Harjinder Singh (No. 4560298A now JC-570480P), 04 Apr 2010@@

Hav Ummad Singh Rathore (No. 4560300M now JC-570481X), 04 Apr 2010@@

Hav Raj Kumar (No. 4560416H now JC-570482A), 04 Apr 2010@@

@@(Gtd seniority without effect on pay & allces wef 01 Apr 2010)

Hav Het Ram Singh (No. 4561136F now JC-570483H), 22 Apr 2010##

##(Gtd seniority without effect on pay & allces wef 05 Mar 2010)

Hav Manohar Lal (No. 4560385N now JC-570484L), 10 May 2010\$\$

\$\$ (Gtd seniority without effect on pay & allces wef 01 Apr 2010)

#### THE PARACHUTE REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Rajpal Singh (No. 13618672M now JC-413449P), 01 Jan 2010

Hav Basti Ram Bishnoi (No. 13618402X now JC-413450K), 04 Mar 2010\*

\*(Gtd ante date seniority without effect on pay & allces wef 01 Feb 2010)

Hav Tarsem Singh (No. 13618431M now JC-413451M), 10 Mar 2010\*

\*(Gtd ante date seniority without effect on pay & allces wef 01 Feb 2010)

Hav Kokitkar Ramu Jotiba (No. 13619731A now JC-413452P), 06 Feb 2010

Hav Umesh Pratap Singh (No. 13619288X now JC-413453X), 10 Mar 2010\*

\*(Gtd ante date seniority without effect on pay & allces wef 01 Mar 2010)

Hav Mahipal Singh Rawat (No. 13617437F now JC-413454A), 01 Apr 2010

Hav Shakruddeen Kathat (No. 13617552F now JC-413455H), 01 Apr 2010

Hav Gurjit Ram SM (No. 13617660L now JC-413456L), 01 Apr 2010

Hav Rajendra Pratap Singh (No. 13617775Y now JC-413457N), 01 Apr 2010

Hav Rattan Lal (No. 3988327X now JC-413458W), 01 May 2010

Hav Sanatan Behera (No. 13616331H now JC-413459Y), 01 May 2010

Hav Manoj Kumar (No. 13617154A now JC-413460N), 24 Apr 2010

Hav Nandan Singh Bora (No. 13617438K now JC-413461W), 18 May 2010

\*(Gtd ante date seniority without effect on pay & allces wef 01 May 2010)

Hav Randhir Singh (No. 13618682W now JC-413463F), 10 Apr 2010

\*(Gtd ante date seniority without effect on pay & allces wef 01 Apr 2010)

Hav Rajesh Kumar (No. 13618827W now JC-413464K), 10 Apr 2010

\*(Gtd ante date seniority without effect on pay & allces wef 01 Apr 2010)

Hav Hari AR, SM (No. 13620022X now JC-413465M), 25 Mar 2010

To be Nb Sub (Clk)

Hav Clk (SD) K Mani (No. 13618130H now JC-413462Y), 01 May 2010

Hav Clk (SD) Dileep Kumar (No. 13692131A now JC-413466P), 01 May 2010

#### THE BIHAR REGIMENT

To be Nb Sub (GD)

Hav Manoj Kumar (No. 4265761F now JC-560357H), 30 Apr 2010/01 Mar 2010(S)\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Mar 2010 without effect on pay and allces)

Hav Kiriam Karwa (No. 4270812N now JC-560358L), 21 May 2010/01 Apr 2010(S)\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 2010 without effect on pay and allces)

Hav Dharmendra Singh (No. 4267880W now JC-560359N), 21 May 2010/01 May 2010(S)\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 May 2010 without effect on pay and allces)

Hav Birendra Kumar (No. 13618367A now JC-560367M), 26 June 2010/01 Dec 2009(S)\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Dec 2009 without effect on pay and allces)

Hav Sagen Kumar Topno (No. 4267777L now JC-560368P), 19 Jun 2010/19 Dec 2009(S)\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 19 Dec 2009 without effect on pay and allces)

Hav Bhuleshwar Pradhan (No. 4270115N now JC-560369X), 06 Jul 2010/20 Jan 2010(S)\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 20 Jan 2010 without effect on pay and allces)

Hav Vinod Prasad (No. 4265686H now JC-560370M), 02 Jun 2010/01 Mar 2010(S)\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Mar 2010 without effect on pay and allces)

Hav Siyaram Yadav (No. 4266530X now JC-560371P), 05 Jul 2010/01 Mar 2010(S)\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Mar 2010 without effect on pay and allces)

Hav Lakshman Sah (No. 4266019F now JC-560372X), 07 Jul 2010/06 Mar 2010(S)\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 06 Mar 2010 without effect on pay and allces)

Hav Dhande Sabulal Kalya (No. 4268156Y now JC-560373A), 16 May 2010/01 Apr 2010(S)\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 2010 without effect on pay and allces)

Hav Sanatan Kalundia (No. 4270822X now JC-560374H), 10 Jul 2010/01 Apr 2010(S)\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 2010 without effect on pay and allces)

Hav Prakash Lakra (No. 4271181H now JC-560375L), 15 Jul 2010/01 Apr 2010(S)\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 2010 without effect on pay and allces)

Hav Ajay Kumar Singh (No. 4265979N now JC-560376N), 12 Jul 2010/28 Apr 2010(S)\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 28 Apr 2010 without effect on pay and allces)

Hav Deo Narayan Yadav (No. 4266890N now JC-560377W), 26 Jun 2010/05 May 2010(S)\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 05 May 2010 without effect on pay and allces)

Hav Somra Ekka (No. 4267100A now JC-560378Y), 01 Jul 2010

### THE SIKH REGIMENT

#### To be Nb Sub

Hav Amarjit Singh (No. 3391137Y now JC-500225L), 07 Apr 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Feb 2010 without effect on pay and allces)

Hav Hakam Singh (No. 3389177F now JC-500226N), 10 May 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Apr 2010 without effect on pay and allces)

Hav Bikar Singh (No. 3389903L now JC-500227W), 19 May 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 24 Apr 2010 without effect on pay and allces)

Hav Satnam Singh (No. 3389204A now JC-500228Y), 02 Jun 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Apr 2010 without effect on pay and allces)

Hav Jarnail Singh (No. 3388023H now JC-500229F), 13 May 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2010 without effect on pay and allces)

Hav Harkirat Singh (No. 3387823P now JC-500230W), 07 Jun 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 06 May 2010 without effect on pay and allces)

Hav Bhag Singh SC (No. 3390996X now JC-500231Y), 05 Jun 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 11 May 2010 without effect on pay and allces)

Hav Jagdish Singh (No. 3388568A now JC-500232F), 01 Jun 2010

Hav Mohan Singh (No. 3388463W now JC-500233K), 05 Jun 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allces)

#### To be Nb Sub (Clk)

Hav Clk Mahesh Chand (No. 4270443F now JC-500234M), 14 May 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub Clk wef 01 May 2010 without effect on pay and allces)

#### To be Nb Sub

Hav Harbans Singh (No. 3388693K now JC-500235P), 05 Jul 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allces)

Hav Jaswinder Singh (No. 3388715X now JC-500236X), 02 Jul 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allces)

Hav Mohinder Singh (No. 3388905K now JC-500237A), 23 Jun 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2010 without effect on pay and allces)

Hav Kulwinder Singh (No. 3389570K now JC-500238H), 14 Jun 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 12 May 2010 without effect on pay and allces)

Hav Chamkaur Singh (No. 3390153K now JC-500239L), 26 Jun 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allces)

#### To be Nb Sub (Clk)

Hav Clk Ramesh Chandra (No. 3391530F now JC-500240A), 01 Jul 2010

Hav Clk Gulab Singh (No. 3391541N now JC-500241H), 01 Jul 2010

Hav Clk Jagdish Prasad (No. 3391543Y now JC-500242L), 01 Jul 2010

### THE JAT REGIMENT

#### To be Nb Sub

Hav Prem Singh (No. 3179950L now JC-490545K), 01 Apr 2010

Hav Ashok Kumar (No. 3180689H now JC-490546M), 01 Apr 2010

Hav Mool Chand (No. 3180821X now JC-490547P), 01 Apr 2010

Hav Ramvir Singh (No. 3180825N now JC-490548X), 01 Apr 2010

Hav Devendra Singh (No. 3181040W now JC-490549A), 01 Apr 2010

Hav Bhoodev Singh (No. 3181126P now JC-490550P), 01 Apr 2010

Hav Satya Pal (No. 3180849X now JC-490551X), 01 Apr 2010

Hav Ram Niwash (No. 3185043F now JC-490552A), 07 Apr 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay & allces)

Hav Shiv Singh Chahar (No. 3183316A now JC-490553H), 14 May 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Apr 2010 without effect on pay & allces)

Hav Anil Kumar (No. 3183926M now JC-490554L),  
04 May 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2010  
without effect on pay & allces)

Hav Shiv Ganesh (No. 3182853Y now JC-490555N),  
01 May 2010

Hav Bijender Singh (No. 3184322A now JC-490556W),  
01 Jun 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2009  
without effect on pay & allces)

Hav Hambir (No. 3180867A now JC-490557Y), 25 May  
2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2010  
without effect on pay & allces)

Hav Birpal Singh, SM (No. 3181204F now JC-490558F),  
21 Jun 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Apr 2010  
without effect on pay & allces)

Hav Chhotu Ram (No. 3181759H now JC-490559K),  
12 May 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2010  
without effect on pay & allces)

Hav Narender Kumar (No. 3180912F now JC-490560Y),  
25 May 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2010  
without effect on pay & allces)

Hav Dilbagh Singh (No. 3182941P now JC-490561F),  
27 May 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2010  
without effect on pay & allces)

Hav Sumer Singh (No. 3182711F now JC-490562K),  
01 Jun 2010

Hav Satyaweer Jat (No. 13619349K now JC-490563M),  
28 Jun 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 04 Jun 2010  
without effect on pay & allces)

Hav Satyawan (No. 3181263N now JC-490564P), 01 Jul  
2010

Hav Hari Ram (No. 3182959L now JC-490565X), 01 Jul  
2010

To be Nb Sub (Clk)

Hav Clk Santosh Kumar Patel (No. 3181210P now JC-  
490566A), 01 Jul 2010

Hav Clk Kailash Chandra Pandey (No. 3181559M now  
JC-490567H), 01 Jul 2010

5 GR (FF)

To be Nb Sub (GD)

Hav Prasad Gurung (No. 5451474M now JC-617989P),  
08 May 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 24 Apr 2010  
without effect on pay & allces)

Hav Khem Bahadur Thapa (No. 5451775W now JC-  
617990K), 08 May 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 24 Apr 2010  
without effect on pay & allces)

Hav Nabin Gurung (No. 5451817X now JC-617991M),  
08 May 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2010  
without effect on pay & allces)

Hav Dinesh Bahadur Thapa (No. 5450552A now JC-  
617992P), 16 May 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2010  
without effect on pay & allces)

Hav Moti Bahadur Thapa (No. 5450751A now JC-  
617984W), 01 May 2010

Hav Dil Bahadur Thapa (No. 5450548K now JC-617985Y),  
01 May 2010

Hav Lal Bahadur Thapa (No. 5450526L now JC-617986F),  
01 May 2010

Hav Mohan Pratap Khan (No. 5450533F now JC-  
617987K), 01 May 2010

Hav Bikas Gurung (No. 5454933L now JC-617988M),  
08 May 2010

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 24 Apr  
2010 without effect on pay and allowances)

#### THE ASSAM REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Nripen Das (No. 4358759W now JC-549893L),  
21 Apr 2010/28 Dec 2009\*

Hav Rakesh Singha (No. 4360283N now JC-549993W),  
13 Apr 2010/01 Feb 2010\*

Hav Chhanliana (No. 4360320W now JC-549994Y),  
10 Apr 2010/16 Mar 2010\*

Hav Gopal Chandra Paul (No. 4361214K now JC-550000Y),  
13 Mar 2010/27 Dec 2009\*

Hav Gopal Chandra Nath (No. 4361109N now JC-  
550001F), 02 Mar 2010/19 Jan 2010\*

Hav Haojam Thoiba Singh (No. 4361295P now JC-  
550002K), 15 Mar 2010/01 Feb 2010\*

Hav Lil Bahadur Gurung (No. 4363053L now JC-  
550003M), 15 Mar 2010/07 Feb 2010\*

Hav Lakhi Kanta Ray (No. 4360456A now JC-550004P),  
01 Mar 2010/22 Feb 2010\*

Hav Anil Saikia (No. 4360641N now JC-550005), 01 Mar  
2010/01 Mar 2010\*

Hav Moti Lal Sharma (No. 4361184X now JC-550006A),  
02 Mar 2010/01 Mar 2010\*

Hav Deba Kanta Nath (No. 4361405Y now JC-550007H),  
02 Mar 2010/01 Mar 2010\*

Hav Bini Ram Chetri (No. 4360621A now JC-550008L),  
22 Mar 2010/01 Mar 2009\*

Hav Meen Bahadur (No. 4363202N now JC-550009N),  
15 Mar 2010/01 Mar 2010\*

Hav Y Rajendra Singh (No. 4360747A now JC-550010H),  
06 Apr 2010/01 Mar 2010\*

Hav Lakshi Ram Nath (No. 2594483N now JC-550012N),  
12 May 2010/03 Mar 2010\*

Hav Lalbiakthara (No. 4361459A now JC-550013W),  
15 Apr 2010/28 Mar 2010\*

Hav Khamliana (No. 4361703P now JC-550015F), 01 Apr  
2010/01 Apr 2010\*

Hav Chandra Kanta Rabha (No. 4361966N now JC-  
550016K), 01 Apr 2010/01 Apr 2010\*

Hav Md Nizammuddin (No. 4360549P now JC-550017M),  
21 Apr 2010/03 Apr 2010\*

Hav Baba Sana Singha (No. 4358746Y now JC-550018P),  
05 May 2010/07 Apr 2010\*

Hav Paresh Bar Phukon (No. 4358886L now JC-550019X),  
05 May 2010/07 Apr 2010\*

Hav Samuel R Sangma (No. 4360572H now JC-550020M),  
05 May 2010/07 Apr 2010\*

Hav Pheiroijam Ibomcha Singh (No. 4360619H now JC-  
550021P), 05 May 2010/07 Apr 2010\*

Hav/Clk Dinesan Puthur (No. 4270584W now JC-  
549999X), 10 Mar 2010/15 Feb 2010\*

Hav/Clk Kumaresan A (No. 3184217K now JC-550022X),  
23 Apr 2010/01 Apr 2010\*

\*(Seniority wef without effect on pay and allowances)

#### THE PUNJAB REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Jai Ram Chauhan (No. 2480669X now JC-430658H),  
09 Apr 2010

(Granted ante dated seniority wef 01 Jan 2010 without  
effect on pay and allowances)

Hav Om Parkash (No. 2480784X now JC-430659L),  
09 Apr 2010

(Granted ante dated seniority wef 01 Jan 2010 without  
effect on pay and allowances)

Hav Shiv Charan (No. 2480808W now JC-430660A),  
09 Apr 2010

(Granted ante dated seniority wef 01 Mar 2010 without  
effect on pay and allowances)

Hav Rakesh Chand (No. 2480128W now JC-430661H),  
30 Apr 2010

(Granted ante dated seniority wef 01 Apr 2010 without  
effect on pay and allowances)

Hav Kewal Singh (No. 2480858F now JC-430662L),  
09 Apr 2010

(Granted ante dated seniority wef 01 Apr 2010 without  
effect on pay and allowances)

Hav Bhupinder Singh (No. 2481124M now JC-430663N),  
09 Apr 2010

(Granted ante dated seniority wef 01 Apr 2010 without  
effect on pay and allowances)

Hav Sakattar Singh (No. 2480588X now JC-430664W),  
06 May 2010

(Granted ante dated seniority wef 01 May 2010 without  
effect on pay and allowances)

Hav Manohar Lal Sharma (No. 2480388F now JC-  
430665Y), 01 May 2010

Hav Rajiv Kumar (No. 2480401A now JC-430666F),  
01 May 2010

Hav Harbans Lal (No. 2480675L now JC-430667K),  
01 May 2010

Hav Ashok Kumar (No. 2481833F now JC-430668M),  
04 May 2010

(Granted ante dated seniority wef 01 May 2010 without  
effect on pay and allowances)

Hav Jasbir Singh (No. 2480047W now JC-430669P),  
02 Apr 2010

(Granted ante dated seniority wef 08 Mar 2010 without  
effect on pay and allowances)

Hav Vajir Singh (No. 2480468Y now JC-430670K), 26 Apr  
2010

(Granted ante dated seniority wef 01 Apr 2010 without  
effect on pay and allowances)

Hav Hukum Chand (No. 2480653M now JC-430671M),  
26 Apr 2010

(Granted ante dated seniority wef 01 Apr 2010 without  
effect on pay and allowances)

Hav Chaman Lal (No. 2480657H now JC-430672P), 26 Apr  
2010

(Granted ante dated seniority wef 01 Apr 2010 without  
effect on pay and allowances)

Hav Narender Kumar Chandel (No. 2480679F now JC-430673X), 26 Apr 2010

(Granted ante dated seniority wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Kulwinder Singh (No. 2480488M now JC-430674A), 04 May 2010

(Granted ante dated seniority wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Sukhchain Singh (No. 2480829M now JC-430675H), 04 May 2010

(Granted ante dated seniority wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Kuldip Singh (No. 2479980L now JC-430676L), 04 May 2010

(Granted ante dated seniority wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

JAK RIF

To be Subs Nb Sub (GD)

Hav Swarn Singh Chark (No. 13753274Y now JC-581057P), 28 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 30 Dec 2009)

Hav Nalin Kumar Rana (No. 13751022N now JC-581058X), 18 Jan 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jan 2010)

Hav Sanwar Singh (No. 13751473N now JC-581059A), 12 Feb 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2010)

Hav Manohar Kumar (No. 13754335X now JC-581060P), 01 Feb 2010

Hav Pardeep Singh (No. 13752047M now JC-581061X), 01 Feb 2010

Hav Parveen Kumar (No. 13752286F now JC-581062A), 01 Feb 2010

Hav Madan Lal (No. 13752402Y now JC-581063H), 15 Feb 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2010)

Hav Rup Lal (No. 13752099H now JC-581064L), 01 Feb 2010

Hav Surinder Kumar (No. 13753132F now JC-581065N), 15 Feb 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2010)

Hav/Clk Bagal Hanmant Ramchandra (No. 13753676W now JC-581066W), 01 Mar 2010

Hav/Clk Veer Vasant Ramrao (No. 13753677Y now JC-581067Y), 01 Mar 2010

Hav/Clk Patel Vijay Kumar Rana Bhai (No. 13753711N now JC-581068F), 01 Mar 2010

Hav/Clk Mani Raj KP (No. 13753766X now JC-581069K), 01 Mar 2010

Hav Vinod Kumar Mehra (No. 13752361A now JC-581081L), 19 Apr 2010\*

(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Mar 2010)

Hav Nirmal Singh (No. 13751979M now JC-581082N), 03 Apr 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Apr 2010)

Hav Vijay Kumar Sharma (No. 13751426W now JC-581083W), 01 Apr 2010

Hav Shakeen Singh (No. 13751408N now JC-581084Y), 05 Apr 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Apr 2010)

Hav Parshotam Singh (No. 13751413Y now JC-581085F), 05 Apr 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Apr 2010)

Hav Jaipal Singh Katal (No. 13751414F now JC-581086K), 05 Apr 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Apr 2010)

Hav Rajinder Kumar (No. 13752400N now JC-581087M), 04 Apr 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Apr 2010)

Hav Chura Mani (No. 13752100M now JC-581088P), 01 Apr 2010

Hav Kishan Singh (No. 13753199A now JC-581089X), 01 Apr 2010

Hav Bipan Kumar (No. 13753221A now JC-581090M), 07 Apr 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Apr 2010)

Hav Daljit Singh (No. 13752545Y now JC-581091P), 01 Apr 2010

Hav Dharmesh Chhetri (No. 13751128A now JC-581092X), 01 Apr 2010

Hav Pradeep Kumar (No. 13751498A now JC-581093A),  
03 May 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 Apr 2010)

Hav Gautam Singh (No. 13752561W now JC-581094H),  
03 Apr 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 Apr 2010)

Hav Varinder Kumar (No. 13751111M now JC-581097W),  
02 May 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 May 2010)

Hav Ramesh Chand (No. 13752738Y now JC-581098Y),  
01 May 2010

To be Subs Nb Sub/Clk (SD)

Hav/Clk Jeya Kumar L (No. 13753448N now JC-581095L),  
01 May 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 Dec 2009)

Hav/Clk Vinodan KK (No. 13753767A now JC-581096N),  
05 May 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 May 2010)

11 GR

To be Nb Sub

Hav Maula Bahadur Tamang (No. 9419734X now JC-  
634927L), 24 May 2010

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May  
2010 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk) Manoj Kumar Rai (No. 9418450F now JC-  
634928N), 01 Jul 2010\*

Hav (Clk) Sukhvir Singh (No. 9418506H now JC-  
634929W), 01 Jul 2010

S ASHRAF  
Under Secy

#### ARMY BRANCH

No. 71, dated the 24th January 2011—The President is  
pleased to make the following promotion :—

#### REGULAR ARMY

#### ARMED CORPS RECORDS

To be Nb Ris

Dfr (Dvr/Gnr) Tara Chandra (No. 1089422N now JC-  
244193P), 01 Apr 2010

Dfr (Dvr/Gnr) Surinder Kumar (No. 15462508M now JC-  
244570A), 19 Oct 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2010  
without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Yogendra Singh (No. 1089185P now JC-  
244691F), 20 Oct 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr  
2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Shan Singh Yadav (No. 1089920A now JC-  
244692K), 20 Oct 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2010  
without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Lal Babu Sah (No. 1099532W now JC-  
244693M), 20 Oct 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Sep  
2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Rabindra Jha (No. 15462859F now JC-  
244647X), 01 Sep 2010

Dfr (Dvr/Gnr) Karpal Singh (No. 15462029L now JC-  
244684L), 19 Oct 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 15 Sep  
2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Shaquin Singh (No. 15461646F now JC-  
244686W), 25 Oct 2010

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Sep  
2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Ashim Kumar (No. 1088212F now JC-  
244703L), 01 Nov 2010

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct  
2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Bhoop Singh (No. 1089391Y now JC-  
244704N), 01 Nov 2010

Dfr (Opr/Gnr) P Govinda Swamy (No. 1089480X now JC-  
244705W), 01 Nov 2010

Dfr (Opr/Gnr) Karamvir Singh (No. 1089586K now JC-  
244706Y), 01 Nov 2010

Dfr (Opr/Gnr) Kailash Singh (No. 1089602W now JC-  
244707F), 01 Nov 2010

Dfr (Opr/Gnr) Subodh Kumar Sada (No. 1089847M now  
JC-244711K), 01 Nov 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct  
2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Surender Kumar (No. 1098743M now JC-  
244712M), 01 Nov 2010

Dfr (Gnr/Opr) Natwar Singh Rathore (No. 1089672P now  
JC-244609F), 04 Aug 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug  
2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Shambhu Lal (No. 15461095F now JC-244628M), 23 Sep 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Veer Pal (No. 1098773K now JC-244718N), 05 Nov 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Satnam Singh (No. 15464107W now JC-244719W), 05 Nov 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Harendra Singh (No. 15461195M now JC-244723Y), 15 Nov 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Jaswinder Singh (No. 15462421L now JC-244725K), 15 Nov 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Rajesh Kumar (No. 15462583W now JC-244726M), 12 Nov 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 06 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Syed Mahaboob Subi (No. 1099582F now JC-244727P), 12 Nov 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Subhash (No. 15463884M now JC-244728X), 12 Nov 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Jamil Ahamad (No. 1099613W now JC-244729A), 12 Nov 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Vinit Kumar (No. 15462647W now JC-244730P), 12 Nov 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 11 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Shaikh Mohammad A (No. 15461131F now JC-244731X), 12 Nov 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2010 without effect on pay and allowances)

Ex Dfr Ranvijay Singh (No. 1069680M now JC-244763A), 01 Sep 2004

J ROY CHOWDHARY  
Under Secy

#### DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 72, dated 24th January 2011—Consequent upon accepting the voluntary retirement of Shri K K Singhal, TO 'B', Dte of Public Interface, DRDO HQ, he has been retired voluntarily from service with effect from 01 Jan 2011 (FN) at his own volition and transferred to pension establishment with effect from 01 Jan 2011 (FN)

B B SHARMA  
Jt Dir (Pers-TC)

#### ARMY BRANCH

No. 73, dated 24th January 2011—The President is pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY

#### THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

In the Ministry of Defence Notification No. 452, dated 15 Jul 2010 published in the Gazette of India serial No. 35, dated 28 Aug 2010 under heading "Regular Army" Sub heading "The Mechanised Infantry Regiment" below :—

To be Nb Sub

For

Hav Ranjeet Singh (No. 14916133M now JC-421582M), 07 Apr 2010

Read

Hav Ranjeet Singh (No. 14916133M now JC-421582M), 01 May 2010

J ROY CHOWDHARY  
Under Secy